



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

No. 59]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2007/माघ 2, 1928

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2007/MAGHA 2, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2007

का.आ. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1030(अ), तारीख 7 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 10 जुलाई, 2006 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के साहिबजादा, अजीत सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 10.740 कि.मी. से 11.880 कि.मी. और 12.820 कि.मी. से 39.960 कि.मी. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 0.000 कि.मी. से 0.871 कि.मी. (अम्बाला-जीरकपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 29 जुलाई, 2006 को "अमर उजाला" और "दि ट्रिब्यून" दोनों में तथा 30 जुलाई, 2006 को "अजीत" में प्रकाशित किया गया था;

और, कुल 70 आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

पंजाब राज्य के साहिबजावा अजीत सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH - 22 और 21 कि. मी. 10.740 कि. मी. से 11.880 कि. मी. और कि. मी. 12.800 से कि. मी. 39.960 कि. मी. तक (अम्बाला-छण्डीगढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्रमांक संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम और हवेलर नम्बर	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (बीघे/बिसवा) (कनाल/मरला)	भूस्वामीयों/हितवाह व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	साहिबजावा अजीत सिंह नगर	हेराबस्ती	1. झरमड़ी 159	1175/321	प्राइवेट	रोसाली	0-2	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				1174/321	प्राइवेट	फैक्टरी	0-5	श्रीमति रिंकी पत्नी तरलोचन सिंह
				321/1	ग्राम पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-1	ग्राम पंचायत
				1266/323	प्राइवेट	रोसाली	0-9	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				324	प्राइवेट	चाही	0-10	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				333	प्राइवेट	रोसाली	0-11	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				335	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-13	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				336	ग्राम पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-1/1/2	ग्राम पंचायत
				338	प्राइवेट	रोसाली	0-19	श्रीमति निमि बिक्रम पत्नी प्रवीण कुमार
				339	प्राइवेट	रोसाली	0-12	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				342	प्राइवेट	रोसाली	0-4	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				343	प्राइवेट	रोसाली	0-4	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				347	प्राइवेट	रोसाली	0-5	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				353	प्राइवेट	रोसाली	0-6	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
				355	प्राइवेट	दकर	0-13	हरदीप वर्मा पुत्र विश्वामित्र
				356	प्राइवेट	दकर	0-6	हरदीप वर्मा पुत्र विश्वामित्र
				388	ग्राम पंचायत	गैर मुमकिन रोड़	0-3	राज्य सरकार
				1204/391	प्राइवेट	रोसाली	0-16	नरेश अरोड़ा पुत्र विरभन 1/2 शेयर पुनित शुक्ला पुत्र बिज मोहन 1/2 शेयर
				397	गैर मुमकिन पंचायत	गैर मुमकिन होटल	0-7	नराता सर्वजीत पुत्र मेहर
				1173/392	प्राइवेट	रोसाली	0-2	विश्व प्रकाश पुत्र बाबू चन्द
				1174/392	प्राइवेट	रोसाली	0-3	श्रीमति शिक्षा रानी पत्नी चन्दमोहन

				1205/393	प्राविट	रोसली	0-3	श्रीमति शिखा रानी पत्नी चन्द्रमोहन
				1206/393	प्राविट	रोसली	0-2	श्रीमति शिखा रानी पत्नी चन्द्रमोहन
				1207/393	प्राविट	रोसली	0-6	श्रीमति शिखा रानी पत्नी चन्द्रमोहन
				1268/357	नगर पंचायत	गैर मुक्तिकन	0-0	हरदीप वर्मा पुत्र विश्वामित्र
				398	प्राविट	गैर मुक्तिकन रस्ता	0-1/2	ग्राम पंचायत
				404	प्राविट	रोसली	0-9	इन्द्र कुमार पुत्र राम बलराज
				406	प्राविट	रोसली	0-9	हरदीप कौर पत्नी रंजीत सिंह
				407	प्राविट	रोसली	0-9	रंजीत पुत्र भाग सिंह
				409	प्राविट	रोसली	0-9	रंजीत पुत्र भाग सिंह
				410	प्राविट	रोसली	0-9	रंजीत पुत्र भाग सिंह
				411	प्राविट	रोसली	0-11	रंजीत पुत्र भाग सिंह
				1112/422	प्राविट	बकर	0-3	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1113/422	प्राविट	बकर	0-5	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1114/423	प्राविट	बकर	0-6	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1115/423	प्राविट	रोसली	0-2	संजय दीपक पुत्र जय गोपाल
				426	प्राविट	रोसली	0-9	संजय दीपक पुत्र जय गोपाल
				346	प्राविट	रोसली	0-4	गोल्डन फोरेस्ट रिसेट एण्ड डेवेलपर्स
				389	नगर पंचायत	गैर मुक्तिकन मथिर	0-3	नगर पंचायत
				1118/431	प्राविट	रोसली	0-2	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1119/431	प्राविट	रोसली	0-2	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1121/431	प्राविट	रोसली	0-4	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1122/432	प्राविट	रोसली	0-3	हदीप राम पुत्र जगदीश राम गोयल
				1123/432	प्राविट	रोसली	0-3	श्रीमति संजु वि. मिथिन पुत्र लतीफ
				1124/432	प्राविट	रोसली	0-1	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				421	प्राविट	बकर	0-7	पलमिन्ड पुत्र सम्पूर्ण
				1105/413	प्राविट	चाही	0-6	ओमैक्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
				1106/413	प्राविट	चाही	0-5	सुरिन्द कौर वि. भूपिन्द गुराल पुत्र उजागर कौर 1/4 शेयर गुलजार कौर पुत्री गुरबचन सिंह 1/4 पार्ट संजय दीपक पुत्र जय गोपाल 1/2 शेयर

						एकड़ - बीघे - बीसवा	
					कुल	2-4-13	
		2. कुरली पद्य बी. संख्या 158	378	प्राइवेट	रोसाली	0-1	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
			379	पंजाब सरकार	गैर मुनिकिपल रोड	0-1	राज्य सरकार (पी. डब्ल्यू. डी.)
			805-806 /380	प्राइवेट	रोसाली	0-1	गोल्डन फॉरेस्ट रिसोर्ट एण्ड डेवेलपर्स
						एकड़ - बीघे - बीसवा	
					कुल	0-0-3	
		3. सरसीली पद्य बी. नं. 153	1006	प्राइवेट	रोसाली	0-10	जोगिन्द सिंह पुत्र प्रताप सिंह
			1007	प्राइवेट	रोसाली	0-6	यादविन्द सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह पुत्र प्रताप सिंह 1/2 पार्ट नजीत कौर पत्नी खुशवंत सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह
			1008	प्राइवेट	रोसाली	0-6	1/2 यादविन्द सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह पुत्र प्रताप सिंह 1/2 पार्ट नजीत कौर पत्नी खुशवंत सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह
			1009	प्राइवेट	रोसाली	0-6	1/2 यादविन्द सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह पुत्र प्रताप सिंह 1/2 पार्ट नजीत कौर पत्नी खुशवंत सिंह पुत्र जोगिन्द सिंह
			1709/1010/ 1	प्राइवेट	रोसाली	0-6	प्रिंति कोहली पत्नी चन्द कोहली
			1710/1010/ 2/1	प्राइवेट	रोसाली	0-8	रिलायन्स मोबाइल इन्व्हेस्ट्री लि. कम्पनी
			1711/1010/ 2/2	प्राइवेट	रोसाली	0-3	रिलायन्स मोबाइल इन्व्हेस्ट्री लि. कम्पनी
			1011	पंचायत	रोसाली	0-7	नगर पंचायत
			1012	प्राइवेट	रोसाली	0-11	गुरबक्श सिंह पुत्र भाषी
			1013	प्राइवेट	रोसाली	0-2	चरणजीत सिंह पुत्र भजन सिंह, सतिन्द कौर 1/4 पुत्री भजन सिंह महावीर, जीत सिंह, कुलवीर सिंह, पुत्र कर्न सिंह
			1014	प्राइवेट	रोसाली	0-11	चरणजीत सिंह पुत्र भजन सिंह, सतिन्द कौर 1/4 पुत्री भजन सिंह महावीर, जीत सिंह, कुलवीर सिंह, पुत्र कर्न सिंह
			1015	पंचायत	रोसाली	0-14	नगर पंचायत
			1016	पंचायत	रोसाली	0-13	नगर पंचायत

			1017	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1018	पंचायत	रोसाली	0-9	नगर पंचायत
			1019	पंचायत	रोसाली	0-10	नगर पंचायत
			1020	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1021	पंचायत	रोसाली	0-10	नगर पंचायत
			1022	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1023	प्राविट	रोसाली	0-10	गुरुबक्श सिंह पुत्र भाबी
			1024	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1025	पंचायत	रोसाली	0-10	नगर पंचायत
			1026	पंचायत	रोसाली	0-14	नगर पंचायत
			1027	पंचायत	गैर मुनाफिन	0-4	नगर पंचायत
			1028	पंचायत	रोसाली	0-13	नगर पंचायत
			1029	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1030	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1031	पंचायत	रोसाली	0-10	नगर पंचायत
			1032	पंचायत	रोसाली	0-11	नगर पंचायत
			1033	पंचायत	रोसाली	0-10	नगर पंचायत
			1038	पंचायत	रोसाली	0-2	नगर पंचायत
			1039	पंचायत	रोसाली	0-1	नगर पंचायत
			1045	पंचायत	रोसाली	0-9	नगर पंचायत
			1046	पंचायत	रोसाली	0-4	नगर पंचायत
			1048	पंचायत	रोसाली	0-7	श्रीमति हरिन्द्र राय पत्नी रंजीत सिंह राय
			1063/1	प्राविट	रोसाली	0-5	श्री एच. डी. गोयल पुत्र श्री ठंहराज, हरिन्द्र पाल पुत्र कर्न सिंह, पूनम सिंगला पत्नी सी. के. सिंगला
			1063/2	प्राविट	रोसाली	0-6	श्री एच. डी. गोयल पुत्र श्री ठंहराज, हरिन्द्र पाल पुत्र कर्न सिंह, पूनम सिंगला पत्नी सी. के. सिंगला
			1552/1050	प्राविट	भाबी	0-7	चमन लाल रमन कुमार प्रवीण कुमार
			1553/1050	प्राविट	गैर मुनाफिन	0-3	संतोष कुमार पुत्र मोहन लाल 1/4 गेहर, मोहिन्द्र पाल पुत्र गरबा 1/4 पार्ट, सुरेण अग्रवाल पुत्र बेब प्रकाश 1/4 पार्ट, अमर नाथ पुत्र इन्द्र सैन 1/4 पार्ट, राबेण गोयल पुत्र किणोर चन्द
			1720/1116	प्राविट	गैर मुनाफिन	0-4	मैसर्स बोकार्ड लि.
			1478/1112	प्राविट	रोसाली	0-2	मैसर्स आनन्द गैर प्रा. लि.
			1064/1	प्राविट	रोसाली	0-2	दूर स्पीन्टरस लि.
			1068	प्राविट	रोसाली	0-10/1/2	दूर स्पीन्टरस लि.
			1064/2	प्राविट	रोसाली	0-8	श्री एच. डी. गोयल पुत्र श्री ठंहराज, हरिन्द्र पाल पुत्र कर्न सिंह, पूनम सिंगला पत्नी सी. के. सिंगला
			1072	प्राविट	रोसाली	0-10/1/2	मीलन पुत्री ठंहराज, चाक पुत्री इरीण कुमार, अम्बा पत्नी किणोर राय, बिजय पुरी पुत्री रमेश चन्द

				1072/1	प्राइवेट	रोसाली	0-11	हरभजन सिंह पुत्र सोहन सिंह
				1111	प्राइवेट	रोसाली	0-8	मैसर्ज आनन्द गैदर प्रा. लि.
				1477/1112	प्राइवेट	रोसाली	0-7	मैसर्ज आनन्द गैदर प्रा. लि.
				1114	प्राइवेट	रोसाली	0-7	मैसर्ज आनन्द गैदर प्रा. लि.
				1721/1116	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-5	मैसर्ज बोकार्ड लि.
				1128	पंचायत	गैर मुमकिन	0-9	मैसर्ज बोकार्ड लि.
				1129	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-1	नगर पंचायत
				1145	पंचायत	गैर मुमकिन	0-10	जितेन्द्र खन्ना पत्नी इन्द्रजीत सिंह
				1146	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-11	हरभजन सिंह पुत्र गोबिंद सिंह 1/3, संत सिंह, किणन सिंह पुत्र जाया राम 1/3, सतपाल, किणन सिंह पुत्र सुरजन सिंह 1/3
				1149	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-7/1/2	हरभजन सिंह पुत्र गोबिंद सिंह 1/3, संत सिंह, किणन सिंह पुत्र जाया राम 1/3, सतपाल, किणन सिंह पुत्र सुरजन सिंह 1/3
				1150	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-1	नगर पंचायत
				1159	पंचायत	रोसाली	0-2	नगर पंचायत
				1110	प्राइवेट	रोसाली	0-8	मैसर्ज आनन्द गैदर प्रा. लि.
				1049	प्राइवेट	रोसाली	0-11	राजेन्द्र सिंह पुत्र हुक्म सिंह
				1051	प्राइवेट	रोसाली	0-11	सरदारा सिंह पुत्र अमर सिंह और गुरबचन सिंह पुत्र अमर सिंह
				1509/1052	प्राइवेट	रोसाली	0-1	सरदारा सिंह पुत्र अमर सिंह और गुरबचन सिंह पुत्र अमर सिंह
				1510/1052	प्राइवेट	रोसाली	0-10	सरदारा सिंह पुत्र अमर सिंह और गुरबचन सिंह पुत्र अमर सिंह
				1053	प्राइवेट	रोसाली	0-11	कि. मैन लि.
				1054	प्राइवेट	रोसाली	0-10	कि. मैन लि.
				1627/1055	प्राइवेट	रोसाली	0-8	श्रीमति अजनि गुप्ता पत्नी राजेण गुप्ता
				1628/1055	प्राइवेट	रोसाली	0-3	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1056	प्राइवेट	रोसाली	0-6	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1057	प्राइवेट	रोसाली	0-5	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1058	प्राइवेट	रोसाली	0-11	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1629/1059	प्राइवेट	रोसाली	0-11	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1631/1060	प्राइवेट	रोसाली	0-3	नवीन जिन्दल पुत्र मोहन लाल
				1061/1	प्राइवेट	रोसाली	0-4	गुरचरण कौर पत्नी अजय पाल पुत्र शमशेर सिंह
				1061/2	प्राइवेट	रोसाली	0-6	गुरचरण कौर पत्नी अजय पाल पुत्र शमशेर सिंह
				1644/1160	पंचायत	रोसाली	0-8	सोम चन्द पुत्र हरद्वारी लाल, मोहन कुमार पुत्र पतराम, किरण गुप्ता पत्नी श्री रमेश कुमार
				1645/1160	पंचायत	रोसाली	0-3	देणबधु पुत्र प्रताप सिंह

			1651/1163	पंचायत	रोसाली	0-3	हरपिन्द कौर पत्नी अमरजीत सिंह
			1652/1163	पंचायत	रोसाली	0-5	मनमोहन दास पुत्र किशन दास, अर्जुन दास पुत्र भीमस दास
			1115	पंचायत	गैर मुनफिन	0-1	नगर पंचायत
			1164	पंचायत	गैर मुनफिन रास्ता	0-1/2	नगर पंचायत
			1165	प्राइवेट	रोसाली	0-2	सुदर्शन रिपोर्ट लि.
			1168	पंचायत	रोसाली	1-1/2	नगर पंचायत
			1169	पंचायत	गैर मुनफिन	0-1	नगर पंचायत
			1275	पंचायत	रोसाली	0-10/1/2	नगर पंचायत
			1632/1060	प्राइवेट	रोसाली	0-8	नवीन जिनवल पुत्र मोहन सल
			1277	पंचायत	रोसाली	0-10/1/2	नगर पंचायत
			1278	पंचायत	रोसाली	0-10/1/2	नगर पंचायत
			1280	पंचायत	रोसाली	0-1	नगर पंचायत
			1282	पंचायत	रोसाली	0-1	नगर पंचायत
			1283	पंचायत	रोसाली	0-7	कुलदीप सिंह पुत्र करपाल सिंह 17/100, अमरजीत कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह, हरपिन्द कौर पत्नी हरदेव सिंह, 18/100, मोहिन्द सिंह पुत्र तुलसा सिंह 12/100, त्रिलोचन सिंह पुत्र मेला सिंह, 12/100, तरनजीत कौर पुत्री हरिन्द सिंह 12/100, गुरमीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह 9/100, गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह 10/100
			1284	प्राइवेट	रोसाली	0-8	कुलदीप सिंह पुत्र करपाल सिंह 17/100, अमरजीत कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह, हरपिन्द कौर पत्नी हरदेव सिंह, 18/100, मोहिन्द सिंह पुत्र तुलसा सिंह 12/100, त्रिलोचन सिंह पुत्र मेला सिंह, 12/100, तरनजीत कौर पुत्री हरिन्द सिंह 12/100, गुरमीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह 9/100, गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह 10/100
			1286	प्राइवेट	रोसाली	0-4	कुलदीप सिंह करपाल सिंह 17/100, अमरजीत कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह, हरपिन्द कौर पत्नी हरदेव सिंह, 18/100, मोहिन्द सिंह पुत्र तुलसा सिंह 12/100, त्रिलोचन सिंह पुत्र मेला सिंह, 12/100, तरनजीत कौर पुत्री हरिन्द सिंह 12/100, गुरमीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह 9/100, गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह 10/100
			1290	प्राइवेट	रोसाली	0-4	हरिजन को-ऑपरेटिव सोसाईटी

				1291/1	प्राइवेट	रोसाली	0-4	हरिजन को - ऑटोरेटिव जोसाईटी
				1307	पंचायत	रोसाली	0-4	नगर पंचायत
				1308	पंचायत	रोसाली	0-2	नगर पंचायत
				1309	पंचायत	रोसाली	--	नगर पंचायत
				1310	पंचायत	रोसाली	0-1	नगर पंचायत
				1311	प्राइवेट	रोसाली	0-1	मुनीष कुमार पुत्र अमर दास, अमर दास, अजय कुमार पुत्र अनन्त राम
				1312	पंचायत	गैर मुसकिन	0-19	नगर पंचायत
				1313	प्राइवेट	गैर मुसकिन	0-4	सिजदीप सिंह, कुलवीप सिंह 2/5 गेयर, रविन्द्र कौर पत्नी अमर सिंह, जर्ननजीत सिंह, पुत्र गुरदयाल सिंह, गुरदीत कौर पत्नी अमरवीप सिंह 3/5 गेयर
				1315	पंचायत	रोसाली	0---8	नगर पंचायत
				1573/1316	प्राइवेट	गैर मुसकिन	0-3	टोनी, धन्ना, बटी, पन्ना पुत्र जोगिन्द्र
				1574/1316	प्राइवेट	गैर मुसकिन	0-3	जोगिन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
				1350	पंचायत	गैर मुसकिन रास्ता	0-1/2	नगर पंचायत
				1353/1	प्राइवेट	रोसाली	0-7	जोगिन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
				1354	प्राइवेट	गैर मुसकिन रास्ता	0-7	जसवीर कौर पत्नी अर्जुन सिंह 1/3, बलविन्द सिंह, अग्नेज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 2/3
				1370	प्राइवेट	गैर मुसकिन रास्ता	0-8	जसवीर कौर पत्नी अर्जुन सिंह 1/3, बलविन्द सिंह, अग्नेज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 2/3
				1372	प्राइवेट	गैर मुसकिन रास्ता	0-6	जसवीर कौर पत्नी अर्जुन सिंह 1/3, बलविन्द सिंह, अग्नेज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 2/3
				1373	प्राइवेट	गैर मुसकिन रास्ता	0-6	पुष्पा रानी पत्नी पत्नी किशन पाल
				1389	प्राइवेट	गैर मुसकिन रास्ता	0--0	नगर पंचायत
				1391	प्राइवेट	गैर मुसकिन	0-6	जसवीर कौर पत्नी अर्जुन सिंह 1/3, बलविन्द सिंह, अग्नेज सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 2/3
				1392	प्राइवेट	दकर	0-6	मुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एल. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252
				1395	प्राइवेट	दकर	0-6	मुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एल. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252
				1396	प्राइवेट	दकर	0-6	मुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एल. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252



				1397	प्राइवेट	इकर	0-6	जुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एस. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252
				1398	प्राइवेट	इकर	0-6	जुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एस. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252
				1399	प्राइवेट	इकर	0-3	जुनील सहगल पुत्र एस. डी. सहगल 252/504, सुरज प्रकाशन पुत्र जी. एस. 160/252, नुतन सफारा पत्नी हरी सहगल 92/252
				1400	सरकारी	गैर मुकामिन	0-1	कंस्टेबल
							एकड़ - बीगे - बीसवे	
						कुल	10-0- 6/1/2	
		4. आलमगीर एघ. खी. न. 225	763	प्राइवेट	चाही	0-11	मुकेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल, वधके कुमार पुत्र पवन कुमार 1/3, दविन्द्र मित्तल, बलविन्द्र मित्तल पुत्र मदन मोहन 1/3, चम्पा गोयल पत्नी सुरिन्द्र पाल 1/3	
			765	प्राइवेट	रोसाली	0-10	मुकेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल, विवेक कुमार पुत्र पवन कुमार 1/3, दविन्द्र मित्तल, बलविन्द्र मित्तल पुत्र मदन मोहन 1/3, चम्पा गोयल पत्नी सुरिन्द्र पाल 1/3	
			766	प्राइवेट	चाही	0-10/1/2	मुकेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल, विवेक कुमार पुत्र पवन कुमार 1/3, दविन्द्र मित्तल, बलविन्द्र मित्तल पुत्र मदन मोहन 1/3, चम्पा गोयल पत्नी सुरिन्द्र पाल 1/3	
			1069/769	प्राइवेट	गैर मुकामिन फैक्ट्री	0-7	जे. सी. कोच फैक्टरी बिल्डर्ज	
			771	प्राइवेट	गैर मुकामिन फैक्ट्री	0-10	जे. सी. कोच फैक्टरी बिल्डर्ज	
			772	प्राइवेट	गैर मुकामिन फैक्ट्री	0-10	जे. सी. कोच फैक्टरी बिल्डर्ज	
			775	प्राइवेट	गैर मुकामिन फैक्ट्री	0-10	जे. सी. कोच फैक्टरी बिल्डर्ज	
			777	सरकारी	गैर मुकामिन रोड़	0-1	प्रोविन्सियल पंजाब सरकार	

				778	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-10	रिशा बिल्डर्ज
				779	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-11	रिशा बिल्डर्ज
				783	प्राइवेट	गैर मुकिन पीरधान	0-5	नगर पंचायत
				784	प्राइवेट	गैर मुकिन रोड़ (रोसाली)	0-5	नगर पंचायत
				1074/782	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-8	जे. सी. कोच फेक्टरी बिल्डर्ज
				786		गैर मुकिन पट्टी	0-2	नगर पंचायत
				1077/788	प्राइवेट	गैर मुकिन होटल	0-7/1/2	श्रीमति हरबस कौर पत्नी शमशेर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह
				1078/788	प्राइवेट	गैर मुकिन प्लॉट	0-2/1/2	आदिति मलिक पुत्री शमशेर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह
				1079/788	प्राइवेट	गैर मुकिन प्लॉट	0-2/1/2	आदिति मलिक पुत्री शमशेर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह
				1080/788	प्राइवेट	गैर मुकिन प्लॉट	0-2/1/2	मैसर्ज फेलन दूला फार्मस प्रा. लि.
				1082/789	प्राइवेट	गैर मुकिन होटल	0-2/1/2	ए. पी. होटल लि. लालहू
				1083/789	प्राइवेट	गैर मुकिन प्लॉट	0-8	आदिति मलिक पुत्री शमशेर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह
				1084/793	प्राइवेट	रोसाली	0---2/1/2	बलवीर सिंह 1/2, लक्ष्मण सिंह 1/4 पुत्र तुलसी, श्रीमति लक्ष्मी वि. और परमजीत कौर पुत्री सज्जु राम चंद 1/4
				1085/793	प्राइवेट	रोसाली	0-8	चरण सिंह पुत्र नसीब सिंह
				1150/794	प्राइवेट	गैर मुकिन होटल	0-5	सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, हरजीत सिंह पुत्र राजा सिंह 4/5, सुरिन्द कौर पत्नी गुरदीप सिंह 1/5
				1147/794	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-5	आनन्द निधि बाबा कम्पनी 1/2, बुपिन्द्र कौर पुत्री शिव राज 1/2
				796	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-1	सतीश अहुजा पुत्र राम लावया एस. एम. महाजन पुत्र बुध माल
				880	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-9	राणा पोलिटैक लि. चण्डीगढ़
				881	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-10/1/2	राणा पोलिटैक लि. चण्डीगढ़
				1111-1112/1071/782	प्राइवेट	गैर मुकिन प्लॉट	0-2/1/2	राम रतन, यादविन्द्र, गुरचरण सिंह पुत्र देवी दयाल
				1086/882	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-4/1/2	राणा पोलिटैक लि. चण्डीगढ़

			1087/882	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-6	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			1115/883	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-7	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			1116/883	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-4	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			1119/885	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-1	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			1120/885	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-9	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			886	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-5	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			887	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-5	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			956/888	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-8	राणा पोस्टिक लि. चण्डीगढ़
			1081/788	प्रापित	गैर मुक्ति नैकट	0-1	आविष्टि मलिक पुत्री मन्धोर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह
			1070/769	प्रापित	चाही	0-4	मुकेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल, विदेक कुमार पुत्र पवन कुमार 1/3, वसिष्ठ मल्ल, बलविन्द मल्ल पुत्र नवीन मोहन 1/3, चम्पा नौवल पत्नी सुरिन्द पाल 1/3
						एकड़ - बीघे - बीसवे	
					कुल	2--1--18	
		5. डेडर एच. बी. म. 224	724	प्रापित	गैर मुक्ति पेट्रोल पंप	0-1	अर्जुन देव बाबूच पुत्र सीता राम 2/3 शेवर, विजय कुमार पंथ सिंह दयाल 1/3
			967/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-2	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह
			968/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1	मंगल राम पुत्र छज्जु राम
			969/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1	सरदार सिंह, मुख्तार सिंह 3/8, पूरणी बि. भाया बेबी, बलसीरी, मुख्तारी, करनी पुत्री आत्मा राम
			970/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1	संत सिंह, छोटे राम पुत्र पूर्ण सिंह
			971/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1/2	नवबीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह
			972/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1/2	सुरव्यास सिंह पुत्र तेज, शिवदया पुत्र नारायण
			973/728	प्रापित	गैर मुक्ति	0-1	मनिन्द कौर पत्नी अविन्द सिंह
			993/729	प्रापित	गैर मुक्ति	0-2	संजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्र राम स्वरूप
			995/729	प्रापित	गैर मुक्ति	0-9	विजय पैलेस

				938/732	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-5	गुरमेल कौर पत्नी राजिन्द्र सिंह 16/620, विजय प्लेस 105/620, हंसराज पंथ मुंजी राम 116/620, साधु राम पुत्र निरंजन 116/620, हरी सिंह चमेला सिंह 93/620, मनिन्द्र कौर पुत्र आनन्द कुमार 124/620
				939/732	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-6	गुरमेल कौर पत्नी राजिन्द्र सिंह 16/620, विजय प्लेस 105/620, हंसराज पंथ मुंजी राम 116/620, साधु राम पुत्र निरंजन 116/620, हरी सिंह चमेला सिंह 93/620, मनिन्द्र कौर पुत्र आनन्द कुमार 124/620
				998/733	प्राइवेट	रोसाली	0-6	जसन विजार्ट
				997/733	प्राइवेट	रोसाली	0-5	गुरमेल कौर पत्नी राजिन्द्र सिंह
				940/736	प्राइवेट	रोसाली	0-3	श्रीमति बचन कौर पत्नी गुरदयाल सिंह 51/81, परमिन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह, शाम लाल पुत्र राम कृष्ण 13/81, बत सिंह, हरबंस सिंह, बतों पुत्री शेर सिंह 3/4, धर्म कौर बलजिन्द्र सिंह, जसपाल सिंह, अवतार सिंह पुत्र शेर सिंह 1/4 (17/81)
				1023/941/7 36	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-5	मान सिंह पुत्र बलवत सिंह
				1024/941/7 36	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-5	विजय पैलेस
				737	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-4	श्रीमति सुनीता रानी पत्नी राज कुमार
				942/739	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-2/1/2	श्रीमति सुनीता रानी पत्नी राज कुमार
				943/739	प्राइवेट	रोसाली	0-7	दर्शन सिंह, सुखदेव सिंह, हरबंस सिंह पुत्र देशराज 1/12, गुरनाम कौर पत्नी पत्नी नछरार सिंह 1/12, पंजाब बिजली कम्पनी 1/4, धर्म सिंह, अमरीक सिंह, बलबीर सिंह, बलबीर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 1/9, विद्या देवी सरयन राम 1/9, जोगिन्द्र कौर पत्नी पाला सिंह 7/36
				740	प्राइवेट	रोसाली	0-6	जसन विजार्ट
				741	प्राइवेट	रोसाली	0-6	जसन विजार्ट
				742	प्राइवेट	रोसाली	0-4	जसन विजार्ट

				743	प्राविट	रोसाली	0-3	श्रीमति बचन कौर परानी गुरवयाल सिंह 51/81, परमिन्द सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह, ज्ञान लाल पुत्र राम कृष्ण 13/81, बंस सिंह, हरबंस सिंह, बंसो पुत्री मेर सिंह 3/4, धर्म कौर बलजिन्द सिंह, जसपाल सिंह, अवतार सिंह पुत्र मेर सिंह 1/4 (17/81)
				744	प्राविट	रोसाली	0-4	श्रीमति बचन कौर परानी गुरवयाल सिंह 51/81, परमिन्द सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह, ज्ञान लाल पुत्र राम कृष्ण 13/81, बंस सिंह, हरबंस सिंह, बंसो पुत्री मेर सिंह 3/4, धर्म कौर बलजिन्द सिंह, जसपाल सिंह, अवतार सिंह पुत्र मेर सिंह 1/4 (17/81)
				746	प्राविट	रोसाली	0-6/1/2	गुरवयाल सिंह पुत्र करतार सिंह 2/3, जंग सिंह पुत्र सतोच सिंह 1/3
				747	प्राविट	रोसाली	0-7/1/2	अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह
				1000/748	प्राविट	रोसाली	0-4	जीत सिंह पुत्र पित्तन सिंह 39/47, अवतार सिंह पुत्र हाजरा सिंह 8/47
				1001/748	प्राविट	रोसाली	0-7	जिम्बल स्पाइस फूड प्रा. लि.
				751	पंचायत	रोसाली	0-15/1/2	नगर पंचायत
				752	पंचायत	गैर मुनफिज पाठी	0-1	नगर पंचायत
				974/754	प्राविट	रोसाली	0-1	गुरप्रीत सिंह पुत्र लज्जन सिंह
				975/754	प्राविट	रोसाली	0-1	गुरप्रीत सिंह पुत्र लज्जन सिंह
				1005/976/754	प्राविट	रोसाली	0-1	सुरिन्द सिंह पुत्र पन्नु 6/23, पास्कर सिंह पुत्र ईशर सिंह 17/23
				755	पंचायत	मुनफिज	0-1	नगर पंचायत
				756	प्राविट	रोसाली	0-9	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				757	प्राविट	रोसाली	0-10/1/2	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				764	प्राविट	रोसाली	0-10/1/2	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				765	प्राविट	रोसाली	0-10	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				766 *	प्राविट	रोसाली	0-10	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				767	प्राविट	रोसाली	0-8	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				773	पंचायत	गैर मुनफिज पाठी	0-1	नगर पंचायत
				774	प्राविट	रोसाली	0-8	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				775	प्राविट	रोसाली	0-8	युरो कोर्ड स्पाइन प्रा. लि.
				776	प्राविट	रोसाली	0-10/1/2	बचन सिंह, राम सिंह, मुल्क सिंह पुत्र गंगा राम

			1063/777	प्राइवेट	रोसाली	0-5/1/2	प्यारा सिंह पुत्र मेला राम 1/3, बघन सिंह, शिव राम, राम चंद, मुकण्ड सिंह 1/3, शिव लाल पुत्र अमर नाथ सुरिन्द्र पुत्र सुरजंत 1/3
			1064/777	प्राइवेट	रोसाली	0-5	अरविन्द कौर पत्नी हरगोपाल सिंह
			1066/778	प्राइवेट	रोसाली	0-3	अरविन्द कौर पत्नी हरगोपाल सिंह
			837	प्राइवेट	रोसाली	0-10/1/2	हरशरण कौर पत्नी शमशेर सिंह
			838	प्राइवेट	रोसाली	0-1	शमशेर सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह
						एकड़ - बीगे - बीसवे	
					कुल	2--2-- 4/1/2	
		6. लालडू एच. डी. नं. 218	26/16	प्राइवेट	रोसाली	0-6	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
			17	प्राइवेट	रोसाली	0-5	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
			24	प्राइवेट	रोसाली	0-10	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
			25	प्राइवेट	रोसाली	0-8	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
			28/20	प्राइवेट	रोसाली	0-4	अजमेर देवी वि. इन्द्र सिंह 1/60, निशान सिंह, कुलवीर सिंह पुत्र किशन सिंह 1/12, सुदेश रानी पुत्री रणवीर सिंह पुत्र रणधीर सिंह 1/12, तेजपाल पुत्र सरोज रानी पुत्री इन्द्र सिंह 1/4, राजकली वि. प्रमशान, दर्शन सिंह, सोन बिना कुमारी पुत्री महावीर सिंह 1/15, बराब सिंह, राज कुमार पुत्र कौशल्या देवी पुत्री साहिब सिंह पुत्र उषा देवी वि. जसमेर सिंह 1/2
			21	प्राइवेट	रोसाली	0-4	सीता देवी पुत्री रेवानी 1-6, प्रेम वि. हरप्रित सिंह, मलकित सिंह पुत्र शान सिंह 1/2, महावीर सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 1/12, संजीव कुमार 1/24, राजीव कुमार 1/24 पुत्र माम चंद, नीता वि. विनोद कुमार 1/48, तरशेम सिंह, रघुवीर सिंह, हुक्म सिंह पुत्र सीता 1/6, अमरजीत सिंह पुत्र शीश राम 1/6

				29/4	प्राइवेट	रोसाली	0-5	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
				6	प्राइवेट	रोसाली	0-8	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह 1/2, बलदेव सिंह पुत्र करतार सिंह 1/2
				14	प्राइवेट	रोसाली	0-5	नतिन मोहन पुत्र सावन राम
				15	प्राइवेट	रोसाली	0-9	शिव कुमार पुत्र बालक राम
				16	प्राइवेट	रोसाली	0-1	अजमेर देवी वि. इन्द्र सिंह 1/60, निशान सिंह, कुलवीर सिंह पुत्र किशन सिंह 1/12, सुदेश रानी पुत्री रणवीर सिंह पुत्र रणधीर सिंह 1/12, तेजपाल पुत्र सरोज रानी पुत्री इन्द्र सिंह 1/4, राजकली वि. धनशान, दर्शन सिंह, सोन बिना कुमारी पुत्री महावीर सिंह 1/15, दराब सिंह
				17	प्राइवेट	रोसाली	0-10	ललित मोहन पुत्र सावन राम
				24	प्राइवेट	रोसाली	0-10	ललित मोहन पुत्र सावन राम
				25	प्राइवेट	रोसाली	0-6	सीता देवी पुत्री रेखा 1-6, प्रेम वि. हरप्रीत सिंह, मलकित सिंह पुत्र शान सिंह 1/2, महावीर सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 1/12, सजीव कुमार 1/24, राजीव कुमार 1/24 पुत्र नाम बंद, नीता वि. विनोद कुमार 1/48, सरजोम सिंह, रघुवीर सिंह, हुक्म सिंह पुत्र लीला 1/6, अमरजीत सिंह पुत्र जीता राम 1/6
				52/4	प्राइवेट	रोसाली	0-10	राम सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 94/1/4, श्रीमति कृष्णा वि. जतिन्द, मनपाल, जसविन्द पुत्र बबली देवी पुत्री राज कुमार 94/1/4, ठाठ सिंह, गुलाब सिंह, रामेश्वर पुत्र रानी देवी पुत्री शान सिंह 428/1/2, कै. एच. पी. गोस्वामी पुत्र जी. एच. और श्रीमति शशि पत्नी कै. एच. पी. गोस्वामी 80/693, अजय कुमार पुत्र मोहिन्द पाल, धीरज, नीरज कुमार पुत्रा गठेश कुमार अशोक कुमार पुत्र पहेल सिंह
				5/1	प्राइवेट	गैर मुनकिन	0-2	मैसर्स बिल्ट साईज मैनेजिंग लि.
				5/2/1	प्राइवेट	गैर मुनकिन	0-2	मैसर्स बिल्ट साईज मैनेजिंग लि.
				5/2/2	प्राइवेट	गैर मुनकिन	0-2	ए. पी. एजेन्स प्रा. लि.
				6	प्राइवेट	गैर मुनकिन फेक्ट्री	0-6	मित्र इलेक्ट्रीक वायरिंग सर्विस स्टेशन 650/3320, नित सिंह पुत्र गुरचरण सिंह 1950/3320, ए. पी. एजेन्स 720/3320

				7	प्राइवेट	रोसाली	0-10	राम सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 94/1/4, श्रीमति कृष्णा वि. जतिन्द्र, मनपाल, जसविन्द्र पुत्र बबली देवी पुत्री राज कुमार 94/1/4, ठाठ सिंह, गुलाब सिंह, रामेश्वर पुत्र रानी देवी पुत्री शाम सिंह 428/1/2, कै. एम. पी. गोस्वामी पुत्र जी. एल. और श्रीमति शशि पत्नी कै. एम. पी. गोस्वामी 80/693, अजय कुमार पुत्र मोहिन्द्र पाल, धीरज, नीरज कुमार पुत्रा महेश कुमार अशोक कुमार पुत्र पहेल सिंह
				14	प्राइवेट	रोसाली	0-10	राम सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 94/1/4, श्रीमति कृष्णा वि. जतिन्द्र, मनपाल, जसविन्द्र पुत्र बबली देवी पुत्री राज कुमार 94/1/4, ठाठ सिंह, गुलाब सिंह, रामेश्वर पुत्र रानी देवी पुत्री शाम सिंह 428/1/2, कै. एम. पी. गोस्वामी पुत्र जी. एल. और श्रीमति शशि पत्नी कै. एम. पी. गोस्वामी 80/693, अजय कुमार पुत्र मोहिन्द्र पाल, धीरज, नीरज कुमार पुत्रा महेश कुमार अशोक कुमार पुत्र पहेल सिंह
				15	पंचायत	गैर मुमकिन	0-7	नगर पंचायत (मिल्क बार)
				16/1	पंचायत	रोसाली	0-5	राम सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 94/1/4, श्रीमति कृष्णा वि. जतिन्द्र, मनपाल, जसविन्द्र पुत्र बबली देवी पुत्री राज कुमार 94/1/4, ठाठ सिंह, गुलाब सिंह, रामेश्वर पुत्र रानी देवी पुत्री शाम सिंह 428/1/2, कै. एम. पी. गोस्वामी पुत्र जी. एल. और श्रीमति शशि पत्नी कै. एम. पी. गोस्वामी 80/693, अजय कुमार पुत्र मोहिन्द्र पाल, धीरज, नीरज कुमार पुत्रा महेश कुमार अशोक कुमार पुत्र पहेल सिंह
				52/16/2	पंचायत	गैर मुमकिन	0-8	नगर पंचायत
				25/1/1	पंचायत	गैर मुमकिन	0-1	अमर सिंह पुत्र रक्खा राम
				25/1/2	पंचायत	गैर मुमकिन	0-9	मुला सिंह, अमि सिंह पुत्र साधु सिंह
				25/2	विधुत विभाग	गैर मुमकिन बिजली बोर्ड	0-5	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
				53/1	प्राइवेट	रोसाली	0-4	मैसर्ज बिल्क लि.



				10	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-4	मित्र इलेक्ट्रीक कारिंग सर्विस स्टेशन 650/3320, नित सिंह पुत्र गुरधर सिंह 1980/3320, ए. पी. एजेन्स 720/3320
				11	मिल्क कार	गैर मुनिकिन	0-3	नगर पंचायत
				20	पंजाब	गैर मुनिकिन	0-3	नगर पंचायत वाटर सप्लाय
				53/21	विजली विभाग	गैर मुनिकिन	0-5	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				55/1	विद्युत विभाग	गैर मुनिकिन	0-7	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				10	विजली विभाग	गैर मुनिकिन	0-8	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				11	विजली विभाग	गैर मुनिकिन	0-2	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				56/5/1/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-2	जसबीर सिंह पुत्र राम चंद
				5/1/1/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-6	मुला सिंह, अमि सिंह पुत्र साधु सिंह
				5/1/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-2	सुरजीत सिंह, वलजीत सिंह गुरवीत सिंह पुत्र बाबू राम
				5/2	बोर्ड	गैर मुनिकिन	0-3	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				56/6/1	बोर्ड	गैर मुनिकिन	0-2	पंजाब राज्य विजली बोर्ड
				56/6/2/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-2	गुरवीत राम पुत्र बाबू राम
				6/2/2/2	प्राइवेट	रोसाली	0-7	मुला सिंह, अमि सिंह पुत्र साधु सिंह
				6/2/2/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-1	जनक राज पुत्र जाति राम
				56/15/1	प्राइवेट	रोसाली	0-2/1/2	मुला सिंह, अमि सिंह पुत्र साधु सिंह
				92/15	पंचायत	गैर मुनिकिन पंचायत घर	0-----1	नगर पंचायत
				16	पंचायत	गैर मुनिकिन छप्पड़	0-----2	नगर पंचायत
				24	पंचायत	गैर मुनिकिन	0-----1	नगर पंचायत
				91/11/1	पंचायत	गैर मुनिकिन	0-----1	नगर पंचायत
				11/2	पंचायत	गैर मुनिकिन	0-----1/1/2	नगर पंचायत
				114/4	पंचायत	गैर मुनिकिन	0-----2	नगर पंचायत
				6/1/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन		रिखी राम पुत्र बाबू राम
				6/2	पंचायत	गैर मुनिकिन हस्पताल	0-----1	नगर पंचायत
				17/1/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0---0	अमर चंद शिव राम पुत्र अर्जुन 1/2, राम कुमार, राम कुमार पुत्र शिव राम 1/2
				17/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-----1	-----
				23/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0---0	मेहर चंद पुत्र धन्ना राम
				114/23/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन आबादी	0-----1/2	गुरदेव सिंह पुत्र तुलसी राम, सुनील कुमार पुत्र धनश्याम दास 1/4, 1/4, शियोपाल, स्वर्ण पुत्र बनारसी लाल 1/2, पाला चन्द पुत्र मुकंदी राम 1/4
				23/3/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिन आबादी	0---0	कुलवीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
				23/3/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिन आबादी	0---0	सोम राज पुत्र सुन्दर लाल

				23/3/3/2	प्राईवेट	गैर मुमकिन आबादी	0---0	सोन राज पुत्र सुन्दर लाल
				23/3/3/1	प्राईवेट	गैर मुमकिन आबादी	0---0	जसविन्द सिंह, सुरिन्द सिंह पुत्र रामशरण
				23/3/3/3	प्राईवेट	गैर मुमकिन आबादी	0-----1	तरशेम कुमार पुत्र देव राज 76/200, देव राज पुत्र रोमक राम 100/200, सुरजी वि. रामेश्वर 2/200, सरदारी वि. सन्तोष रानी पुत्री राम प्रताप 4/200, सुरजीत कुमार, शेखर चंद, राम पाल पुत्र रती राम 3/200, पुत्र सोहनदीप मनदीप पुत्र रिनु पुत्री मंगत राम 19/200, शीला वि. भोली पुत्री जगत नाथ 2/200
				18/1	प्राईवेट	गैर मुमकिन	----	कृष्ण लाल पुत्र साधु राम
				18/2/2/1	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----1	सतपाल, धर्मपाल, रमेश, जसमेर, मदन, जसदेव पुत्र केशो राम
				18/2/2	प्राईवेट	गैर मुमकिन	----	मंगत राम पुत्र बुद राम
				27	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----1	फकीर चंद 11, लक्ष्मी चंद 93, दीनानाथ 93 पुत्र चिरंजी लाल पुत्र स्वर्ण सिंह 83
				28	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----1	वशिष्ठ कुमार, रविन्द कुमार अनिल पुत्र पदम प्रकाश 1/3, फुमन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 1/3, पदम प्रकाश पुत्र प्रशादी देवी 1/3
				29	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----1	गुरपाल सिंह पुत्र जसबीर सिंह, बलविन्द सिंह पुत्र बरखा सिंह, गुरमुख सिंह पुत्र रंजीत सिंह, सतनाम सिंह पुत्र अजीत सिंह
				30	प्राईवेट	गैर मुमकिन	----	रूप सिंह पुत्र देश राज
				31	प्राईवेट	गैर मुमकिन बाड़ा	0-----1	विशाल सिंह पुत्र काला 297/1115, सुलिन्द सिंह, जसमेर सिंह जतिन्द सिंह, हरमेल सिंह पुत्र बरखा राम 51/1115, माम चंद, राज सिंह, दाल सिंह पुत्र रसाला सिंह 72/1115, शीला देवी पुत्री सरजान पुत्र अमर सिंह 62/1115, राज पाल, जसपाल, सतपाल पुत्र जानकी देवी पुत्री सरजान 62/1115
				114/32	पंचायत	गैर मुमकिन	0-----1	नगर पंचायत
				137/3/2/2/1 /2	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----2	श्याम सुन्दर पुत्र बिशन दास
				137/3/2/2/ 2/1/2	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----2	श्याम सुन्दर पुत्र बिशन दास

			8/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0-----1	भागवती देवी वि. काकुदेव 1/2, कमलेश राणी, कीशल राणी पुत्री मदन लाल
			137/29	प्राविट	गैर मुनकिन	0-----1/1/2	रमेश कुमार, सुखदेव सिंह पुत्र बुझा राणी पुत्री जान्नी देवी
			329	सरकारी	गैर मुनकिन रोह	0-2	सरकारी
			91/33	पंचायत	गैर मुनकिन बाड़ा	0--0	नगर पंचायत
			35	पंचायत	गैर मुनकिन	0--0	नगर पंचायत
			37	पंचायत	गैर मुनकिन	0---0	नगर पंचायत
			39	पंचायत	गैर मुनकिन	0---0	नगर पंचायत
			240	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
			241	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
			242	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
			266	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----2	नगर पंचायत
			263	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
			268	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
			869	पंचायत	गैर मुनकिन पाठी	0-1	नगर पंचायत
						एकड़ - बीगे - बीसवे	
					कुल	2--3--12	
		7. सनलेहरी एच. डी. नं. 214	240	पंचायत	गैर मुनकिन	0-7	नगर पंचायत
			239	पंचायत	गैर मुनकिन	0-0	नगर पंचायत
			320	प्राविट	गैर मुनकिन फौकरी	0-10	जनक राज गुप्ता एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
			321	पंचायत	गैर मुनकिन	0-2	नगर पंचायत
			322	प्राविट	गैर मुनकिन	0-5	शाम सिंह, महावीर सिंह पुत्र सपट्टर सिंह 188/1128, सुखवीर सिंह पुत्र लाल सिंह 188/1128, रामा वि. तरशेम सिंह 3/4, बिकार पुत्र मनसेर 1/4, (188/1128), सुखवीर कौर वि. अनरिम्ह सिंह, तेजोम्ह कौर वि. प्रेम लाल 25/1128, तरशेम सिंह, रघुवीर सिंह, हुक्म सिंह पुत्र नीलू 176/1128, अनरजीत सिंह पुत्र सीता राम 175/1128, सरोज वि. विनोद कुमार, सुजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्र नानराज 188/1128

			323	प्राइवेट	गैर मुकित फैक्ट्री	0-10	जनक राज गुप्ता एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
			328	प्राइवेट	गैर मुकित फैक्ट्री	0-4	जनक राज गुप्ता एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
			563/547/32 9	प्राइवेट	गैर मुकित	0-3	नवदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह 81/800, अभिषेक अग्रवाल पुत्र कुलभूषण सिंह 560/800, हरिष कुमार पुत्र मुकन्द लाल और हरदयाल सिंह पुत्र हुक्म दास 21/266
			564/547/32 9	प्राइवेट	गैर मुकित	0-3	सीमा पत्नी सजीव कुमार
			330	प्राइवेट	गैर मुकित	0-5	बलविन्द कौर पत्नी बलदेव सिंह
			548/329	प्राइवेट	गैर मुकित	0-10	कबाल सिंह 40/508, देवी सिंह 53/508, तेलू सिंह 45/308, हुक्म सिंह 15/308, रमाली, जगीर सिंह, जसबीर सिंह रामवती लाजो 15/308, नववहप सिंह पुत्र बलदेव सिंह 470/6160, हरिष कुमार पुत्र पुत्र मदन लाल 21/366, अशोक कुमार पुत्र राम चंद 40/318
			332	प्राइवेट	गैर मुकित	0-2	गुरदीत सिंह, रम सिंह पुत्र अलनात सिंह 1/16, रश्मी वि. मेहर सिंह पुत्र सियो सिंह और हुक्म सिंह पुत्र मेहर सिंह 1/16, जगदीश सिंह, जसबीर सिंह पुत्र रामवती और लाजो पुत्री कोहर सिंह 327/19640, गारव, संदीप पुत्र आर. एल. अग्रवाल 927/19640, जबर सिंह पुत्र शियो सिंह 1/16, फावर पाल पुत्र मुख राम 4110/19640, देवी दयाल पुत्र फलेल सिंह 4180/19640, तेलू पुत्र निरंजन सिंह 4110/19640, नवदीप सिंह परमदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह 1580/19640, बलदेव पुत्र करतार सिंह 800/19640
			566/550/33 3	प्राइवेट	गैर मुकित	0-2	नवदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह 81/800, अभिषेक अग्रवाल पुत्र कुलभूषण सिंह 560/800, हरिष कुमार पुत्र मुकन्द लाल और हरदयाल सिंह पुत्र हुक्म दास 21/266
						एकड़ - बीघे - बीसवे	
					कुल	0-2-16	

			8. लेहली एच. बी. नं. 215	461/375	प्राइवेट	घाटी	2--1	वीप सिंह पुत्र सुरजन सिंह 1/4, गुरमेल कौर वि. कपटन सिंह पुत्र रघुबीर सिंह 5/24, गुरबचन पुत्र सरपा 1/2
				376	पंचायत	गैर मुनकिन	0-1	नगर पंचायत
				377	पंचायत	गैर मुनकिन गुरुद्वारा साहिब	1--13	नगर पंचायत (गुरुद्वारा साहिब)
				378	गैर मुनकिन	गैर मुनकिन रोड़	0-1	नगर पंचायत (मकबरा गुरुद्वारा साहिब)
				379	रोसाली	रोसाली	0-5	नगर पंचायत
				382	पंचायत	गैर मुनकिन स्वातरान	0-8	नगर पंचायत
				385	प्राइवेट	रोसाली	0-11	पवन कुमार पुत्र देव राज 55/100, कुष्णा देवी पत्नी लाभू राम 25/100, विशाल योग्यल पुत्र बलदेव कुष्णा 20/100
				386	प्राइवेट	रोसाली	0-12	पवन कुमार पुत्र देव राज 55/100, कुष्णा देवी पत्नी लाभू राम 25/100, विशाल योग्यल पुत्र बलदेव कुष्णा 20/101
				389	प्राइवेट	घाटी	0-10/1/2	कमल कुष्णा राम पुत्र घड़ी राम 1/2, कमला देवी पत्नी घाटी राम 1/2
				390	प्राइवेट	घाटी	0-10/1/2	कमल किशोर पुत्र घड़ी राम 1/2, कमला देवी पत्नी रघुबीर सिंह 1/2
				392	प्राइवेट	रोसाली	0-10/1/2	सरलोक सिंह 25/100, देविन्द सिंह 35/100, सतवंत सिंह 40/100 पुत्र हरवंत सिंह
				393	प्राइवेट	रोसाली	0-10/1/2	सरलोक सिंह 25/100, देविन्द सिंह 35/100, सतवंत सिंह 40/100 पुत्र हरवंत सिंह
				398	पंचायत	गैर मुनकिन	0-3	नगर पंचायत (मकबरा पीर बाबा)
				399	प्राइवेट	घाटी	0-8	बलविन्द सिंह पुत्र करतार सिंह
				400	प्राइवेट	गैर मुनकिन मकान	0-9	राम सिंह पुत्र मीनल सिंह
				403	पंचायत	गैर मुनकिन	0-1	नगर पंचायत
				404	प्राइवेट	मुनकिन फैक्टरी	0-10/1/2	मैसर्ज स्टील स्ट्रीप्स कील प्रा. लि.
				409	प्राइवेट	मुनकिन फैक्टरी	0-10/1/2	मैसर्ज स्टील स्ट्रीप्स कील प्रा. लि.
				410	प्राइवेट	मुनकिन फैक्टरी	0-10/1/2	मैसर्ज स्टील स्ट्रीप्स कील प्रा. लि.
				413	प्राइवेट	मुनकिन फैक्टरी	0-10	मैसर्ज स्टील स्ट्रीप्स कील प्रा. लि.
				414	पंचायत	गैर मुनकिन	0-10/1/2	नगर पंचायत (जी. माई)
				417	पंचायत	गैर मुनकिन	0-3	नगर पंचायत
				418	पंजाब जल बोर्ड	मुनकिन पंचायत रोड	0-3	नगर पंचायत

			419	ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਬੋਰਡ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼੍ਵਾਤਰਾਨ	0-5	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			420	ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਬੋਰਡ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼੍ਵਾਤਰਾਨ	0-10/1/2	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			421	ਪੰਚਾਇਤ	ਮੁਮਕਿਨ	0-10/1/2	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			423	ਪੰਚਾਇਤ	ਮੁਮਕਿਨ	0-11	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			424	ਪੰਚਾਇਤ	ਮੁਮਕਿਨ	0-11	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			425	ਪੰਚਾਇਤ	ਮੁਮਕਿਨ	0-11	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			426	ਪੰਚਾਇਤ	ਮੁਮਕਿਨ	0-4	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			380	ਪੰਚਾਇਤ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼੍ਵਾਤਰਾਨ	1--19	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
			381	ਪੰਚਾਇਤ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼੍ਵਾਤਰਾਨ	0-7	ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਨਕਬਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ)
						ਏਕੜ - ਭੀਧੇ - ਭਿਸਵਾ	
					ਕੁਲ	3--2--14	
		9. ਘੋਲੂਮਾਜਰਾ ਏਚ. ਡੀ. ਨ. 209	204	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-11	ਮੈਸਰਜ਼ ਚੈਂਪਿਯਨ ਰਿਯਲ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.
			242	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-10/1/2	ਭਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਵੈਲਥਾਲ ਫੋਰਮ
			243	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-11	ਮੈਸਰਜ਼ ਚੈਂਪਿਯਨ ਰਿਯਲ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.
			244	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-10	ਮੈਸਰਜ਼ ਚੈਂਪਿਯਨ ਰਿਯਲ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.
			245	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ	0-11	ਮਿਲਕ ਸਪੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਲਿ.
			246	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-10	ਜਧ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. 66/116, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. 50/116
			281	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ	0-11	ਮਿਲਕ ਸਪੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਲਿ. 3/4, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਹ ਪੁਤਰ ਧਰਮ ਸਿੰਹ 1/4
			1022/282	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਰੋਸਾਲੀ	0-5	ਮੈਸਰਜ਼ ਰੋਕੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.
			1023/282	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਚਾਹੀ	0-6	ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਪੁਤਰ ਰਾਮ ਪਾਲ
			283/1	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਚਾਹੀ	0-1	ਕਰਮਚੰਦਰ ਸਿੰਹ ਪੁਤਰ ਕੋਬਲ ਸਿੰਹ
			283/2	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਚਾਹੀ	0-2	ਮੈਸਰਜ਼ ਰੋਕੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.
			311	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਰੋਡ	0-2	ਪੰਜਾਬ ਰਸਕਾਰ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ.)
			312	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ	ਰੋਸਾਲੀ	0---0	ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਹ ਪੁਤਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਹ, ਤੇਜਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਹ
			313	ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ	ਰੋਸਾਲੀ	0-16	ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਹ ਪੁਤਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਹ, ਤੇਜਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਹ
			314	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ	0-11	ਏਚ. ਏਸ. ਕੇ. ਆਲਯਾਸ ਸਟੀਲ ਲਿ.

				1137/323/1	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-5	पी. डी. हाईको आयरन प्रा. लि.
				1138/323/2	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-5	एच. एस. को. आसयास स्टील लि.
				1139/324	प्राइवेट	रोसाली	0-4	जसदेव सिंह पुत्र मोहिन्द सिंह रजिन्द्र कुमार पुत्र राज कृष्ण राजीव मोयल पुत्र शिव राम
				1140/324	प्राइवेट	रोसाली	0---0	कुलवीप सिंह पुत्र मोहिन्द सिंह रजिन्द्र कुमार पुत्र राज कृष्ण दीपक ओहरी पुत्र सुरिन्द्र कुमार
				325	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-4	प्रिया कैमिकल प्रा. लि.
				935/326	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-1	प्रिया कैमिकल प्रा. लि.
				1204/936/3 26	प्राइवेट	रोसाली	0-1	एन. एस. प्रा. लि.
				1205/936/3 26	प्राइवेट	रोसाली	0-6	प्रकाश चन्द, निहाल चन्द पुत्र लाल चन्द एस. एण्ड एस.
				1145/339	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-2	एस. एण्ड एस. इन्वस्ट्रीज कोर्पोरेशन लि.
				1146/339	प्राइवेट	गैर मुकिन फौकटरी	0-7	मिल्को एलस्ट्रोटा हाउस प्रा. लि.
				1147- 1148/340	प्राइवेट	रोसाली	0-8	अजीत राय पुत्र जगत राम
				341	प्राइवेट	रोसाली	0-8	हरतार सिंह पुत्र विका राम जीत सिंह
				1155- 56/352	प्राइवेट	रोसाली	0-8	हरतार सिंह पुत्र विका राम जीत सिंह
				350- 351/353	प्राइवेट	रोसाली	0-2	पंजाब नाईट्रिट प्रा. लि.
				81	प्राइवेट	मुनकिन फौकटरी	1--3	क्रिस्टल प्रा. लि.
				82	प्राइवेट	मुनकिन फौकटरी	0--11	क्रिस्टल प्रा. लि.
				987/83	प्राइवेट	मुनकिन फौकटरी	0-1	बनशिजिधा पुत्र लाल चंद
				988/83	प्राइवेट	रोसाली	0-9	क्रिस्टल प्रा. लि. 6/128, तृप्ता गुप्ता पत्नी विजय कुमार 122/129
				989/84	प्राइवेट	रोसाली	0-2	क्रिस्टल प्रा. लि. 6/128, तृप्ता गुप्ता पत्नी विजय कुमार 122/129
				990/84/1	प्राइवेट	रोसाली	0-4	छोटू पुत्र राधा राम 2/3, संदीप राम पुत्र छोटू राम 1/3
				990/84/2	प्राइवेट	रोसाली	0-2	छोटू पुत्र राधा राम 2/3, संदीप राम पुत्र छोटू राम 1/3
				990/84/3	प्राइवेट	रोसाली	0-5	नमिता गिल पत्नी हितेश कुमार 2/3, भगिरथ लाल पुत्र छोटू लाल 1/3

				1109/1068/ 85	प्राईवेट	रोसाली	0-2	बैटरी स्टीलस, पेल्सू माजरा
				1110/1068/ 85	प्राईवेट	रोसाली	0-6	मुकेश खडेलवाल पुत्र राज नाथ
				1067/85	प्राईवेट	रोसाली	0-2	इस्टेन्ट रेमिडिस प्रा. लि.
				86	प्राईवेट	रोसाली	0-11	कुरा मल पुत्र फकीर चन्द, राज रानी पत्नी साजन, राम बिलास पुत्र इन्द्र सैन
				1111/87	प्राईवेट	रोसाली	0-2	कुरा मल पुत्र फकीर चन्द, राज रानी पत्नी साजन, राम बिलास पुत्र इन्द्र सैन
				1112/87	प्राईवेट	रोसाली	0-2	अमित अग्रवाल पुत्र राजा सिंह, खजांची पुत्र मोती राम
				1113/87	प्राईवेट	रोसाली	0-2	अमित अग्रवाल पुत्र राजा सिंह, खजांची पुत्र मोती राम
				1114/87	प्राईवेट	रोसाली	0-4	कुलदीप कौर पत्नी मंगल दास
				88/1	प्राईवेट	रोसाली	0-1/2	कुलदीप कौर पत्नी मंगल दास
				88/2	प्राईवेट	रोसाली	0-9/1/2	मनमोहन गोयल पुत्र धनय लाल
				88/3	प्राईवेट	रोसाली	0-1	हरमेक सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, दीपक कुमार पुत्र जगदीश राय 190/1204 शेयर, मोतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. जीरकपुर मोहिन्द सिंह पुत्र हीरा सिंह जसविन्द सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र नरिन्द कुमार पुत्र अनन्त राम, अर्जुन पुत्र बालकी राम
				89	प्राईवेट	रोसाली	0-17	हरमेक सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, दीपक कुमार पुत्र जगदीश राय 190/1204 शेयर, मोतिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. जीरकपुर मोहिन्द सिंह पुत्र हीरा सिंह जसविन्द सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र नरिन्द कुमार पुत्र अनन्त राम, अर्जुन पुत्र बालकी राम
				90	पंचायत	मुमकिन पाही	0-1	नगर पंचायत
				91	प्राईवेट	रोसाली	0-3	रतना खडेलवाल पत्नी मुकेश खडेलवाल
				1240/92	प्राईवेट	रोसाली	0-2	मुकेश खडेलवाल पुत्र राज नाथ सिंह
				1241/92	प्राईवेट	रोसाली	0-9	रीना खडेलवाल पत्नी प्रवीण कुमार
				93	प्राईवेट	रोसाली	0-11	इकबाल सिंह पुत्र गुरबख सिंह 1/4, विक्रम पाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह 3/4
				94	प्राईवेट	रोसाली	0-5	इकबाल सिंह पुत्र गुरबख सिंह 1/4, विक्रम पाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह 3/4
				95	प्राईवेट	रोसाली	0-16	राम लाल, देव राज पुत्र बाबु राम



				1178/96	प्राविट	रोसाली	0-1	माविन्द सिंह पुत्र जगजीत सिंह
				1179/96	प्राविट	रोसाली	0-10	विक्रमपाल सिंह पुत्र इकपाल सिंह 3/4, जसपाल कौर पत्नी इकपाल सिंह 1/4
				97	प्राविट	रोसाली	0-10	सतोख सिंह पुत्र जसमेल सिंह 1/2, नमस्वन सिंह, कारमेल सिंह पुत्र बाबा सिंह 1/2
				991/98	प्राविट	रोसाली	0-2	सतोख सिंह पुत्र जसमेल सिंह 1/2, नमस्वन सिंह, कारमेल सिंह पुत्र बाबा सिंह 1/2
				992/98	प्राविट	रोसाली	0-12	ईश सिंह पुत्र अमर सिंह 9/10, नमसोहन कोठारी पुत्र कौसर सिंह 1/10
				99	प्राविट	रोसाली	0-11	बी. एन. एस. कालिया पुत्र राजिन्द सिंह
				100	प्राविट	गैर मुस्लिम	1-6	पंजाब सरकार (पुलिस स्टेशन)
				101	प्राविट	रोसाली	0-6	बी. एन. एस. कालिया पुत्र राजिन्द सिंह
				102	प्राविट	रोसाली	0-2	बी. एन. एस. कालिया पुत्र राजिन्द सिंह
				103	पंचायत	गैर मुस्लिम पाठी	0-1	नगर पंचायत
				104	प्राविट	रोसाली	0-6	गोपाल आचरण प्रा. लि.
				993/105	प्राविट	रोसाली	0-1	गोपाल आचरण प्रा. लि.
				994/105	प्राविट	रोसाली	0-7	जीलन सिवारी पत्नी जकीश कुमार
				106	प्राविट	रोसाली	0-5	जीलन सिवारी पत्नी जकीश कुमार
				109	प्राविट	रोसाली	0-6	जगमोहन लाल पुत्र कादर राम, रघुना पुत्र शिवाया, सरवन पुत्र माधु राम 1/3
				142	प्राविट	गैर मुस्लिम जैन्द्री	0-11	एस. पी. सिंग प्रा. लि.
				1115- 1116/143	प्राविट	गैर मुस्लिम जैन्द्री	0-10	जमेश जैन पुत्र-जगकार जैन, कुष्मा लाल पुत्र जयान लाल, हर्षा शर्मा पुत्र हुमीश कुमार
				144	प्राविट	गैर मुस्लिम जैन्द्री	0-11	मैसर्स एटीकेटीक प्रा. लि.
				171	प्राविट	रोसाली	0-11	बलजीत सिंह पुत्र बचन सिंह
				1129/172	प्राविट	रोसाली	0-1	बलजीत सिंह पुत्र बचन सिंह
				1130/172	प्राविट	गैर मुस्लिम	0-10	मैसर्स वैक्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
				995- 996/173	प्राविट	गैर मुस्लिम जैन्द्री	0-12	सहाट फोर्ब प्रा. लि.
				202	प्राविट	गैर मुस्लिम जैन्द्री	0-12	सहाट फोर्ब प्रा. लि.
				203	प्राविट	रोसाली	0-8	मैसर्स चैम्पियन रिवाल टूर प्रा. लि.

						एकड़ - बीघे - बीसवे	
					कुल	5--2-- 13/1/2	
		10. ईसापुर एच. बी. न. 208	726	प्राइवेट	रोसाली	0-1	मैसर्ज अलीम फूड प्रोसेसिंग कम्पनी लि.
			1233/728	प्राइवेट	रोसाली	0-6	मैसर्ज अलीम फूड प्रोसेसिंग कम्पनी लि.
			1234/728	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-5	रंजन कांसल पुत्र रामेश्वर दास कांसल
			1173/729	प्राइवेट	रोसाली	0-2	रंजन कांसल पुत्र रामेश्वर दास कांसल
			1235/1174/ 729	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-3	कोमल ऑप्टिकल प्रा. लि.
			1236/1174/ 729	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-5	धम्मन कांसल पुत्र रामेश्वर कांसल
			731	प्राइवेट	रोसाली	0-9	प्रीतम सिंह, गुरमुख सिंह, सरदारा सिंह, बलदेव सिंह पुत्र हजुरा सिंह 1/12, अमरजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह 5/48, लश्कर सिंह पुत्र मेहमा सिंह 5/48, धर्म सिंह पुत्र नाजर, सिंह 5/48, मैसर्ज ए. डी. एच. पॉलियर्थ प्रा. लि. 1/4, प्रधिमान सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 5/48, रोबिन, तंवर, मनोज, कंवर पुत्र रसाला 1/12, ठाकुर सिंह, राजिव सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 1/12, मुनीश कंवर पुत्र रसाला 1/12
						एकड़ - बीघे - बीसवे	
					कुल	0--1--11	
		11. खेहरमाजरा एच. बी. न. 28	622	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-6	एस. एस. एक्शन
			624	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-8	एस. एस. एक्शन 1/2, सोनी बिल्डिज इलेक्टोरजिज प्रा. लि. 1/2
			1002/997/6 25	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-1	मैसर्ज अरोसिव प्रा. लि.
			1003/997/6 25	प्राइवेट	बरानी	0---0	भारती उद्योगिक कारपोरेशन लि0 1/4

				1004/997/6 25	प्राविट	सतनी	0-7	श्रीमति इन्दी पत्नी मेन्का राम, 3/8, मठा रानी कौर पत्नी गरीब दास 2/8, अमिल कुमार पुत्र गरीब दास 1/8, कान्हा रानी बी० गौतम सम आधिति और अमिता पुत्री अरुण कुमार, 1/10, शेयर
				1006/999/6 26	प्राविट	सतनी	0-1/1/2	श्रीमति इन्दी पत्नी मेन्का राम, 3/8, मठा रानी कौर पत्नी गरीब दास 2/8, अमिल कुमार पुत्र गरीब दास 1/8, कान्हा रानी बी० गौतम सम आधिति और अमिता पुत्री अरुण कुमार, 1/10, शेयर
							एकाड़ - बी० - बी०	
						कुल	0-1- 3/1/2	
		12. बपूद दूध बी. न० 28	1077/367	प्राविट	गैर मुनिकम	0-----2	सीता पत्नी राम नाथ	
			1078/367	प्राविट	गैर मुनिकम	0-----0	सीता पत्नी राम नाथ	
			1210/1080/ 367	प्राविट	गैर मुनिकम	0-----1	अधिति पुत्री अरुण कुमार	
			1081/367	सरकारी	गैर मुनिकम रोड़	0-----0	श्रीमती सरकार (मिलिट्री)	
			1082/369	सरकारी	गैर मुनिकम रोड़	0-----0	श्रीमती सरकार (मिलिट्री)	
			1083/369	प्राविट	गैर मुनिकम दुकान	0-----2	मट्टू राम, मरताद बायसा पुत्र श्री हरी राम 3/8 लक्षण सिंह	
			1211/1088/ 1084/369	प्राविट	गैर मुनिकम	0-----0	मानराज पुत्र अतमा राम, जय राम पुत्र मट्टू	
			1309/1088/ 1084/369	प्राविट	गैर मुनिकम	0-----0	राम बिहारी पुत्र राम भगवान	
			1310/1088/ 1084/369	प्राविट	गैर मुनिकम दुकान	0-----1/2	सुरेश, राजेश पुत्र राम बरन	

				1311/370	प्राईवेट	गैर मुसकिन दुकान	0-----2	किरणपाल पुत्र बलवीर सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 2/20 चमहायन दास पुत्र कुष्ण दास-नोहन लाल पुत्र मनोहर लाल 1/20, महारानी न/0 कामता रानी वि० अशितपाल, अशितपाल पुत्री अरुण कुमार 1/2, जसवंत कुमार पुत्र फूल चन्द 1/30 फूल चन्द पुत्र जगन्नाथ 1/30, महारानी वि० गरीब दास-सुरेन्द्र, निधिपाल 18/60, कुलवीर सिंह पुत्र नरजम सिंह 1/20 शेयर
				1312/370	प्राईवेट	गैर मुसकिन दुकान	0-----0	महारानी वि० गरीब दास, सुरेन्द्र, निधिपाल, हरमोहन पुत्र अमिल कुमार
				1313/370	प्राईवेट	गैर मुसकिन दुकान	0-----0	वैस राज, अजोब सिंह पुत्र अतना दास
				371	पंचायत	गैर मुसकिन दुकान	0-----2	नगर पंचायत
				372	प्राईवेट	गैर मुसकिन दुकान	0-----2	भगवती वि० शिव दयाल 44, चरण पुत्र कपूर 5, नरता राम पुत्र साधक राम, 24, जोड़ 73 शेयर
				373	प्राईवेट	गैर मुसकिन दुकान	0-----2	भगवती वि० शिव दयाल 44, चरण पुत्र कपूर 5, नरता राम पुत्र साधक राम, 24, जोड़ 73 शेयर
				374	प्राईवेट	बरानी	0-----2	भगवती वि० शिव दयाल 44, चरण पुत्र कपूर 5, नरता राम पुत्र साधक राम, 24, जोड़ 73 शेयर
				374/1	प्राईवेट	बरानी	0-----0	भगवती वि० शिव दयाल 44, चरण पुत्र कपूर 5, नरता राम पुत्र साधक राम, 24, जोड़ 73 शेयर
				1213/375	प्राईवेट	गैर मुसकिन प्लॉट	0-----2	जसविन्द सुपुत्र श्री धिरम्जी लाल, 3/8, राज, राम पाल सुपुत्र पन्नी लाल 3/8, जोगिन्द कौर पन्नी जोगिन्द सिंह 2/8 शेयर
				1216/375	प्राईवेट	गैर मुसकिन प्लॉट	0-----1	रमेश लाल चन्द, राज कुमार पवन कुमार, सतीश कुमार, सुभाष सुपुत्र साधू राम
				1217/375	प्राईवेट	गैर मुसकिन प्लॉट	0-----1	जोनारधन प्रसाद सुपुत्र जट्टी राम 1/3, स्वामी बागवन्ता मन्दा घेला बिशन् देव 2/3

				376	प्राविट	बराही	2-----4	गुरवेव सिंह, इकन सिंह, जमेल सिंह, चौब सिंह, अजमेर सिंह, बलदेव सिंह, सुपुत्र बाबू राम 166/298, रोहित सुपुत्र विजय, सीमा पत्नी विजय 80/298
				377	प्राविट	बराही	2-----9	किरण पाल सुपुत्र राम सिंह, राम कुमार सुपुत्र अजमेर 49/298
				1400/378	प्राविट	बराही	1-----0	हरीश पत्नी पन्नी राम, पवन कुमार सुपुत्र सतपाल
				1401/378	प्राविट	बराही	1-----0	बलभ जैन सुपुत्र बी. को. जैन, रानी जैन पत्नी ललित मोहन
				1402/378	प्राविट	बराही	3-----18	करन सुपुत्र कपूर 1/3, अमर सुपुत्र कपूर 2/3
				379	प्राविट	बराही	3-----4	बलबन्त सिंह सुपुत्र कम्पू 1/46, पूरन कौर सुपुत्र बलबन्त सिंह 1/6, सुरिन्द्र कौर विधवा अजमेर 1/27, जगजीत सिंह पुत्र जसमेर सिंह 2/27 शमशेर सिंह हनेक सिंह हुस्न सिंह पुत्र बलबन्त सिंह 3/9 लाभ सिंह पुत्र बलबन्त सिंह 1/12 प्रेम कौर पत्नी लाभ सिंह 1/2
				380	प्राविट	बराही	2-----2	
				381	प्राविट	बराही	1-----4	नमिंद्र सिंह सुपुत्र बलजिन्द्र कौर सुपुत्री सूधा 1/4, राम, जसमेर, प्रेम, गुरवेव कौर, गुरमेल कौर सुपुत्र प्रीतन 1/4, परमजीत सिंह सुपुत्र प्रीथी 1/4, उमेश चन्द सुपुत्र शान लाल 1/4
				382	प्राविट	बराही	0-----13/1/2	नरिंद्र सिंह सुपुत्र नलकीत सिंह 83/191, श्रीमति उमा होम्बा सुपुत्री बाबुदेव सेठ 28/191, चामन सिंह एण्ड कं. 83/191
				383	प्राविट	बराही	0-----11	
				384	प्राविट	गैर मुनकिम बाह गैर जारी	0-----5	चाह अचमोरी बपिर
				1358/384/1	प्राविट	बराही	0-----1/2	भारत इन्डियन, हरिंद्र सिंह, बलविन्द सुपुत्र मोहन 1/2, तेजिन्द्र, जतिन्द्र सुपुत्र उजागर 1/2
				1357/384/1	प्राविट	बराही	0-----19	नहरामा विधवा गरीब बाल विधिपाल, हरमोहन पाल सुपुत्र अनिल कुमार 3/8, काम्ता रानी विधवा अविधि पाल, अम्कित गौतम सुपुत्र अरुन कुमार 2/5
				1222/386	प्राविट	बराही	0-----8	जमगीर सिंह सुपुत्र गम्भा राम
				1223/386	प्राविट	बराही	0-----4	जरमेल कौर पत्नी जागीर
				388	प्राविट	बराही	0-----1/2	जागीर सिंह सुपुत्र गम्भा राम
				412	प्राविट	बराही	0-----9	जागीर सिंह सुपुत्र गम्भा राम

			413	प्राईवेट	बरानी	0----- 10/1/2	करम सुपुत्र कपूर 1/3, अमर सुपुत्र कपूर 2/3
			427	प्राईवेट	चाही	0-----5	गुरपाल सिंह सुपुत्र उत्तम सिंह
			428	प्राईवेट	चाही	0-----12	गुरपाल सिंह सुपुत्र उत्तम सिंह
			429	प्राईवेट	बरानी	0-----15	जसबीर सिंह सुपुत्र करमेल चाह अवनोशी दपर
			443	प्राईवेट	चाही	0-----11	डिपलास्टिक प्लास्टिक लि.
			444	प्राईवेट	बरानी	0-----4	डायमण्ड प्लास्टिक
			980/445	प्राईवेट	बरानी	0-----6	अशोक, विनय सुपुत्र पियारे लास
			981/445	प्राईवेट	बरानी	1-----4	मे. धनरज ग्लोबल लि.
			447	प्राईवेट	बरानी	0-----5	मे. धनरज ग्लोबल लि.
			466	प्राईवेट	बरानी	1-----7	बलवन्त सिंह सुपुत्र फगू 1/6,
			467	प्राईवेट	बरानी	0-----8	पूरन कौर सुपुत्र बलवन्त सिंह 1/6,
			468	प्राईवेट	बरानी	4-----8	सुरिन्द कौर विधवा अजमेर 1/27, जगजीत सिंह सुपुत्र जसमेर सिंह 2/27, शमशेर सिंह, हनेक बलवन्त सिंह 3/9, लाभ सिंह सुपुत्र बलवन्त सिंह 1/12, प्रेम कौर पत्नी लाभ सिंह 1/36, रविंद्र सिंह सुपुत्र बलवन्त सिंह 241/2173
			469	पंचायत	गैर मुमकिन	0-----11	नगर पंचायत
			470	प्राईवेट	बरानी	0-----5	पेन्टा होमस प्रा. लि.
			471	प्राईवेट	बरानी	0-----6	पेन्टा होमस प्रा. लि.
			472	प्राईवेट	बरानी	2-----0	पेन्टा होमस प्रा. लि.
			473	प्राईवेट	बरानी	1-----4	पेन्टा होमस प्रा. लि.
			1413/488	प्राईवेट	बरानी	0-----13	पेन्टा होमस प्रा. लि.
			1414/488	प्राईवेट	बरानी	1-----3	संजय कुमार सुपुत्र शिव बमाल, अनिल कुमार सुपुत्र अर्जुन शास, राजीव कुमार सुपुत्र बासुदेव
			489	प्राईवेट	बरानी	1-----6	सन्त सिंह सुपुत्र इन्द्र सिंह
			490	प्राईवेट	बरानी	0-----1/1/2	दीपक पाइप इन्डिया लि.
			507	प्राईवेट	बरानी	0-----1	सन्त कौर पत्नी रम सिंह, भमश्रीत कौर पत्नी उधम, रीना सेन पत्नी अनिल कुमार पत्नी सोमती, जय सिंह गुरमीत कौर पत्नी अश्विनी कुमार
			507/1	प्राईवेट	बरानी	0-----2	
			1330/1237/ 1148/508	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----1/2	देव राज सुपुत्र गैदा राम
			1149/508	प्राईवेट	गैर मुमकिन	0-----0	नरिंद्र कुमार सुपुत्र गिरजा

				514	प्राइवेट	घाही	0-----2	सुनील कुमार सुपुत्र पन्नी लाल 1/8, पंकज कुमार, गौरव सुपुत्र मान चन्द 1/8, बिज लाल सुपुत्र बाबा चन्द 1/4, सुख देव सुपुत्र बाबा चन्द 1/4, सविता देवी, पवन कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार सुपुत्र ज्ञान लाल 1/4
				514/1	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----1	नगर पंचायत
				515	पंचायत	गैर मुनकिन	0-----2	नगर पंचायत
				518	सरकारी	गैर मुनकिन रोड़	0-----0	पंजाब सरकार (पी.डब्ल्यू.डी.)
				519	पंचायत	गैर मुनकिन दुकान	0-----2	नगर पंचायत
				523/1/2	प्राइवेट	गैर मुनकिन दुकान	0-----1	शमशेर, लाभ, हनेक, रविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
				1085/524	प्राइवेट	गैर मुनकिन	0-----0	धम्पा देवी विधवा राम मूर्ति 1/2, अनिल कुमार सुपुत्र प्रेम-चन्द 1/4, सुरेश कुमार विधवा अक्कू सुपुत्र अनिल कुमार 1/4
				1231/1086/524	प्राइवेट	गैर मुनकिन	0-----1/1/2	पारो देवी पत्नी वासुदेव 20/420, पवन कुमार सुपुत्र देव राज 46/1420, नछत्रो देवी न/0 लीला देवी विधवा, मनीषा देवी सुपुत्री सतीश कुमार सुपुत्र किशोरी लाल 9/1420, निक्का राम सुपुत्र बाबू राम 40/1420, राजिन्द्र कुमार सुपुत्र सोमनाथ 60/1420, ज्ञान लाल सुपुत्र देसोदी राम 50/1420, अनिल कुमार सुपुत्र प्रेम चन्द 20/1420, सुनील कुमार, परमोद कुमार, काली दास 40/1420, अवतार सुपुत्र बाबू सिंह 1/4, बाबू सिंह सुपुत्र पूरन सिंह 1/4, सोहन सिंह सुपुत्र सुरिन्द्र सिंह 1/2, 1135/1420)

				983/525	प्राइवेट	बरानी	0-----2	वेद कुमारी पुत्री वीम चन्व 21/67, महारानी वि. गरीब दास, कान्हा रानी, अवीति अकिता पुत्र अहम कुमार 17/67, महारानी पत्नी गरीब दास 25/1340, कुलवीर पुत्र, मरम्जन 75/1340, नन्व पुत्र लम्बू 5/67, नरिंद पाल पुत्र गिरजा कुमार 1/67, गंगा पुत्र रनजीत 4/67, राज कुमार पुत्र राम स्वल्प 1/67, पंकज पुत्र सीहा 2/67, हरीश कुमार पुत्र पुजार दास 1/67, देव कुमार, वीपक कुमार बंसल पुत्र हुकुम चन्व 2/67, रेखा रानी पत्नी महिन्द पाल 3/67, जसित कुमार, मेहेक कुमार, कुलवीर कुमार पुत्र राम नारायण 4/67
				1340/892	प्राइवेट	चाही	0-----1	रनधीर सुपुत्र कूरत सिंह
				1341/892	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----1	महिंद कुमार पुत्र बालमुकंद
				893	प्राइवेट	चाही	0-----1	सुनील कुमार सुपुत्र पत्नी लाल 1/8, पंकज कुमार, गौरव सुपुत्र माम चन्व 1/8, बिज लाल सुपुत्र बाबा चन्व 1/4, सुख देव सुपुत्र बाबा चन्व 1/4, लविता देवी, पवन कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार सुपुत्र शाम लाल 1/4
				897	प्राइवेट	चाही	0-----2	तेजा सिंह पुत्र करतार सिंह 5/36, तेज कुमार जंग, जैतान सिंह, साहब, साहब बलविन्द जसविन्द कौर पुत्र चानन 5/36, लखविन्द, जगतार, राजिन्द पुत्र मसीब 5/36, सरबन पुत्र हकीर 1/4, जसपाल तारा पुत्र सरबन 1/12, अंशु कौर एम/0 गुरविन्द पुत्र श्रीमति अमरजीत कौर वि. गुरबचन 1/8, कुलबीर सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/8



				898	प्राइवेट	चाही	0-----1	तेजा सिंह पुत्र करतार सिंह 5/36, तेज कुमार जंग, जैतान सिंह, कलक, साहब बलविन्द जलविन्द कौर पुत्र चानन 5/36, ललविन्द, जगत्तर, राजिन्द पुत्र नलीब 5/36, करबन पुत्र ठनीर 1/4, जलपाल लाल पुत्र खबन 1/12, अविज कौर एन/0 गुरविन्द पुत्र श्रीमति जमरजीत कौर वि. गुरबकत 1/8, कुलवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह 1/8
				899	प्राइवेट	चाही	0-----1	रघुवीर सिंह पुत्र प्रीतन सिंह
				912	प्राइवेट	चाही	0-----1	नलीब, प्रेम पुत्र अर्जुन
				913	प्राइवेट	चाही	0-----1	बलदेव पुत्र बधीतार सिंह 1/5, सुनीता देवी पत्नी कंवर महिन्द्र, आसीना भटनागर पुत्री महिन्द्र सिंह, लूचा पुत्र प्रीतन सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह
				921	प्राइवेट	चाही	0-----2	बलदेव पुत्र बधीतार सिंह 1/5, सुनीता देवी पत्नी कंवर महिन्द्र, आसीना भटनागर पुत्री महिन्द्र सिंह, लूचा पुत्र प्रीतन सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह
				922	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-----1	परमोद कुमार पुत्र राम कुमार
				923	प्राइवेट	चाही	0-----1	अशविन्द पुत्र बलदेव
				1428-1429/1173/971	सरकारी	चाही	0-----2	पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
				1174/971	सरकारी	चाही	0-----0	पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
				1430-31/972	सरकारी	चाही	0-----1	पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ओंकार पुत्र महिन्द्र
				1356/977	प्राइवेट	चाही	0-----2	ओंकार पुत्र महिन्द्र
				1355/977	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-----0	मै. टरबो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
				978	प्राइवेट	गैर मुकिन फेक्ट्री	0-----3	मै. टरबो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
							एकड़ - बीगो - बीससे	
						कुल	8--2--4	

			13. जैनपुर एघ. खी. नं. 19	11//24	प्राइवेट	बरानी	0-----3	आत्मा सिंह, प्रीतम सिंह, करमेल सिंह, धरमजीत सिंह पुत्र नरंजन सिंह 1120/2161, अजय कुमार, रमन कुमार पुत्र रविन्द्र पाल 60/2161, अनूप कुमार, राजीव कुमार, चन्दरकान्ता पत्नी विनोद कुमार 60/2161, राज रानी पत्नी अनूप कुमार, गुनमाला पत्नी भूपिंद कुमार, रन सिंह, जोगिन्द्र सिंह, कोचर सिंह पुत्र ईशर सिंह 120/2161, मेहर कौर, बन्त सिंह, जागीर सिंह, बलबीर कौर, गुरनाम सिंह, गुरनाम कौर, प्रीतम कौर, धरमजीत कौर, अमरजीत कौर, स्वरन कौर, रमजीत कौर पुत्र और पुत्री अर्जुन सिंह 120/2161
				12//11	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----1	मै. मिनी एण्टरप्राइजेस प्रा. लि.
				20	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----4	मै. मिनी एण्टरप्राइजेस प्रा. लि.
				21	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----10	नरिंद कौर पत्नी ईशर सिंह, गुरमिन्द्र कौर पत्नी भजन सिंह 1/2, ईशर सिंह पुत्र किसना सिंह, संतोष कौर पत्नी सुरजीत सिंह 1/2
				13//4	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----10	मलकीत सिंह पुत्र उजागर सिंह
				5	प्राइवेट	बरानी	0-----9	निष्मी पत्नी शशी कुमार, अमिता पत्नी अजीत कुमार
				13//6	प्राइवेट	बरानी	0-----10	मै. मिनी एण्टरप्राइजेस प्रा. लि.
				13//7	प्राइवेट	बरानी	0-----10	प्रिया केमिकल एण्ड फरटीलाइजर्स फाइव स्टार प्लास्टिक
				14	प्राइवेट	बरानी	0-----10	अमरीक सिंह, बलविन्द्र सिंह संतोष सिंह 1/4, शोभा सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र बाबू सिंह 1/3, प्रीतम सिंह, पुत्र बाबू सिंह 1/12, जोगिन्द्र सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/12
				15	प्राइवेट	बरानी	0-----9	मै. मिनी एण्टरप्राइजेस प्रा. लि.
				16/1	प्राइवेट	बरानी	0-----6	मै. मिनी एण्टरप्राइजेस प्रा. लि.

				16/2	प्राविट	बराही	0-----9	आत्मा सिंह, प्रीतम सिंह, कर्नैल सिंह, चरमजीत सिंह पुत्र मरहूम सिंह 1120/2161, अजय कुमार, रमन कुमार पुत्र लखिम पल 60/2161, अनूप कुमार, राजीव कुमार, धनकरकान्ता पत्नी विमेश कुमार 60/2161, राज रानी पत्नी अनूप कुमार, गुमनामा पत्नी भूपिण्ड कुमार, रम सिंह, जोगिन्द सिंह, कोबलर सिंह पुत्र ईशर सिंह 120/2161, मेहर कौर, बन्त सिंह, जागीर सिंह, बलवीर कौर, गुरनाम सिंह, गुरनाम कौर, प्रीतम कौर, चरमजीत कौर, अमरजीत कौर, स्वरम कौर, रमजीत कौर पुत्र और पुत्री अर्जुन सिंह 120/2161
				17	प्राविट	बराही	0-----1	अनरीक सिंह, बलविन्द सिंह संतोष सिंह 1/4, मोभा सिंह, बलबन्त सिंह पुत्र बाबू सिंह 1/3, प्रीतम सिंह, पुत्र बाबू सिंह 1/12, जोगिन्द सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/12
				25/2	पंथायत	बंजर कहीन	0-----1	मगर पंथायत
				25/1/2	प्राविट	बराही	0-----5	आर. के. गर्ग पुत्र श्री ठंडा राज गर्ग 1/3, गुमनामा पत्नी भूपिण्ड कुमार, धनकरकान्ता पत्नी राज कुमार, राज रानी पत्नी अनूप कुमार 2/3
				25/1/1	प्राविट	बराही	0-----5	अनरीक सिंह, बलविन्द सिंह संतोष सिंह 1/4, मोभा सिंह, बलबन्त सिंह पुत्र बाबू सिंह 1/3, प्रीतम सिंह, पुत्र बाबू सिंह 1/12, जोगिन्द सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/12
				23/4	प्राविट	बराही	0-----10	आर. के. गर्ग पण्डित लखन पुत्र ठंडाराज गर्ग 1/3, गुरनैक कौर पत्नी भूपिण्ड कुमार, धनकरकान्ता पत्नी विमेश कुमार पुत्र अनूप कुमार 2/3
				7	प्राविट	बराही	0-----10	आर. के. गर्ग पण्डित लखन पुत्र ठंडाराज गर्ग 1/3, गुरनैक कौर पत्नी भूपिण्ड कुमार, धनकरकान्ता पत्नी विमेश कुमार पुत्र अनूप कुमार 2/3

			15/1	प्राइवेट	बरानी	0-----7	आर. को. गर्ग एण्ड सन्ज पुत्र हंसराज गर्ग 1/3, गुरनैक कौर पत्नी भूपिन्द कुमार, चन्द्र कान्हा पत्नी विनेश कुमार पुत्र अनूप कुमार 2/3
			15/2	प्राइवेट	बरानी	0-----3	आरिपेन्टल एनलिसि प्रा. लि.
			16/1	प्राइवेट	बरानी	0-----4	सूरिया फेब्रिकल प्रा. लि.
			16/2	प्राइवेट	बरानी	0-----1/1/2	आरिपेन्टल एनलिसि प्रा. लि.
			16/3	प्राइवेट	बरानी	0-----4	भूपिन्द सिंह पुत्र जय राम 10/512, सुरजिन्द सिंह, जसदेव सिंह पुत्र भूपिन्द सिंह 80/512, नहिन्द सिंह पुत्र लेखू 261/512, राज कुमार पुत्र पियारा लाल 161/512
			25	प्राइवेट	बरानी	0-----10	भूपिन्द सिंह पुत्र जय राम 10/512, सुरजिन्द सिंह, जसदेव सिंह पुत्र भूपिन्द सिंह 80/512, नहिन्द सिंह पुत्र लेखू 261/512, राज कुमार पुत्र पियारा लाल 161/513
			24/1	प्राइवेट	घाही	0-----10	अनु महाजन पुत्री बिलोक महाजन
			24/10	प्राइवेट	घाही	0-----10	जगजीत सिंह पुत्र माधा सिंह
			11	प्राइवेट	घाही	0-----10	जगजीत सिंह पुत्र माधा सिंह
			20	प्राइवेट	घाही	0-----10	जगजीत सिंह पुत्र माधा सिंह
			21	प्राइवेट	घाही	0-----10	अमरीक कुमार पुत्र विद्या सागर 1/2, मनोज कुमार पुत्र सूरत राज 1/2
			25/1	प्राइवेट	घाही	0-----10	अमरीक कुमार पुत्र विद्या सागर 1/2, मनोज कुमार पुत्र सूरत राज 1/2
			10	प्राइवेट	गैर मुक्तिन नैयदूरी	0-----10	बघीतार लाल प्रा. लि.
			11	प्राइवेट	बरानी	0-----10	परताप कौर पत्नी मरिन्द सिंह, मनपाल सिंह, सेजिन्द पाल सिंह, देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र लाल सिंह
			20	प्राइवेट	बरानी	0-----10	परताप कौर पत्नी मरिन्द सिंह, मनपाल सिंह, सेजिन्द पाल सिंह, देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र लाल सिंह
			21	प्राइवेट	बरानी	0-----10	परताप कौर पत्नी मरिन्द सिंह, मनपाल सिंह, सेजिन्द पाल सिंह, देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र लाल सिंह
			26/5/1	प्राइवेट	बरानी	0-----5	भूपिन्द सिंह पुत्र जय राम 10/512, सुरजिन्द सिंह, जसदेव सिंह पुत्र भूपिन्द सिंह 80/512, नहिन्द सिंह पुत्र लेखू 261/512, राज कुमार पुत्र पियारा लाल 161/512

				26/5/2	प्राविट	आही	0-----5	सुरजीत कौर बि. गुरजिन्द सिंह, जसविन्द सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र करन सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/4, गुरमान सिंह, देविन्द सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 3/4
				6	प्राविट	आही	0-----10	सुरजीत कौर बि. गुरजिन्द सिंह, जसविन्द सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र करन सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/4, गुरमान सिंह, देविन्द सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 3/4
				15/1	प्राविट	आही	0-----2	सुरजीत कौर बि. गुरजिन्द सिंह, जसविन्द सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र करन सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/4, गुरमान सिंह, देविन्द सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 3/4
				15/2	प्राविट	आही	0-----9	इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, बिक्रम पाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह
				16	प्राविट	आही	0-----7	इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, बिक्रम पाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह
				25/1	प्राविट	आही	0-----7	इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, बिक्रम पाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह
				25/2	प्राविट	बरानी	0-----3	अवतार सिंह एण्ड सन्ज
				36/5	प्राविट	बरानी	0-----10	अवतार सिंह एण्ड सन्ज
				36/6	प्राविट	बरानी	0-----10	अवतार सिंह एण्ड सन्ज
				15	प्राविट	आही	0-----10	गुरचरण सिंह, काकू सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
				16	प्राविट	आही	0-----10	गुरचरण सिंह, काकू सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
				25/2/1	प्राविट	बरानी	0-----4	मनमोहन सिंह पुत्र बलवंत सिंह
				25/2/2	प्राविट	बरानी	0-----1	महिमा सिंह पुत्र मन्व सिंह
				21/1	प्राविट	बरानी	0-----5	गुरचरण सिंह काकू सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
				21/2	प्राविट	बरानी	0-----1	महिमा सिंह पुत्र मन्व सिंह
				37/1	प्राविट	आही	0-----10	प्रताप कौर पत्नी मरिन्द सिंह, मनपाल सिंह, तेजिन्द पाल सिंह, देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र लाल सिंह
				37/9/2	प्राविट	बरानी	0-----10	राजेश कुमार पुत्र सतपाल 0/4, शानसा पत्नी किरपाल 0/6
				12	प्राविट	आही	0-----10	महिमा सिंह पुत्र मन्व सिंह
				19	प्राविट	बरानी	0-----10	कुलवीर सिंह पुत्र आनन सिंह, मनजीत कौर पत्नी कुलवीर सिंह

			22/1	प्राइवेट	बरानी	0-----2	कुलदीप सिंह पुत्र आत्मा सिंह, मनजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह
			22/2	प्राइवेट	बरानी	0-----7	कुलदीप सिंह पुत्र आत्मा सिंह, मनजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह
			22/3	पंचायत	गैर मुमकिन चाही	0-----1	नगर पंचायत
			40/1	प्राइवेट	बरानी	0-----9	महिना सिंह पुत्र नन्द सिंह
			40/2	प्राइवेट	बरानी	0-----10	करनैल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह
			9/1	प्राइवेट	बरानी	0-----5	हिन्दुस्तान इलेक्ट्रोनिक्स जनेतपुर
			40/9/2	प्राइवेट	बरानी	0-----5	सन्नी वेलटैक्नोलोजी प्रा. लि.
			10/1	प्राइवेट	बरानी	0-----2	परवीन कुमार पुत्र गोबिंद राम
			10/2/1	प्राइवेट	बरानी	0-----8	महिना सिंह पुत्र नन्द सिंह
			10/2/2	प्राइवेट	बरानी	0-----0	परवीन कुमार पुत्र गोबिंद राम
			11	प्राइवेट	बरानी	0-----10	वेद प्रकाश पुत्र राम स्वयं
			12	प्राइवेट	गैर मुमकिन फैक्ट्री	0-----10	सन्नी वेलटैक्नोलोजी प्रा. लि.
			40/19	प्राइवेट	चाही	0-----10	करनैल कौर पत्नी भजन सिंह 1400/2020, इन्द्रजीत सिंह पुत्र भजन सिंह 400/2020, भजन सिंह एण्ड साजन 200/2020
			20	प्राइवेट	चाही	0-----10	राजेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश 113/422, पूनम रानी पत्नी वेद प्रकाश 42/422, कमलेश रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र रविन्द्र प्रकाश 89/422, राबिंद्र प्रकाश, वेद प्रकाश पुत्र राम प्रकाश 101/422, सलामवीन पुत्र मेहदी ठसम 72/422
			21	प्राइवेट	चाही	0-----10	राजेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश 113/422, पूनम रानी पत्नी वेद प्रकाश 42/422, कमलेश रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र रविन्द्र प्रकाश 89/422, राबिंद्र प्रकाश, वेद प्रकाश पुत्र राम प्रकाश 101/422, सलामवीन पुत्र मेहदी ठसम 72/422
			41/5/2	प्राइवेट	बरानी	0-----1	महिना सिंह पुत्र नन्द सिंह
			44/1	प्राइवेट	बरानी	0-----7	राजेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश 113/422, पूनम रानी पत्नी वेद प्रकाश 42/422, कमलेश रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र रविन्द्र प्रकाश 89/422, राबिंद्र प्रकाश, वेद प्रकाश पुत्र राम प्रकाश 101/422, सलामवीन पुत्र मेहदी ठसम 72/422

			2	प्राइवेट	बराबरी	0-----7	करमेल कौर पत्नी भजन सिंह 1400/2020, इन्द्रजीत सिंह पुत्र भजन सिंह 400/2020, भजन सिंह एण्ड साजन 200/2020
			57	पंचायत	गैर मुमकिन	0-----3	नगर पंचायत
			22	प्राइवेट	चाही	0-----10	गुरजीत सिंह पुत्र महिंद्र सिंह
						एकड़ - बीघे - बीसवे	
					कुल	5--1-- 18/1/2	
		14. डेवीनगर एच. बी. नं. 18	2/11/2	प्राइवेट	चाही	0-----0	राम प्रकाश, नसीब सिंह, भाग सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र 3210, गुरनाम सिंह गुरज सिंह, जर्नल सिंह, स्वरूप सिंह पुत्र बलदेव सिंह 1486, प्रीतम सिंह पुत्र उत्तम सिंह 876, स्वामी बिल्डरल और कन्स्ट्रक्शन कं. 4090 (टोटल 10620)
			12	प्राइवेट	चाही	0-----5	सोहन सिंह, गुरमेल सिंह, हर चन्द सिंह पुत्र रनजीत सिंह
			18/1/1	प्राइवेट	चाही	0-----3	हरप्रीत पाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, हरिंदर पाल सिंह, गुरबक्स सिंह
			18/1/2	प्राइवेट	चाही	0-----8	देवेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह
			18/1	प्राइवेट	चाही	0-----1	देवेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह
			20	प्राइवेट	चाही	0-----14	सोहन सिंह, गुरमेल सिंह, हर चन्द सिंह पुत्र रनजीत सिंह
			21/1	प्राइवेट	चाही	0-----3	दर्शन लाल पुत्र जय दयाल, विशम्बर लाल पुत्र मिल्की राम, बलदेव सिंह पुत्र नराता राम
			21/2	सरकारी	गैर मुमकिन नदी	0-----5	पंजाब सरकार
			21/3	प्राइवेट	चाही	0-----3	दर्शन लाल पुत्र जय दयाल, विशम्बर लाल पुत्र मिल्की राम, बलदेव सिंह पुत्र नराता राम
			22/1/1	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----1	पंजाब सरकार
			22/1/2	सरकारी	चाही	0-----6	देवेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह
			22/2/1	सरकारी	मुमकिन	0-----3	पंजाब राज इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड
			22/2/2	सरकारी	गैर मुमकिन नदी	0-----2/1/2	पंजाब सरकार
			6/5/1	प्राइवेट	चाही	0-----6	दर्शन लाल पुत्र जय दयाल, विशम्बर लाल पुत्र मिल्की राम, बलदेव सिंह पुत्र नराता राम

				5/2	प्राइवेट	चाही	0-----7	मेहर सिंह, बलदेव सिंह, कहर सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र वर्मान लाल 1/6, लाजो देवी पुत्री मुन्नी 1/3, प्रीतम सिंह, देसराज, गुरबीर सिंह पुत्र रामजस 1/2
				13/2	प्राइवेट	चाही	0---0	महेन्द्र सिंह पुत्र सुंदर सिंह, मनजीत कौर पत्नी सुरेंद्र सिंह, इन्द्रजीत सिंह पुत्र करतार सिंह, सुरेंद्र कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह
				14/1	प्राइवेट	चाही	0-----3	सरबति देवी वि. नरिंद सिंह, नरिन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह 53, बरखा राम 112 पुत्र केवल सिंह, राम सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र वलीप सिंह 30, गुरबक्स सिंह, रतन सिंह पुत्र चरन जीत सिंह 392, अशविन्द सिंह पुत्र स्वरन सिंह, सिमरन कौर पत्नी अशविन्द सिंह 86/12, अमनबीर सिंह, जागीर सिंह, दयाल कौर पुत्र इन्द्रजीत सिंह पुत्र जय सिंह 86/1/2
				14/2	प्राइवेट	चाही	0-----8	महेन्द्र सिंह पुत्र सुंदर सिंह, मनजीत कौर पत्नी सुरेंद्र सिंह, इन्द्रजीत सिंह पुत्र करतार सिंह, सुरेंद्र कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह
				17	प्राइवेट	चाही	0-----10	दलबीर सिंह पुत्र गुरचरन सिंह, पुष्पिन्दर सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				18/1/1	प्राइवेट	चाही	0-----3	हरिंदर पाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह
				18/1/2	प्राइवेट	चाही	0-----4	जसवन्त सिंह सुपुत्र पाल सिंह, असलम खान पुत्र जूमा खान 1/2, निधि नरला पत्नी नरेश नरला 1/2
				18/2	प्राइवेट	चाही	0-----4	जसवन्त सिंह सुपुत्र पाल सिंह, असलम खान पुत्र जूमा खान 1/2, निधि नरला पत्नी नरेश नरला 1/2
				6/18/3/1	प्राइवेट	चाही	0---0	हरिंदर पाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह
				18/3/2	प्राइवेट	चाही	0---0	जसवन्त सिंह सुपुत्र पाल सिंह, असलम खान पुत्र जूमा खान 1/2, निधि नरला पत्नी नरेश नरला 1/2
				22	प्राइवेट	चाही	0-----5	प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, मनदीप कुमार पुत्र गुरुमुख सिंह 461/6461, कुलदीप सिंह, बलविन्दर सिंह पुत्र सुरमुख सिंह 462/6461



				24/1	प्राइवेट	चाही	0-----12	सरिन्द्रा फ्रीलिंग स्टेशन देवीनगर
				6/6/1	प्राइवेट	चाही	0-----6	श्रीमति सरबति देवी वि. गरीब दात और अन्य
				15	प्राइवेट	चाही	0-----12	सरबति देवी वि. नरिन्द्र सिंह, नरिन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह 53, बरखा राम 112 पुत्र केवल सिंह, राम सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र दलीप सिंह 30, गुरबक्स सिंह, रतन सिंह पुत्र चरन जीत सिंह 392, अशविन्द्र सिंह पुत्र स्वरन सिंह, सिमरन कौर पत्नी अशविन्द्र सिंह 86/12, अमनबीर सिंह, जागीर सिंह, दयाल कौर पुत्र इन्द्रजीत सिंह पुत्र जय सिंह 86/1/2
				16	प्राइवेट	चाही	0-----1	सरबति देवी वि. नरिन्द्र सिंह, नरिन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह 53, बरखा राम 112 पुत्र केवल सिंह, राम सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र दलीप सिंह 30, गुरबक्स सिंह, रतन सिंह पुत्र चरन जीत सिंह 392, अशविन्द्र सिंह पुत्र स्वरन सिंह, सिमरन कौर पत्नी अशविन्द्र सिंह 86/12, अमनबीर सिंह, जागीर सिंह, दयाल कौर पुत्र इन्द्रजीत सिंह पुत्र जय सिंह 86/1/2
				7	प्राइवेट	चाही	0-----14	मेहर सिंह, बलदेव सिंह, कहर सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र दर्शन लाल 1/6, लाजो देवी पुत्री मुन्नी 1/3, प्रीतम सिंह, देसराज, गुरबीर सिंह पुत्र रामजस 1/2
				7/1	प्राइवेट	चाही	0-----12	सरबति देवी वि. महेंद्र सिंह, हरमिन्दर सिंह पुत्र बाबू सिंह 53, बरखा राम 112 पुत्र केवल सिंह, राम सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र दलीप सिंह 30, गुरबक्स सिंह, रतन सिंह पुत्र चरन जीत सिंह 392, अशविन्द्र सिंह पुत्र स्वरन सिंह, सिमरन
				10	प्राइवेट	चाही	0-----3	सरबति देवी वि. महेंद्र सिंह, हरमिन्दर सिंह पुत्र बाबू सिंह 53, बरखा राम 112 पुत्र केवल सिंह, राम सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र दलीप सिंह 30, गुरबक्स सिंह, रतन सिंह पुत्र चरन जीत सिंह 392, अशविन्द्र सिंह पुत्र स्वरन सिंह, सिमरन

			13/2/1	प्राइवेट	चाही	0-----2/1/2	प्रदीप कुमार, सदीप कुमार, मनदीप कुमार पुत्र गुरुमुख सिंह 461/6461, कुलदीप सिंह, बलविन्दर सिंह पुत्र सुरमुख सिंह 462/6461
			2/2	प्राइवेट	बरानी	0-----8/1/2	कृष्ण गोपाल पुत्र छोदू राम
			10/1	प्राइवेट	चाही	0-----2/1/2	हरि कृष्ण गोपाल पुत्र छोदू राम 1/4, प्रेम कौर वि. रघुबीर सिंह, किरपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह 1/2, श्रीमति नमिता अग्रवाल पत्नी राकेश कुमार 1/4
			10/2	प्राइवेट	चाही	0-----5/1/2	हरि कृष्ण गोपाल पुत्र छोदू राम 1/4, प्रेम कौर वि. रघुबीर सिंह, किरपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह 1/2, श्रीमति नमिता अग्रवाल पत्नी राकेश कुमार 1/4
			10/3	प्राइवेट	गैर मुकिन	0-----3/1/2	नीरज बजाज पुत्र चुंग लाल, श्रीमति दीपा पत्नी नीरज बजाज, कृष्ण लाल पुत्र चुंग लाल, श्रीमति ऋतु बजाज पत्नी कृष्ण बजाज
			13/11/1	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----11	नीरज बजाज पुत्र चुंग लाल, श्रीमति दीपा पत्नी नीरज बजाज, कृष्ण लाल पुत्र चुंग लाल, श्रीमति ऋतु बजाज पत्नी कृष्ण बजाज
			11/2	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----8	नीरज बजाज पुत्र चुंग लाल, श्रीमति दीपा पत्नी नीरज बजाज, कृष्ण लाल पुत्र चुंग लाल, श्रीमति ऋतु बजाज पत्नी कृष्ण बजाज
			13/3/1	प्राइवेट	बरानी	0-----3/1/2	सरिन्द्रा फीलिंग स्टेशन देवीनगर
			3/2	प्राइवेट	चाही	0-----3	मेहर सिंह, बलदेव सिंह, कहर सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र दर्शन लाल 1/6, लाजो देवी, प्रीतो देवी पुत्री मुन्गी 1/3, प्रीतम सिंह, देसराज, गुरबीर सिंह पुत्र राम दास 1/2
			3/3	प्राइवेट	चाही	0-----4/1/2	जागीर सिंह पुत्र भगत सिंह
			8/1	प्राइवेट	चाही	0-----1	जागीर सिंह पुत्र भगत सिंह
			8/2	प्राइवेट	चाही	0-----6	जागीर सिंह पुत्र भगत सिंह
			8/3	प्राइवेट	चाही	0-----4	बी. एल. इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
			12/1	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----6	ड्रिक्स पोलि प्रोडक्शन लि.
			12/2	प्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----5	दीप टयूब ड्रिल्स प्रा. लि.
			19/2	प्राइवेट	चाही	0-----11	महेन्द्र सिंह, राजिन्द्र सिंह, पुत्र चमन सिंह 1/2, हंसा पुत्र भगवान 1/2

				21/1	प्रापित	काठी	0-----6	मुनिवर सिंह, पवित्र सिंह पुत्र अनवर सिंह
				21/2	प्रापित	काठी	0-----2	पुष्पा देवी पत्नी सुरेश चन्द, बसुवरा जेन पत्नी बंजीव जेन, ममता जेन पत्नी परमेश जेन
				14/16	प्रापित	गैर मुकिम मौजद्वी	0-----7	जागीर सिंह पुत्र भगत सिंह
				25/1	प्रापित	काठी	0-----2	स्वरूप सिंह पुत्र रमजीत सिंह
				25/2/1	प्रापित	बरानी	0-----1/2	स्वरूप सिंह पुत्र रमजीत सिंह 1/2, बचसीत सिंह पुत्र बलबन्त सिंह 1/8, इस्का सिंह, कुलदीप सिंह, बलबन्त सिंह 1/8, करतार कौर वि. हरदयाल सिंह 1/4
				25/2/2	प्रापित	बरानी	0-----8/1/2	किरण सिंह मुलक सिंह 1/3, वर्त्मन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. 2/3
				15/5/1	प्रापित	बरानी	0-----6	वसीप सिंह पुत्र करन सिंह 1/4, अपतार सिंह पुत्र वसीप सिंह 1/4, भगवन्त कौर पत्नी वसीप सिंह 1/4, जलपाल सिंह पुत्र वसीप सिंह 1/4
				5/2	प्रापित	बरानी	0-----4	सरबजीत सिंह पुत्र भगवंत सिंह 38/118, परमिंदर सिंह, मनजीत कौर पत्नी परमिंदर सिंह 80/118
				6	प्रापित	बरानी	0-----10	मोहित देवी वि. राज कुमार 1/2, रमन कुमार पुत्र कुष्मा कुमार 1/2
				15/7	प्रापित	बरानी	0-----10	सरबजीत सिंह पुत्र भगवंत सिंह 38/118, परमिंदर सिंह, मनजीत कौर पत्नी परमिंदर सिंह 80/118
				14/1	प्रापित	बरानी	0-----9	मुक्ता पुत्र दत्तेजा 2/5, अपतार सिंह, जगतार सिंह, महिंद्र सिंह 1/5, जलनेर सिंह 1/10, ओम प्रकाश पुत्र नरदी तात 2/3, महिंद्र कुमार पुत्र विलोक 1/3 (3/10)
				14/2	प्रापित	बरानी	0-----2/1/2	गै. सतिन्द्र सिंह इस्टेट प्रा. लि.
				15	प्रापित	बरानी	0-----11	सुनील कुमार, पवन कुमार, सतीश कुमार, अश्विनी कुमार पुत्र राज कुमार
				16	प्रापित	बरानी	0-----11	सुनील कुमार, पवन कुमार, सतीश कुमार, अश्विनी कुमार पुत्र राज कुमार
				17	प्रापित	बरानी	0-----10	ओम प्रकाश पुत्र मलकीत तात
				18	प्रापित	बरानी	0-----0	ओम प्रकाश पुत्र मलकीत तात
				41	पंचायत	गैर मुकिम काठी	0-----2	नगर पंचायत

			80	पंचायत	गैर मुमकिन पाही	0-----1/2	नगर पंचायत
			81	पंचायत	गैर मुमकिन पाही	0-----1/2	नगर पंचायत
			93	पंचायत	गैर मुमकिन पाही	0-----1/2	नगर पंचायत
			16/1	प्राइवेट	बरानी	0-----10	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी सुरेश चन्द, वासुजा जैन पत्नी संजीव कुमार जैन, आभा कौर पत्नी परमोद जैन
			10/1	प्राइवेट	बरानी	0-----0	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी सुरेश चन्द, वासुजा जैन पत्नी संजीव कुमार जैन, आभा कौर पत्नी परमोद जैन
						एकड़ - बीगे - ब सवे	
					कुल	3--3--18	
		15. हरिपुर कुर्रम एच. बी. नं. 17	600/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----9	अमृत पाल सिंह, सतपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह
			2	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----7	अमृत पाल सिंह, सतपाल सिंह पुत्र, बलवंत सिंह
			6	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----5	अमृत पाल सिंह, सतपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह
			7/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----1	अमृत पाल सिंह, सतपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह
			7/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----3	मै. सब इंडस्ट्रिज लि.
			12	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----6	मै. सब इंडस्ट्रिज लि.
			13	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----10	मै. सब इंडस्ट्रिज लि.
			20	प्राइवेट	गैर मुमकिन चाही	0-----12	सदीप राय पुत्र छोदू राम, भगीरथ लाल पुत्र छोदू राम, जय गोपाल पुत्र हरि गोपाल, सुमित गोयल पुत्र उदन गोयल
			21	प्राइवेट	गैर मुमकिन नाला	0-----12	जसविन्द्र कौर वि. अमरवीप सिंह, हरबस सिंह पुत्र बीर सिंह, जरनैल सिंह पुत्र दयाल सिंह
			577/30	प्राइवेट	चाही	0-----3	श्रीमति रंजना पुत्री सरवन सिंह
			578/30	प्राइवेट	चाही	0-----3	श्रीमति रंजना पुत्री सरवन सिंह
			579/30	प्राइवेट	चाही	0-----6	श्रीमति रंजना पुत्री सरवन सिंह
			31	प्राइवेट	चाही	0-----12	राहुल कुमार पुत्र सरवन सिंह

				45	प्राइवेट	चाही	0-----12	दिनेश कुमार पुत्र केदार नाथ, मधु गुप्ता पत्नी श्री. के. गुप्ता, देव राज पुत्र ठाकुर दास, प्रवीण कुमार, हरिंदर कुमार पुत्र देव राज
				46	प्राइवेट	बरानी	0-----12	अमरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह
				47	प्राइवेट	बरानी	0-----6	अमरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह
				52	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-----2	नगर पंचायत
				59	प्राइवेट	बरानी	0-----15	बलवीर कौर पत्नी हरमेश सिंह
				61	प्राइवेट	चाही बाग	0-----10/1/2	लखविन्द्र, पीर सिंह पुत्र हरबंस सिंह
				62	प्राइवेट	चाही बाग	0-----12	मै. पीयरल इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लि.
				97	प्राइवेट	चाही बाग	0-----12	मै. पीयरल इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लि.
				98	प्राइवेट	चाही बाग	0-----12	मै. पीयरल इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लि.
				99	प्राइवेट	चाही बाग	0-----12	मै. पीयरल इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लि.
				100	प्राइवेट	चाही	0-----12	माडल सिक्योरिटी सिस्टमस लि.
				127	प्राइवेट	चाही	0-----5	महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह
				127/1	प्राइवेट	चाही	0-----11	माडल सिक्योरिटी सिस्टमस लि.
				128	सरकारी	गैर मुनिकिन रोड	0-----1/1/2	प्रोविजिनल सरकारी (पी.डब्ल्यू.डी.)
				129	प्राइवेट	गैर मुनिकिन फेक्ट्री	0-----6	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				134	प्राइवेट	गैर मुनिकिन फेक्ट्री	0-----12	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				135	प्राइवेट	चाही	0-----11	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				556/136	प्राइवेट	चाही	0-----5	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				557/136	प्राइवेट	चाही	0-----5	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				144	प्राइवेट	चाही	0-----4	भूषण इंडस्ट्रीज लि.
				145	प्राइवेट	बरानी	0-----11	अमरीक सिंह परमजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह
				580/146	प्राइवेट	बरानी	0-----5/1/2	अजीत सिंह पुत्र स्वजन सिंह
				581/146	प्राइवेट	बरानी	0-----4	पेन्टा होमस प्रा. लि.
				147	प्राइवेट	चाही बाग	0-----17	हरिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
				148	प्राइवेट	चाही बाग	0-----9	हरिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
				149	प्राइवेट	चाही बाग	0-----10	हरिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
				550/151	प्राइवेट	चाही बाग	0-----1	हरिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
				551/151	प्राइवेट	चाही बाग	0-----5	जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज लि.
				152	प्राइवेट	चाही बाग	0-----10	जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज लि.
							एकड़ - बीघे - बीसबे	
					कुल		3-2-11/1/2	

						कनाल - मरला	
		16. भांखरपुर एच. खी. नं. 236	13//4	गमलात पट्टी	चाही	2-----3	गमलात पट्टी
			6	प्राइवेट	चाही	2-----2	स्पेक्टरेट ग्लोबल प्रा. लि.
			15	प्राइवेट	चाही	0-----3	स्पेक्टरेट ग्लोबल प्रा. लि.
			14//1	गमलात पट्टी	चाही	0-----9	गमलात पट्टी
			14//10/1-2	प्राइवेट	चाही	2-----4	गौरी शंकर पुत्र महावीर प्रसाद
			11	प्राइवेट	चाही	1-----19	स्पेक्टरेट ग्लोबल प्रा. लि.
			12	प्राइवेट	बरानी	2-----2	देवी प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद
			18	प्राइवेट	चाही	1-----18	मै. इन्द्रजीत सिंह पुत्र हजरा सिंह
			19	प्राइवेट	चाही	1-----8	स्पेक्टरेट ग्लोबल प्रा. लि.
			20	प्राइवेट	चाही	0-----14	स्पेक्टरेट ग्लोबल प्रा. लि.
			22	प्राइवेट	चाही	2-----2	स्वरन कौर पत्नी हजरा सिंह 228 शेयर, रतन लाल पुत्र चरत राम 1/2, प्रदीप छाबरा पुत्र रोशन लाल 1/2, दार 84 शेयर, टोटल 312 शेयर
			23	प्राइवेट	चाही	1-----8	मै. लोहगढ़ ज्वैलरस 1/3, बहादुर सिंह पुत्र प्रेम सिंह 1/3 प्रेम सिंह पुत्र लाल सिंह, निरपल कौर मंदर सतविंदर कौर वि. जसप्रीत कौर पुत्री जसप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह 1/3, 1/2, दलविंदर कौर पुत्री 1/12, राजेंद्र सिंह, जगतार सिंह पुत्र सोहन सिंह 1/9, धर्म सिंह, सेवा सिंह, गुरचरन सिंह, अजमेर सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र नराता सिंह 1/6, मै. मोतियाल कंस्ट्रक्शनस 8/48 (1/2)
			24	प्राइवेट	चाही	0-----14	मै. लोहगढ़ ज्वैलरस 1/3, बहादुर सिंह पुत्र प्रेम सिंह 1/3 प्रेम सिंह पुत्र लाल सिंह, निरपल कौर मंदर सतविंदर कौर वि. जसप्रीत कौर पुत्री जसप्रीत सिंह पुत्र भाग सिंह 1/3, 1/2, दलविंदर कौर पुत्री 1/12, राजेंद्र सिंह, जगतार सिंह पुत्र सोहन सिंह 1/9, धर्म सिंह, सेवा सिंह, गुरचरन सिंह, अजमेर सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र नराता सिंह 1/6, मै. मोतियाल कंस्ट्रक्शनस 8/48 (1/2)
			23//11	गमलात पट्टी	चाही	2-----0	गमलात पट्टी कमाओं
			19	गमलात पट्टी	चाही	0-----19	गमलात पट्टी कमाओं
			20/2	प्राइवेट	चाही	1-----11	(प्रीतम सिंह) 1/2, सुरिंदर कुमार पुत्र त्रिलोक नाथ 1/4, सुंदर देवी पत्नी ओम प्रकाश 1/4
			23//21/1-2	गमलात पट्टी	चाही	2-----9	गमलात पट्टी

				5	प्राइवेट	चाही	0-----3	बलवंत सिंह, हरबंस सिंह पुत्र बाबू सिंह, सुखपाल सिंह पुत्र नन्द सिंह, कर्म कौर, बंत सिंह, - - प्रीथि सिंह, अजीत कौर वि. जतिन्दर सिंह, बेअंत सिंह, सुखविंदर कौर, हरप्रीत कौर पत्नी रनजीत सिंह 1/2, करतार सिंह, पूरन सिंह पुत्र नानक सिंह 1/4, बलदेव सिंह पुत्र आशु सिंह 1/8, सुरजीत कौर, अमरीक सिंह, महिंद्र सिंह पुत्र नानक सिंह 1/2
				6	प्राइवेट	चाही	2-----2	
				24/3	प्राइवेट	चाही	2-----3	स्वरन कौर पत्नी हजरा सिंह 228 शेयर, रतन लाल पुत्र चरत राम 1/2, प्रदीप छाबरा पुत्र रोशन लाल 1/2, दार 84 शेयर, टोटल 312 शेयर
				7	प्राइवेट	चाही	2-----5	बलवंत सिंह, हरबंस सिंह पुत्र बाबू सिंह, सुखपाल सिंह पुत्र नन्द सिंह, कर्म कौर, बंत सिंह, - - प्रीथि सिंह, अजीत कौर वि. जतिन्दर सिंह, बेअंत सिंह, सुखविंदर कौर, हरप्रीत कौर पत्नी रनजीत सिंह 1/2, करतार सिंह, पूरन सिंह पुत्र नानक सिंह 1/4, बलदेव सिंह पुत्र आशु सिंह 1/8, सुरजीत कौर, अमरीक सिंह, महिंद्र सिंह पुत्र नानक सिंह 1/2
				8	प्राइवेट	चाही	0-----1	
				14/2	प्राइवेट	चाही	1-----1	बाबू सिंह पुत्र गैदा 1/3, साहिबा वि. गुरचरन सिंह, करनैल सिंह पुत्र बंसंत सिंह 2/3
				15/1	प्राइवेट	चाही	2-----15	बाबू सिंह पुत्र गैदा 1/3, साहिबा वि. गुरचरन सिंह, करनैल सिंह पुत्र बंसंत सिंह 2/3
				15/2	गमलात पट्टी	चाही	0-----4	गमलात पट्टी
				16	प्राइवेट	चाही	2-----16	गमलात पट्टी
				25	गमलात पट्टी	चाही	0-----2	गमलात पट्टी
				33/16	प्राइवेट	चाही	0-----16	राज किशन सिंह, मेहर सिंह, अमरीक सिंह पुत्र जीता सिंह
				34/20/2	प्राइवेट	चाही	1-----3	राज किशन सिंह, मेहर सिंह, अमरीक सिंह पुत्र जीता सिंह
				21/1	प्राइवेट	चाही	2-----7	राज किशन सिंह, मेहर सिंह, अमरीक सिंह पुत्र जीता सिंह
				21/2	प्राइवेट	चाही	0-----1	अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर 25/100, गुरदास पुत्र लाल चन्द 40/100, कश्मीरी लाल पुत्र लाल चन्द 35/100

				22/1	प्राइवेट	चाही	0-----1	अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर 25/100, गुरदास पुत्र लाल चन्द 40/100, कश्मीरी लाल पुत्र लाल चन्द 35/100
				44/1	प्राइवेट	चाही	2-----16	महिंद्र कौर वि. हरबंस कौर, सुरजीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह, अमरीक सिंह, गुरमीत सिंह बलबीर सिंह पुत्र हरि सिंह
				10/1	प्राइवेट	चाही	0-----14	महिंद्र कौर वि. हरबंस कौर, सुरजीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह, अमरीक सिंह, गुरमीत सिंह बलबीर सिंह पुत्र हरि सिंह
				10/2	प्राइवेट	चाही	0--0	अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर, रविंदर पुत्र धर्म पाल
				2/1	प्राइवेट	चाही	1-----4	कर्म वि. दयाल कौर पुत्री गुरचरन सिंह, अमर सिंह, स्वरन सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1/5, जोगिंदर कौर वि. अमरजीत कौरपुत्री सुखविंदर सिंह, महिंद्र सिंह, राज सिंह पुत्र गुरनाम सिंह 1/5 ईशार सिंह, अतर सिंह, बिशन सिंह पुत्र गोपाल सिंह 3/5
				2/2	प्राइवेट	चाही	1-----5	रविंदर कुमार पुत्र धर्म पाल
				8/1	प्राइवेट	चाही	1-----5	रविंदर कुमार पुत्र धर्म पाल
				9/1	प्राइवेट	चाही	0-----14	रविंदर कुमार पुत्र धर्म पाल
				9/2	प्राइवेट	चाही	0-----11	महिंद्र कौर वि. हरबंस कौर, सुरजीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह, अमरीक सिंह, गुरमीत सिंह बलबीर सिंह पुत्र हरि सिंह
				12/1	प्राइवेट	चाही	1-----5	अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर
				12/2	प्राइवेट	चाही	0-----1	गुरदास बसल पुत्र लाल चन्द
				13/2	प्राइवेट	बरानी	0-----8	प्रीतम कौर 1/7, अजमेर सिंह 6/7, पुत्र संतोष सिंह
				17/1	प्राइवेट	चाही	0-----5	राम चंद्र पुत्र सुंदर सिंह
				17/2	प्राइवेट	चाही	0-----5	राम चंद्र पुत्र सुंदर सिंह
				17/3	प्राइवेट	चाही	0-----1	राम चंद्र पुत्र सुंदर सिंह
				17/4	प्राइवेट	चाही	0-----14	हाकम सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरबंस कौर, कुलदीप कौर पुत्री जय सिंह 1/2, साधू सिंह, त्रिलोचन सिंह, कुलबीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/2
				17/6	प्राइवेट	चाही	0-----12	हाकम सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र हरबंस कौर, कुलदीप कौर पुत्री जय सिंह 1/2, साधू सिंह, त्रिलोचन सिंह, कुलबीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/2



				14/2	प्रायित	चाही	0-----4	भारती राणी पत्नी देव राज
				14/3	प्रायित	चाही	0-----3	भारती राणी पत्नी देव राज
				14/4	प्रायित	बरानी	0-----14	विशाल सिंह, भजन सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र प्रीत सिंह
				18/1	प्रायित	बरानी	0-----9	अजीत सिंह बरीन सिंह, दलीप सिंह, हरभजन सिंह पुत्र रान सिंह 7/12, करतार कौर दलीप कौर पत्नी 2/12, साधू सिंह पुत्र पुन्नु 1/4
				18/4	प्रायित	बरानी	0---11	अजीत सिंह, वरदान सिंह, दलीप सिंह, हरभजन सिंह पुत्र रान सिंह 7/12, करतार कौर, दलीप कौर पत्नी 2/12, साधू सिंह पुत्र पुन्नु 1/4
				18/5	प्रायित	चाही	1----1	कौशिला पुत्र शाम लाल, अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह
				18/6	प्रायित	चाही	0---1	कौशिला पुत्र शाम लाल, अनिल कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह
				23/1	प्रायित	चाही	0--0	निर्मल सिंह पुत्र सतनाम सिंह, सोन घनेल
				24	प्रायित	चाही	1-----1	निर्मल सिंह पुत्र सतनाम सिंह, सोन घनेल
				25/1	प्रायित	चाही	0-----15	बाबू सिंह पुत्र गेंदा 43/129, नरिंद सिंह पुत्र नरता सिंह 43/387, अजायब सिंह बरखा पुत्र जगत सिंह 43/387, नायब सिंह, अमर सिंह पुत्र नरिंद सिंह पुत्र 43/387, गुरो पत्नी बत सिंह 1/12, गुरचरण सिंह, करनैल सिंह पुत्र बत सिंह 1/4, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, हरनीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह 1/6 हेयर, परमिंदर कौर पुत्री करनैल 1/6
				25/2	प्रायित	चाही	0-----1	सुरजीत कौर वि. हरचरण सिंह, सुखदेव सिंह, बचितार सिंह, रनधीर सिंह, राजवंत सिंह, अमरजीत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह
				25/4	प्रायित	चाही	0-----4	शामलत पट्टी सैना 63 हल हरचरण सिंह नंबरदार 21 हल, हरपाल सिंह 21 हल, जसबीर सिंह नंबरदार 21 हल
				25/5	प्रायित	बरानी	0-----6	सुरजीत कौर वि. हरचरण सिंह, सुखदेव सिंह, बचितार सिंह, रनधीर सिंह, राजवंत सिंह, अमरजीत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह

				25/6	प्राइवेट	बरानी	0-----7	गुरधरम सिंह पुत्र नेहर सिंह, निरंजन सिंह पुत्र सरजा हरिहर पुत्र आशा सिंह, अनंजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह
				25/7	प्राइवेट	बरानी	0-----8	निरंजन सिंह पुत्र मुकुंद सिंह
				10/17	प्राइवेट	चाही	2-----0	जसपाल कौर पत्नी इकबाल सिंह, इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/2 शेयर, प्रेम कौर, बेद पत्नी बरखतोर सिंह, भाग सिंह, कर्म सिंह, पुत्र नसीब सिंह 1/6, राम सिंह, जोगिंदर सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3
				24/2	प्राइवेट	चाही	1-----0	जसपाल कौर पत्नी इकबाल सिंह, इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/2 शेयर, प्रेम कौर, बेद पत्नी बरखतोर सिंह, भाग सिंह, कर्म सिंह, पुत्र नसीब सिंह 1/6, राम सिंह, जोगिंदर सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3
				25	प्राइवेट	चाही	1-----0	जसपाल कौर पत्नी इकबाल सिंह, इकबाल सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/2 शेयर, प्रेम कौर, बेद पत्नी बरखतोर सिंह, भाग सिंह, कर्म सिंह, पुत्र नसीब सिंह 1/6, राम सिंह, जोगिंदर सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3
				18	प्राइवेट	गेर मुमकिन फौटरी	1-----0	सिलिकेन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (एस. सी.पी.एस.)
				23	प्राइवेट	गेर मुमकिन फौटरी	0-----11	सिलिकेन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (एस. सी.पी.एस.)
				24/1	प्राइवेट	गेर मुमकिन फौटरी	1-----8	सिलिकेन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (एस. सी.पी.एस.)
				14/2	प्राइवेट	चाही	1-----0	श्रीमति मेनकाप मित्तल पत्नी प्रदीप कुमार 25/100, श्रीमति रुचिता मित्तल पत्नी सुमित मित्तल 25/100, श्रीमति आधरा रानी पत्नी लाल चन्द 50/100
				56/5	प्राइवेट	बरानी	0-----11	जामीर सिंह, नारायण सिंह, बचन सिंह पुत्र कर्म सिंह 3/4, संत कौर वि. कुलविंदर कौर पुत्री केशर सिंह 1/4
				57/1/2	प्राइवेट	बरानी	1-----8	महिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह
				57/10/1	प्राइवेट	बरानी	0-----6	गुरु ग्रंथ साहिब, जी, बाबे साहिब गाँव, भानकपुर
				57/10/2	प्राइवेट	बरानी	0-----8	गुरु ग्रंथ साहिब, जी, बाबे साहिब गाँव, भानकपुर
				85/1/2	पंचायत	गेर मुमकिन घर	26---17	नगर पंचायत

			85/2/2	पंचायत	गैर मुनिकिज घर	14----0	नगर पंचायत
			88/2	पंचायत	गैर मुनिकिज गरेबाड	3----2	नगर पंचायत
			137/1	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----4	सुरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह
			137/2	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----5	प्रीतम सिंह पुत्र करतार सिंह
			137/2	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----9	प्रीतम सिंह पुत्र करतार सिंह 1/12, परमजीत कौर वि. रविचरजीत सिंह, अनमदीप सिंह पुत्र अजीत सिंह 1/6, गुरदेव सिंह पुत्र साधू सिंह 1/4, पूरन सिंह पुत्र भागल सिंह 1/4, सुरजीत कौर वि. अजमेर सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/4
			138	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----7	पूरन सिंह पुत्र गुरदेवाल सिंह 1/2, जगतार सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र बीरम सिंह 1/2
			139	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----5	बलका सिंह पुत्र लाल सिंह 1/2, हरकौर वि. जौरा सिंह, नंगल सिंह पुत्र बचन सिंह 1/3, गुरमेल सिंह, कोयल सिंह पुत्र निका सिंह 1/3
			208	गणनात	गैर मुनिकिज धरमलाल	1-----1	गणनात वेड 84 डल, हरचरण सिंह मंवरवार 21 डल, हरपाल सिंह 21 डल, जसवीर सिंह 21 डल, बरिंदर वाल सिंह 21 डल
			222	गणनात	ग्राम पंचायत	0-----2	मुस्तारका 84 डल, हरचरण सिंह मंवरवार 21 डल, हरपाल सिंह 21 डल, जसवीर सिंह 21 डल, बरिंदर वाल सिंह 21 डल
			227	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----10	राजेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र नंगल सिंह 8/12, गीता सिंह पुत्र भागल सिंह 7/12
			228	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----10	जागीर सिंह, गुलजार सिंह पुत्र लडा राम 1/8, पूरनी देवी, तुलसाम पुत्री बिद्याम सिंह 3/10, तेज कौर वि. करमेल सिंह, जसमेल सिंह, सरमेल सिंह पुत्र नार सिंह 1/2
			239	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----9	राजिन्द्र सिंह पुत्र छज्जू सिंह
			240	प्राविट	गैर मुनिकिज बाड़ा	0-----10	जागीर सिंह, नारायण सिंह, बचनम सिंह पुत्र कर्म सिंह 3/4, तुलबंत कौर वि. कुलविंदर कौर पुत्री कोसर सिंह

			243	तामलात	ग्राम पंचायत	0-----4	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			244	तामलात	गैर मुकिन बाड़ा	0-----10	सुरजीत कौर वि. डरधरम सिंह, सुलदेव सिंह, बधिसार सिंह, रमधीर सिंह, राजवंत सिंह, अनरजीत सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र गुरबधन सिंह
			120	तामलात	ग्राम पंचायत	0-----3	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			121	तामलात	ग्राम पंचायत	0-----3	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			364	तामलात	ग्राम पंचायत	0---3	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			365	तामलात	ग्राम पंचायत	0-----3	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			366	तामलात	ग्राम पंचायत	0----2	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
			434	तामलात	ग्राम पंचायत	0-----3	मुस्तारका 84 डल, डरधरम सिंह नंबरदार 21 डल, डरपाल सिंह 21 डल, जसबीर सिंह 21 डल, बरिबर पाल सिंह 21 डल
						एकड़ - कनाल - मरला	
					कुल	14-0-16	
						खीगे - खीसवे	
		17. बिशनगढ़ एच. खी. नं. 45	443	ग्राइवेट	गैर मुकिन फैक्ट्री	0-----3	शै. सित्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि.
			444	ग्राइवेट	चाही	0-----17	सिन्हा पोर डबैल्परस 31/15, पुष्पिंदर कौर वि. रमजीत सिंह 26/57
			445	ग्राइवेट	चाही	0-----11	केवल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

				455	प्राविट	खाडी	0-----15	गुजुल सिंह पुत्र जलैल सिंह, 329/1480, मेहां लाल पत्नी पी. डी. लाल 154/1480, नीला पुत्री ईश्वर 171/1480, भीमसि अलाल पत्नी टेक चम्प 162/1480, अजमेर सिंह पुत्र देव सिंह 35/1480, बुधाय चम्प पुत्र गौरज 275/1480, बलदेव गोयल पुत्र ओम प्रकाश 66/1480, भूषण कुमार पुत्र जगदीश 15/1480, सुबर्ण लोभिया पत्नी पी. डी. लोभिया 37/1480, कुल्लु कुमार पुत्र गोविंद राम 15/1480, सरवजीत सिंह पुत्र जी. पत्. संधू और नवजीत कौर पत्नी सरवजीत सिंह 37/1480, नरसिंह देव पुत्र हरि कुल्लु सिंह 62/1480, रविश्वर पाल कौर पत्नी तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह पुत्र सुंदर सिंह 66/1480, बिक्रम जीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह 70/1480
				456	प्राविट	खाडी	1-----0	मराला बच्छा आन पुत्र रामू 40/104, सतीश कपूर 28/104, सूधी बतरा पुत्री ललित मोहन 16/104, परमेश बतरा पत्नी ललित मोहन 20/104
				460	नगर पंचायत जिरकपुर	ग्राम पंचायत	0-----2	नगर पंचायत जिरकपुर
				544/465	प्राविट	खाडी	0-----4	आशीश ट्रेडिंग हाऊस
				585/483	प्राविट	खाडी	0-----7	कुलजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह 223/1340, परमजीत कौर पत्नी जगत्तर सिंह 949/1340, भोमिशाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह 168/1340
				548/467	प्राविट	गैर मुनफिन	0-----1	आशीश ट्रेडिंग हाऊस
				552/468	प्राविट	गैर मुनफिन प्लॉट	0-----17	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि. 17500/23640 शेयर अन्य 6640/23640
				469	प्राविट	गैर मुनफिन प्लॉट	0-----3	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि. 17500/23640 शेयर अन्य 6640/23640
				553/470	प्राविट	गैर मुनफिन प्लॉट	0-----16	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि. 17500/23640 शेयर अन्य 6640/23640
				471	प्राविट	गैर मुनफिन प्लॉट	0-----13	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि. 17500/23640 शेयर अन्य 6640/23640
				510- 511/478	प्राविट	गैर मुनफिन प्लॉट	0---0	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि. 17500/23640 शेयर अन्य 6640/23640
				513/482	नगर पंचायत जिरकपुर	ग्राम पंचायत	0---0	नगर पंचायत जिरकपुर
				512/482	प्राविट	गैर मुनफिन	0-----17	श्री. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन लि.

			481/1	प्राइवेट	गैर मुनिकिम	0-----12	आजीवा ट्रेडिंग हाऊस
			584/483	प्राइवेट	चाही	0-----4	शमशेर सिंह, सुरिंदरपाल सिंह, परमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह
			570/517/48 7	प्राइवेट	चाही	0-----8	राज कुमार गोयल पुत्र इन्द्र लैन कारता एच. यू. एफ.
			571/517/48 7	प्राइवेट	चाही	0-----2	शमशेर सिंह, सुरिंदरपाल सिंह, परमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह
			519/488	नगर पंचायत जिरकपुर	ग्राम पंचायत	0-----2	नगर पंचायत जिरकपुर
			572/520/48 8	प्राइवेट	चाही	0-----8	राज कुमार गोयल पुत्र इन्द्र लैन कारता एच. यू. एफ.
			573/520/48 8	प्राइवेट	चाही	0-----4	शमशेर सिंह, सुरिंदरपाल सिंह, परमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह
			489/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिम	0-----1	इन्दरमैशमल इस्टिभ्युट ऑफ टेलिकाम टेक्नोलोजी सोलाहटी
			556/489	प्राइवेट	गैर मुनिकिम	0-----3	इन्दरमैशमल इस्टिभ्युट ऑफ टेलिकाम टेक्नोलोजी सोलाहटी
			489/2	प्राइवेट	गैर मुनिकिम कैकड़ी	0-----15	इन्दरमैशमल इस्टिभ्युट ऑफ टेलिकाम टेक्नोलोजी सोलाहटी
			490	पंचायत	गैर मुनिकिम	0-----1	नगर पंचायत जिरकपुर
						एकड़ - बीघे	
						- बीसवे	
					कुल	2--1--6	
		18. बिशालपुरा एच.बी. नं. 44	57	प्राइवेट	चाही	0-----1/2	गुरदेव कौर पत्नी कुलजीत सिंह, परमजीत कौर पत्नी जगताल सिंह
			100	प्राइवेट	चाही	0-----0	गुरजीत कौर पत्नी महिब कौर 1190/2460, नमीता कुमार पुत्र विजय कुमार 800/1/2/ 2460, विक्रम सिंगला पुत्र आर. एल. सिंगला 420/700, श्रीमति सरोज सिंगला पत्नी चरन दास 175/700, पवन चौधरी पुत्र स्व० राम किशन 105/700, 284/2460, रमन कुमार पुत्र सीता राम 266/2460, जय किशन पुत्र अमरजीत 70/2460, लोबिन कौर पत्नी मनबीर सिंह 142/2460

				101	प्राविट	गैर मुनकिन पेट्रोल पंप	0----5	गुरजीत कौर पुत्री नरिंदर कौर 1190/2460, मनीष, विहंगम सिंगला पुत्र आर. एन. सिंगला 420/700, श्रीनति कुरोज सिंगला पत्नी चरण दास 175/700, पवन चौधरी पुत्र स्व राम किसान 105/700, 284/2460 रमन कुमार पुत्र श्री सीता राम 266/2460, जय किसान पुत्र अनरजीत 70/2460, सविन कौर पुत्र पत्नी मनवीर सिंह 142/2460
				601/103	प्राविट	गैर मुनकिन मकान	0----1	अवतार सिंह पुत्र श्री कुपा, हरमजान कौर पत्नी श्री गुरबिंदर
				596/103	प्राविट	गैर मुनकिन मकान	0-----0	सिंह 16/300, अनिल कुमार पुत्र जीवन लाल, प्रीति पत्नी अनिल कुमार 70/300, अरुण पुत्र प्रकाश चन्द 147/300, श्रीनति रम कौर पत्नी उजागर 67/300
				595/103	प्राविट	गैर मुनकिन	0----0	आकाश दीप पुत्र नरिंदर कुमार 1/2, संजीव कुमार पुत्र संत कुमार 1/4, रमेश कुमार पुत्र नरिंदर कुमार 1/4, 46/300, लक्ष्मी सिंगला पत्नी अजुबिया प्रकाश 83/300,
				599/103	प्राविट	गैर मुनकिन	0----1/2	गुरबिंदर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 85/300, हरजीत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जसदीप सिंह पुत्र हरजीत सिंह पुत्र अर्जुन 86/300,
				602/103	प्राविट	बरानी	0-----2/1/2	ईशार सिंह पुत्र अनर नाथ सिंह 78/600, जसबिंदर सिंह पुत्र अनर सिंह 1/6, जगजीत सिंह पुत्र अनर 1/6, ए. के. अरोरा पुत्र बी. डी. अरोरा 79/600, हरिंदर पास पुत्र जगजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह 170/600, विवेक गुप्ता पुत्र सूरज प्रकाश 73/600
				597/103	प्राविट	चाही	0-----0	मोनिका पत्नी आर. टी. जिनंदल
				598/103	प्राविट	गैर मुनकिन	0-----1/2	101/300, सुरेश सिंगला पुत्र कश्मीरी लाल, रेणु सिंगला पत्नी सुरेश सिंगला 105/300, हरिश सिंगला पुत्र सुदर्शन सिंह 94/300

			110/1	प्राइवेट	बरानी	0---2/1/2	कर्म चन्द पुत्र नुस्ती 275/1/3/3020, जोग प्रकाश पुत्र हरदेव 435/1/3/3020, राजेश कुमार पुत्र बिजु लाल 435/1/3/3020, श्याम लाल पुत्र रघुनाथ, कौलाश देवी पत्नी रघुनाथ 160/3020, कन्करमिंग पार्टिस एण्ड एस्. एस्. ग्रीन वैल्ली हवेलर्स 1714/3020
			110/2	प्राइवेट	ग्राम पंचायत	0-----0	संतोष सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह खान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 1/4, नरिंद सिंह पुत्र बचन सिंह 1/4, नरिंद सिंह पुत्र नत्था सिंह
			683/110/3	प्राइवेट	बाग बरानी	0-----0	कन्करमिंग प्रापर्टीस एल. टी. मुक्त पार्ट और एस.एस.एस. ग्रीन वैल्ली बोर्ड डेवेलपर्स
			684/110/3	प्राइवेट	बाग बरानी	0-----2	सुरिंद राय पत्नी रनजीत सिंह 100/1040, संजय वर्मा पुत्र प्रेम नारायण 69/1040, अंजलि पत्नी निरंजन दास 70/1040, सविता कौर पत्नी जतिंदर, जीत सिंह, गुर जयपाल सिंह पुत्र जतिंदर सिंह 139/1040, विष्वा दास पुत्र चिरन्जी लाल 1/2, नरेंद्र कुमार, परमिंदर कुमार, बलविंदर कुमार, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ 1/2 दार 293/1040, विश्वनाथपुत्र चिरन्जी लाल, नरेंद्र कुमार पुत्र विश्वनाथ 294/1040, अमनदीप कौर पत्नी अमरजीत सिंह 75/1040
			485/111	प्राइवेट	बरानी	0----2	बी. डी. कपूर पुत्र आर. डी. कपूर, श्रीमति इन्द्रा कपूर पत्नी बी. डी. कपूर पुत्र आर. डी. कपूर 24/39, विश्व नाथ पुत्र चिरन्जी 1/2, नरेंद्र कुमार, परमिंदर कुमार, यादविंदर कुमार, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ 1/2 दार 15/39
			486/111	प्राइवेट	बरानी	0---0	दर्शन कौर पत्नी गुरदीप सिंह पुत्र गुरदित सिंह



				124	प्राइवेट	गैर मुनिकिन	0-----3/1/2	कर्म चन्द पुत्र मुन्ही 275/1/3/3020, ओम प्रकाश पुत्र हरदेव 435/1/3/3020, राजेश कुमार पुत्र ब्रिज लाल 435/1/3/3020, ज्ञान लाल पुत्र रघुनाथ, कैलाश देवी पत्नी रघुनाथ 160/3020, कन्फरमिंग पार्टिस एण्ड ए. एस. ग्रीन वैल्ली डवेलपर्स 1714/3020
				140	सरकारी	गैर मुनिकिन रोड़	0----1/2	पंजाब सरकार
				693/159	प्राइवेट	बरानी	0-----2	श्रीमति जपिंदर सिद्धू पत्नी हरबीर सिंह पुत्र अवतार सिंह, हरबीर सिंह पुत्र अवतार
				694/159	प्राइवेट	बरानी	0-----2	हरप्रीत कौर पत्नी एस. पी. सिंह
				160	प्राइवेट	चाही	0----12	श्रीमति हरप्रीत कौर पत्नी एस.पी. सिंह 37/77, मै. सिल्वर सिटी कन्स्ट्रक्शन लि. 40/77
				161	प्राइवेट	चाही	0----5	गुरदेव कौर पत्नी कुलजीत सिंह 24/50, रमधीर सिंह, किरपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह, जसविंदर सिंह पुत्र भगत 2/50, मै. पैन्टा हाउसिंग प्रा. लि. 16/50, मै. सिल्वर सिटी कन्स्ट्रक्शन लि.
				163	प्राइवेट	गैर मुनिकिन मकान	0----4/1/2	मोहन पुत्र जिंदर सिंह, श्रीमति हरभजन कौर पत्नी मोहन 1/2, प्रताप सिंह पुत्र जिंदर सिंह 1/2
				165/1-2-3	प्राइवेट	बरानी	0-----3	नरेंद्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ
				165/4	प्राइवेट	बरानी	0-----6	मै. एन. के. शर्मा एन्टरप्राइजेस प्रा. लि. 238/1160, विश्वनाथ पुत्र चिरजी लाल 97/1160, नरेंद्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार 706/1160, परमिंदर कुमार, यसविंदर कुमार पुत्र विश्वनाथ 119/1160

				166/4	प्राइवेट	बरानी	0----1	उज्जल सिंह पुत्र रनजीत सिंह 4/12, अमरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह 2/96, सरनजीत कौर पत्नी एस. पी. सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र एस. पी. सिंह, 53/107, विश्वनाथ, पुत्र चिरंजी लाल नरेंद्र कुमार परमिंदर कुमार पुत्र विश्वनाथ पुत्र चिरंजी लाल 104/2140, मै. एन. के. शर्मा एन्टरप्राइजेस प्रा. लि. 38/2140, एन. के. शर्मा प्रा. लि. 466/2140, राम रत्न पुत्र राम अवतार 240/2140, जतिंदर पाल पुत्र उजाला सिंह 31/2140
				499/174	प्राइवेट	गैर मुमकिन होटल	0----1	कंवल इन्द्र पाल सिंह 12/189 सुरिंदरपाल सिंह 57/189 पुत्र करतार सिंह सुरिंदरपाल सिंह 120/189, मै. पता कुनिदा मै. एम. एस. ब्रीस्टल पता गुरिदा
				500/174	प्राइवेट	चाही	0-----1/1/2	गुरप्रीत सिंह पुत्र सुरिंदरपाल सिंह श्रीमति सरनजीत कौर पत्नी सुरिंदरपाल सिंह
				201	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0-----3	टोटल 566, मै. सिल्वर सिटी कॉन्स्ट्रक्शन, लि. जिरकपुर 33062, अन्य 22538
				625/202/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----3	परमजीत कौर पत्नी जगतार सिंह
				626/202/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----5	परमजीत कौर पत्नी जगतार सिंह 168/500, बलविंदर कौर और अन्य 322/500 शेयर
							एकड़-बीघे-ब 1सवे	
						कुल	0--3--9	
			19. सिंधपुरा एच. बी. नं. 43	40	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----4/1/2	गुल गिल, गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह
				1190/41	प्राइवेट	गैर मुमकिन मकान	0---12/1/2	गुल गिल, गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह
				1192/42	प्राइवेट	गैर मुमकिन मकान	0----8	गुल गिल, गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह
				1193/42	प्राइवेट	गैर मुमकिन मकान	0----5	गुल गिल, गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह
				43	प्राइवेट	बरानी	0---13	जगन्नाथ, सोहन लाल, पवन कुमार पुत्र दशोन्धी राम 55/80 शेयर, पूनम पत्नी प्रवीन कुमार 4/5 शेयर, हरविंदर पाल, ब्रिंदर पाल पुत्र जगन्नाथ 1/5 शेयर (दार 25/80 शेयर)

			192	प्राइवेट	चाही	1---1	नगर पंचायत
			1004/814/1 93	प्राइवेट	चाही	0---3	ई. पी. एल. स्वच घरे
			1205/1005/ 194	प्राइवेट	बरानी	0---2	हरि कृष्ण पुत्र लक्ष्मी 1/4, राम कृष्ण, विद्या रत्न लाल पुत्र मोहन लाल 1/4, राज रानी वि. महेश चन्द पुत्र अमृत लाल 1/20 शेयर, मोहन लाल, मनोहर लाल, मदन लाल, जय गोपाल पुत्र मातू राम 1/5 शेयर, श्याम काली, दया पन्ती, हरदवती लाल, कृष्ण देवी, राज कुमार, मदन लाल, रविंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/4 शेयर
			1210/1005/ 194	प्राइवेट	चाही	0---11	हरबंस सिंह पुत्र रौनक सिंह
			1077/1006/ 194	प्राइवेट	चाही	0---5	अजीत कौर पत्नी गुरजसवंत सिंह 29/79, प्रीतमा पत्नी कस्तूरी लाल 29/79, मीरा पत्नी जगजीत सिंह 21/79
			1078/1006/ 194	प्राइवेट	चाही	0---1	सतीश कुमार पुत्र विद्या प्रकाश श्रीमति राजेंद्र सेनी पत्नी सतीश कुमार
			145	पंचायत	गैर मुमकिन रोड़	0---4	नगर पंचायत
			816/198	प्राइवेट	चाही	0---15	मामजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, अमरीक सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/2, बलबीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/4, बग्गा सिंह पुत्र राम सिंह 1/4
			1007/818/1 99	प्राइवेट	चाही	0---9	मामजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, अमरीक सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/2, बलबीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/4, बग्गा सिंह पुत्र राम सिंह 1/4
			1008/818/1 99	प्राइवेट	चाही	0---6	हरबंस कौर पत्नी केसर सिंह हरजिंदर सिंह पुत्र केसर सिंह
			200	प्राइवेट	चाही	0---4	गुरु ग्रंथ साहिब जी,
			201	प्राइवेट	चाही	0---11	गुरु ग्रंथ साहिब जी,
			202	पंचायत	गैर मुमकिन रोड़	0---5	नगर पंचायत
			203/1	प्राइवेट	बरानी	0---13	लखविंदर सिंह, सुखचैन सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र मक्खन सिंह, राजेंद्र कौर वि. भूपेंद्र सिंह 1/2 शेयर, मनवीप सिंह पुत्र पुत्र निरवैर सिंह, सुमित लहरा पत्नी सुरेंद्र सिंह 1/2
			1009/204	प्राइवेट	बरानी	0---4	सुरजीत सिंह पुत्र सौदागर सिंह

				1010/204	प्राइवेट	बरानी	0---4	सतीश कुमार विद्या प्रकाश श्रीमति राजेंद्र सैनी पत्नी सतीश कुमार
				1011/204	प्राइवेट	बरानी	0---4	सुरेश कुमार पुत्र मदन लाल, संजीव पुत्र मदन लाल 19/29, जीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, हकम सिंह पुत्र शाम सिंह, प्रेम स्वरूप पुत्र आशा राम 10/29 शेयर
				1012/204	प्राइवेट	बरानी	0---4	राम नारायण पुत्र चरन दास
				1014/205	प्राइवेट	चाही	0---4	शोभा पत्नी रमेश संतोष पत्नी राजिया
				1015/205	प्राइवेट	बरानी	0---4	हरजीत कौर पत्नी चरनजीत सिंह, लक्ष्मी पत्नी इन्द्र सिंह
				913/242	प्राइवेट	चाही	0--13	संतोष कुमार पुत्री मोहन लाल
				933/825/24 5	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----16	श्याम सुंदर पुत्र साधू राम 7/20, मनजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह 13/20 शेयर
				824/245	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----1	गुल गिल गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह
				930/244	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0---4	दलजीत सिंह पुत्र दर्लभ सिंह 1/2, दलीप कुमार पुत्र जगमोहन लाल 1/2
				929/244	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0---3	दलजीत सिंह पुत्र दर्लभ सिंह 1/2, दलीप कुमार पुत्र जगमोहन लाल 1/2
				927/244	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1/1/2	संजीव कुमार पुत्र राम लाल
				931/244	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0---4	संजीव कुमार पुत्र राम लाल, सुरेश कुमार पुत्र मदन लाल 19/29, जीत सिंह पुत्र साधू सिंह, हकम सिंह पुत्र सरधा सिंह, प्रेम स्वरूप पुत्र आशा राम 10/29 शेयर
				244/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	संजीव कुमार पुत्र मुनि लाल
				915/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	श्याम सुंदर पुत्र साधू राम 1/2, परमजीत कौर पत्नी करतार सिंह 138/200, कर्म चन्द पुत्र बूटी राम 4/200, शेरो देवी पत्नी बूटी राम 4/200, ओम प्रकाश पुत्र संत राम 4/200 किरपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह 5/200 (दार 1/2 शेयर)
				917/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	कस्तूरी लाल पुत्र महल्ला राम
				919/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	गोदार लाल पुत्र महल्ला राम
				922/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	गोदार लाल पुत्र महल्ला राम
				924/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	गोदार लाल पुत्र महल्ला राम

				920/243	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	श्याम सुंदर पुत्र साधू राम 1/2, परमजीत कौर पत्नी करतार सिंह 138/200, कर्म चन्द पुत्र बूटी राम 4/200, मेरो देवी पत्नी बूटी राम 4/200, ओम प्रकाश पुत्र संत राम 4/200 किरपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह 5/200 (दार 1/2 शेयर)
				826/246	प्राइवेट	बरानी	0---3	भूपेन्द्र सिंह, भागवत सिंह पुत्र करतार सिंह
				828/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	सोम दत्त पुत्र बूटी राम 1/2, सुशील कुमार, ललित कुमार, ब्रज दत्त पुत्र बूटी राम
				830/246	प्राइवेट	बंजर कदीम	0-----2	भूपेन्द्र सिंह, भागवत सिंह पुत्र करतार सिंह
				831/246	प्राइवेट	बंजर कदीम	0-----0	साधू सिंह पुत्र स्वल्प सिंह
				832/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	सोम दत्त पुत्र बूटी राम 1/2, सुशील कुमार, ललित कुमार, ब्रज दत्त पुत्र बूटी राम
				833/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----1	साधू सिंह पुत्र स्वल्प सिंह
				834/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	भूपेन्द्र सिंह, भागवत सिंह पुत्र करतार सिंह
				835/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----1	साधू सिंह पुत्र स्वल्प सिंह
				836/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	जीत सिंह, गुरदयाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 3/4, पूरन कौर, दयाल कौर वि. सेवा सिंह 1/4 शेयर
				837/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----1	साधू सिंह पुत्र स्वल्प सिंह
				838/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----1/1/2	सोम दत्त पुत्र बूटी राम 1/2, सुशील कुमार, ललित कुमार, ब्रज दत्त पुत्र बूटी राम
				839/246	प्राइवेट	गैर मुमकिन नकाल	0-----1/1/2	सोम दत्त पुत्र बूटी राम 1/2, सुशील कुमार, ललित कुमार, ब्रज दत्त पुत्र बूटी राम
				247	प्राइवेट	बरानी	0-----15	नगर पंचायत
				257	प्राइवेट	बरानी	0-----14	नगर पंचायत
				583/1	प्राइवेट	चाही	0-----6	कर्मल गहेंद्र पाल सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह
				585/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन फैक्ट्री	0-----15	एच.एस. अरोरा रजिस्टर इनजिनियर लि.
				854/586	प्राइवेट	चाही	0-----14	भूपिंदर कौर पत्नी जागीत सिंह
				856/587	प्राइवेट	चाही	0-----15	भूपिंदर कौर पत्नी जागीत सिंह
				858/589	प्राइवेट	चाही	0-----15	भूपिंदर कौर पत्नी जागीत सिंह
				590	पंचायत	गैर मुमकिन रोड़	0-----1	नगर पंचायत
				1031/591	प्राइवेट	चाही	0-----15	निर्मला बाबा पत्नी सुखदेव कुमार
				600/2	प्राइवेट	चाही	0-----14	अजीत सिंह पुत्र सुंदर
				601/2	प्राइवेट	चाही	0-----15	अजीत सिंह पुत्र सुंदर
				602	प्राइवेट	चाही	0-----15	श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी



		20. जिरकपुर एच.बी. नं. 235	22/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----5	इन्द्र मोहन, सुरेंद्र मोहन पुत्र सतनाम सिंह आदि
			22/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----1	किरणपाल सिंह पुत्र अमरीक सिंह 1/2, नरेंद्र सिंह पुत्र अमरीक सिंह 1/2, शेयर
			22/3/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----2	संजीव कुमार, संदीप कुमार, रमेश जैन पुत्र बाल कृष्ण आदि
			22/3/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----3	लाभ सिंह पुत्र सेवा सिंह
			7/23/2001	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----2	संजीव कुमार, संदीप कुमार, रमेश जैन पुत्र बाल कृष्ण आदि
			23/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----3	नरेंद्र सिंह पुत्र अनूप सिंह आदि
			7/7/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----17	कवल जीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह
			8/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----4	कवल जीत सिंह, जसपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह
			14/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----4	मै. शिवा एस.एस. स्ट्रीप्स प्रा. लि.
			2/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन रोड़	0----2	श्रीमति ईशार देवी पत्नी जगदीश चन्द्र, रघुबीर, बलदेव सिंह, इन्द्र पाल सिंह पुत्र स्वरुपा पुत्र कुरदिया आदि
			8/2/2/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----2	नरेंद्र सिंह पुत्र अमरीक सिंह 2 शेयर किरणपाल सिंह पुत्र अमरीक सिंह 16 शेयर, शांति लाल पुत्र मोहारिया राम, सुरिद्रा कुमारी पत्नी शांति लाल 2 शेयर, जीवा सिंह, बलबीर सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र जिस्सी सिंह 2 शेयर
			9/2/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----5	बलवंत सिंह 7/21 सुरेंद्र पाल सिंह 14/21 पुत्र दीप चन्द पुत्र मनसा राम
			9/2/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	गुरभिंदर सिंह पुत्र जसवंत 15/81 शेयर हरभिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह भाग कौर वि. जसवंत सिंह 12/81, सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र दीप चन्द 1/1/2/81, श्रवण कौर वि. हरिंदर सिंह 1/2 शेयर
			8/3/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----9	बचना राम पुत्र नराता राम और अन्य
			8/3/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----6	पनरगजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह
			9/2/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----3	ललित अरोरा पत्नी मोहन लाल 3 शेयर, रेखा रानी पत्नी विनोद कुमार 4 शेयर, विनोद कुमार पुत्र जगत राम 1 शेयर
			9/2/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	श्रीमति मूर्ति देवी पत्नी राम प्रताप
			9/2/1/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	कैलाश रानी पत्नी जोगिन्दर लाल

			9/2/1/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	पुष्पा रानी पत्नी इन्द्र जीत राज
			12/1/2/1/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	हरकिरत सिंह पुत्र दया सिंह 1/2 शेयर, रमेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल 1/2 शेयर
			12/1/2/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----3	श्रीमति मूर्ति देवी पत्नी राम प्रताप
			12/1/1/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	श्रीमति मूर्ति देवी पत्नी राम प्रताप, 3-8 शेयर, हरबंस लाल सुंदर सिंह 5/8 शेयर
			12/1/2/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	हरिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह 3/8 शेयर भाग कौर पत्नी जसवंत सिंह 1/8 शेयर सुखदीप पुत्र संतोष 1/8 शेयर अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्र दीवान चन्द 3/8 शेयर
			12/1/2/1/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	इन्द्रजीत कौर पत्नी पृथी पाल सिंह आदि
						एकड़ - कनाल - सरला	
					कुल	0--4--16	
						बीगे - बीसवे	
		21. खलटाना एच. बी. नं. 47	1061//420	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----8	गुरदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह 1/2, बलजीत कौर वि. निर्मल सिंह 1/4, कुलविंदर पुत्र गुरदेव सिंह 1/4 शेयर
			1065//421	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----2	सरकारी, केंद्रीय सरकार
			1066//422	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----6	केंद्रीय सरकार
			423	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----2	केंद्रीय सरकार
			1067//424	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----5	गुरदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह 1/2, बलजीत कौर वि. निर्मल सिंह 1/4, कुलविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 1/4 शेयर
			1068//424	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----9	केंद्रीय सरकार
			1069//425	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----4	केंद्रीय सरकार
			1070//425	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----10	गुरदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह 1/2, बलजीत कौर वि. निर्मल सिंह 1/4, कुलविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 1/4 शेयर
			1072//427	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----3	गुरदीप सिंह पुत्र निक्का सिंह और अन्य
			1131//505	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----1	केंद्रीय सरकार
			1132//505	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----1	केंद्रीय सरकार
			1155//508	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----2	केंद्रीय सरकार
			1156//508	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----4	केंद्रीय सरकार
			1157//508	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----4	केंद्रीय सरकार
			1158//508	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----4	केंद्रीय सरकार
			1159//508	सरकारी	गैर मुमकिन	0-----6	केंद्रीय सरकार



			1160-1168/509	सरकारी	गैर मुमकिन	1----15	केंद्रीय सरकार
			1180/512	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----3	साधू सिंह पुत्र कुमाण सिंह
			1181/512	सरकारी	गैर मुमकिन	0----6	केंद्रीय सरकार
			514	प्राइवेट	गैर मुमकिन	2----4	बलबीर सिंह पुत्र नत्था सिंह
			521	प्राइवेट	गैर मुमकिन	2----4	सित्तु सोही वि. रविंदर सिंह
			1210/520	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	सित्तु सोही वि. रविंदर सिंह
			1833/523	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	राम कुमार पुत्र राम हर्ष
			1834/523	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	मानो देवी माता, इन्दु वि. सोनिया, नोनिका पुत्री सुरिंदर कुमार पुत्र दीप्ते राम
			1835/523	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	बहादुर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
			2027/1836/523	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----2	बहादुर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 2/6, कमलेश रानी पत्नी लक्ष्मण दास 3/6 शेयर, मनविंदर सिंह पुत्र जर्नेल सिंह 1/6 शेयर
			2028/1836/523	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----13	बलबीर सिंह पुत्र नत्था सिंह
			1837/1211/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	बुट्टा सिंह पुत्र हरनेल सिंह
			1838/1211/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	जागीर सिंह पुत्र राम सिंह 1/2 शेयर, प्रेम-चन्द पुत्र बनषारी लाल 1/2
			1839/1211/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	अमर सिंह पुत्र बचन दास
			1840/1211/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	सुरजन सिंह पुत्र भावी सिंह
			1841/1211/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----12	बलबीर सिंह पुत्र नात्था सिंह 1076 शेयर, जोगिन्दर सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह 24 शेयर
			1212/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	भगवंत सिंह पुत्र नात्था सिंह
			1213/524	प्राइवेट	गैर मुमकिन	---	भगवंत सिंह पुत्र नात्था सिंह
			1416/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----0	कृष्णा देवी पत्नी बाबू राम
			1417/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	बेद प्रकाश पुत्र लाल चन्द
			1844/1186/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----0	सतीश कुमार, संजीव सोनी, हरीश सोनी पुत्र भीमा सोनी
			1845/1186/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----1	छोटे लाल, प्यारे लाल पुत्र हजारी लाल
			1846/1186/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----1	कृष्णा कुमारी पत्नी रमेश कुमार
			1847/1186/531	प्राइवेट	गैर मुमकिन प्लॉट	0----11	बलबीर सिंह पुत्र नात्था सिंह 534 शेयर, जर्नेल सिंह पुत्र लाभू राम, मंगत राम, लाभू राम, गुल्शन सिंह पुत्र आशा राम और अन्य
			1848/1188/532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	जीतल सिंह पुत्र गोकुल सिंह
			1849/1188/532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	सुषमा देवी पत्नी रमेश कुमार, प्रीतपाल पुत्र किशोरी

			1850//1188- /532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	शकुन्तला देवी पत्नी प्रीतपाल
			1851//1188 /532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	जसदेव सिंह पुत्र लाल सिंह
			1852//1188 /532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	सुर्यविंदर सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह
			1853//1188 /532	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----8	त्रिलोचन सिंह पुत्र कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार पुत्र फकीर चन्द पुत्र धवन राय, विपिन कुमार, कृष्ण कुमार पुत्र पवन कुमार, जसपाल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह 2/3, निर्मल सिंह पुत्र बन्ता सिंह 1/3
			1190/533	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----3	प्रेम चन्द, पवन कुमार, राज कुमार, सतीश कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अशोक कुमार पुत्र सन्त राम
			1192/534	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----12	प्रेम चन्द, पवन कुमार, राज कुमार, सतीश कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अशोक कुमार पुत्र सन्त राम
			1473/968	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----13	बलबीर सिंह पुत्र जगजीत सिंह
			1474/968	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----4	कुलदीप सिंह पुत्र जमीर सिंह
			2010/969	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----2	सुरमेल सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र उदय सिंह 2/3 शेयर, सोम पाल पुत्र रनजीत सिंह 1/3 शेयर
			2011/969	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	अवतार सिंह, जगतार सिंह, सरवन सिंह पुत्र बचन सिंह
			2012- 13/969	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	रनजीत सिंह पुत्र बचितर सिंह 540/1840 शेयर और अन्य
			2014/969	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----12	कुलदीप सिंह पुत्र जागीर सिंह
			1475/972	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----13	भागवत सिंह पुत्र नात्था सिंह
			1476/972	गामलात पट्टी	गैर मुमकिन	0----7	गामलात पट्टी जतन 15/1/2 शेयर, पट्टी निराला 15/1/2 शेयर, पट्टी सोनिया 18 शेयर
			1477/973	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0-----2	रनजीत सिंह पुत्र बचितर सिंह 540/1840 शेयर और अन्य
			1478/973	गामलात	गैर मुमकिन	0----8//1/2	गामलात पट्टी जतन 15/1/2 शेयर, पट्टी निराला 15/1/2 शेयर, पट्टी सोनिया 18 शेयर
			1479/973	गामलात	गैर मुमकिन	0----1/2	गामलात पट्टी जतन 15/1/2 शेयर, पट्टी निराला 15/1/2 शेयर, पट्टी सोनिया 18 शेयर
						एकड़ - बीगे - बीसवे	

						कुल	4-0-4	
							कनाल - मरला	
		22. लोहगढ़ एच. जी. संख्या 46	4/8/2/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-0	सुरिन्दर सिंह अनरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 3/8, देव सिंह पुत्र राम सिंह 3/8, परमजीत सिंह पुत्र चुड़ सिंह 2/3, चुड़ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3, दर 1/4, जेयर
			8/2/2/7	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-4	सुरिन्दर सिंह अनरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 3/8, देव सिंह पुत्र राम सिंह 3/8, परमजीत सिंह पुत्र चुड़ सिंह 2/3, चुड़ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3, दर 1/4, जेयर
			4/8/2/2/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-2	देव सिंह पुत्र राम सिंह
			8/2/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-1	जसविन्द सिंह, सुखदेव सिंह, सलविन्द सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह
			8/2/2/3	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-1	सुरिन्दर सिंह पुत्र कोहर सिंह 121/1/2 जेयर और अन्य, कोहर सिंह पुत्र राम सिंह 100/1/2, राजिन्दर प्रसाद श्याम लाल 485 नन्द राम 21 जेयर
			13/1/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-0	सुरिन्दर सिंह पुत्र कोहर सिंह 121/1/2 जेयर और अन्य, कोहर सिंह पुत्र राम सिंह 100/1/2, राजिन्दर प्रसाद श्याम लाल 485 नन्द राम 21 जेयर
			13/1/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-1	सुरिन्दर सिंह पुत्र कोहर सिंह 121/1/2 जेयर और अन्य, कोहर सिंह पुत्र राम सिंह 100/1/2, राजिन्दर प्रसाद श्याम लाल 485 नन्द राम 21 जेयर
			13/1/3	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-2	परमजीत सिंह पुत्र चुड़ सिंह 2/3 जेयर चुड़ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3,
			13/1/4	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-1	सुरिन्दर सिंह अनरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 3/8, चन सिंह पुत्र राम सिंह 3/8, परमजीत सिंह पुत्र चुड़ सिंह 2/3, चुड़ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3, दर 1/4, जेयर
			13/1/5	प्राप्ति	गैर मुनकिन		0-2	सुरिन्दर सिंह अनरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 241 जेयर हरमिन्द सिंह पुत्र परमजीत सिंह 11 जेयर (कुल 252 जेयर)

				4/13/1/6	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	सुरिन्द्र सिंह अमरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 241 शेयर हरमिन्द सिंह पुत्र परमजीत सिंह 11 शेयर (कुल 252 शेयर)
				18	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	सुरिन्द्र सिंह अमरिक सिंह पुत्र कोहर सिंह 3/8, चन सिंह पुत्र राम सिंह 3/8, परमजीत सिंह पुत्र चुहड़ सिंह 2/3, चुहड़ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3, दर 1/4, शेयर
				19/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	हरिकृष्ण पुत्र कश्मीरी लाल
				19/1/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	खरिति लाल पुत्र कर्म चन्द 1/2, सुमित्रा देवी पत्नी कृष्ण लाल 1/2
				19/1/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	गुरदीप सिंह पुत्र तुलसा सिंह 1/3, दीपक कुमार पुत्र प्रहलाद प्रेमी 2/3
				19/1/6	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	रुपिन्द्र पुत्र तुलसा सिंह 15 शेयर और 444 शेयर अन्य
				27/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	बलजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह
				27/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	जमीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह
				27/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---0	सुरजीत कौर पत्नी कार्जो सिंह
				27/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	रमेश कुमार पुत्र मंसी राम
				27/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0	हाकम सिंह पुत्र आत्मा सिंह
				27/6/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	तहसील सचिव सी. पी. एम.
				9/2/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	बलवन्त पुत्र माया सिंह
				2/1/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	रंजीत सिंह, तेजा सिंह, कर्मा सिंह, धर्म सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह 1/2 शेयर, चरण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/2 शेयर
				2/1/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	अमरजीत कौर पत्नी तेजिन्द्र सिंह 1/3, शेयर जदीश सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 1/3, देव समाज स्कूल चण्डीगढ़ 1/3 शेयर
				2/2/1-2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---7	हरविन्द सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरबेल कौर पत्नी गुरबचन सिंह 76/78, श्री उमेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र 1/78, अमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह नीरज कुमार पुत्र वेद प्रकाश 1/78 शेयर
				2/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	इन्द्रजीत पुत्र दर्शन सिंह 63 शेयर और अन्य 693 शेयर (कुल 756 शेयर)
				3/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0--5	राम चंद पुत्र बजीरा राम
				3/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	राम चंद पुत्र बजीरा राम
				3/3/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	अमरजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
				3/3/1/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	गुरचरण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
				9/ 3/3/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	कृष्णा देवी पुत्री अमर चन्द

			3/3/3	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	दशना देवी पत्नी अमर चन्द 1/2, इकनाल सिंह पुत्र उकावर सिंह श्रीमति सजिन्द कौर पत्नी राजपाल सिंह 1/2 सेयर
			3/3/4	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	श्रीमति ज्योति पत्नी जगन प्रसाद और अन्य
			8/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--1	राम चंद पुत्र बजीत राम
			8/2/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	राम चंद पुत्र बजीत राम
			8/2/2/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---2	गुरदीप सिंह पुत्र हरमन सिंह
			8/2/2/10	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---2	बलजीत सिंह पुत्र देव सिंह
			8/2/2/11	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	जोग प्रकाश पुत्र विलोक चन्द
			8/2/2/12	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	मनोज कुमार पुत्र पवन कुमार
			8/2/2/19	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---4	देव सनाज सोसाइटी व अन्य
			9/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	इन्द्रजीत पुत्र वर्त्मन सिंह 63 शेयर और अन्य 693 शेयर (कुल 756 शेयर)
			9/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---7	स्वामी कुलदीप सिंह बनवाल पुत्र जगन सिंह व अन्य
			9/3	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--4	स्वर्ण कौर पत्नी अमरजीत सिंह 72 शेयर अन्य 692 शेयर (कुल 764 शेयर)
			13/1/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---5	स्वर्ण कौर पत्नी अमरजीत सिंह 72 शेयर अन्य 692 शेयर (कुल 764 शेयर)
			13/2/1/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--1	अनूपपाल सिंह व सतपाल सिंह पुत्र कुलजीत सिंह
			13/2/1/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	अनूपपाल सिंह व सतपाल सिंह पुत्र कुलजीत सिंह
			13/1/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---7	जोग प्रकाश पुत्र दया कृष्ण व अन्य
			13/2/8	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--10	देव सनाज सोसाइटी चण्डीगढ़ व अन्य
			18/1/2/1	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--1	भगत राम पुत्र देव राज 9 शेयर, रावेल कुमार पुत्र कोमल कृष्ण 24 शेयर, मुनेश कुमार पुत्र जसदी राम 24 शेयर, अनूप लाल, रामेश्वर बंसल पुत्र चर्मा राम 24 शेयर, (कुल 81 शेयर)
			18/1/2/2	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0---1	संजय पुत्र सुभाष चन्द 7/1/2, शेयर, कर्म चन्द, चन्द भूषण पुत्र गिरधारी लाल 31/1/2 शेयर, कविता पत्नी बलदेव कुमार 16/1/2 शेयर, सुनीता रानी पत्नी मुकेश 7/1/2 शेयर
			18/1/2/3/1-2	प्राप्ति	गैर मुनकिन	0--1	हरबंस सिंह पुत्र जंगीर सिंह 3/5 शेयर, भगत राम पुत्र देव राज और अन्य 2/5 शेयर

				18/1/2/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0--1	भगत राम पुत्र देश राम 9 शेयर, राकेश कुमार पुत्र केवल कृष्ण 24 शेयर, मुकेश कुमार पुत्र जस्ती राम 24 शेयर, अमृत लाल, रामेश्वर दास पुत्र कर्ता राम 24 शेयर, (कुल 81 शेयर)
				18/1/2/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	राज कुमार पुत्र कृष्ण चन्द
				18/1/2/6	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	राज कुमार पुत्र कृष्ण चन्द
				18/3/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0----1	उजागर सिंह पुत्र मंगल सिंह व अन्य
				18/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	रंजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह व अन्य
				19/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	हरविन्द सिंह मतवाना श्याम सिंह 1138/1/2 शेयर, अन्य 1336/1/2 शेयर, (कुल 2475 शेयर)
				19/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---5	हरविन्द सिंह मतवाना श्याम सिंह 1138/1/2 शेयर, अन्य 1336/1/2 शेयर, (कुल 2475 शेयर)
				27	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	हरविन्द सिंह मतवाना श्याम सिंह 1138/1/2 शेयर, अन्य 1336/1/2 शेयर, (कुल 2475 शेयर)
				23/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---6	दलबीर सिंह पुत्र गुरबत्खा सिंह
				23/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---6	हरविन्द सिंह मतवाना श्याम सिंह 1138/1/2 शेयर, अन्य 1336/1/2 शेयर, (कुल 2475 शेयर)
				24/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---5	रंजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह व अन्य
				24/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---7	जसपाल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह और अन्य
				13/3	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0--12	दलबीर सिंह पुत्र गुरबत्खा सिंह
				4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	हरमेश पत्नी गुलशन 21 शेयर, अन्य 2814 शेयर (कुल 2835 शेयर)
				7	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	प्रकाश सिंह पुत्र रघुराज सिंह
				8/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	रंजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह व अन्य
				13/8/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	कमला रानी पत्नी देवा, परमजीत कौर पत्नी जगतार सिंह
				8/2/4	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	परमजीत कौर पत्नी जगतार सिंह
				8/2/5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	परमजीत कौर पत्नी जगतार सिंह
				8/2/6	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---3	दलीप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह
				8/2/7/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	जगतार सिंह पुत्र नरंजन सिंह और अन्य
				8/2/7/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	दलीप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह

				13/2	प्राविट	गैर मुनकिन	0---12	विनेश कुमार पुत्र केव प्रकाश और अन्य
				14	प्राविट	गैर मुनकिन	0---12	प्रकाश सिंह पुत्र रघुराज सिंह
				17/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---7	मोतिया कान्द्रकन प्रा. लि. डकोली
				17/2	प्राविट	गैर मुनकिन	0---3	प्रकाश सिंह पुत्र रघुराज सिंह
				18/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---4	बालाजी टिम्बर और प्लायवुड 45 शेयर, कनल रस्तोगी, मिस्वन रस्तोगी पुत्र सुक्खन दास 69 शेयर और पुत्र
				18/2	प्राविट	गैर मुनकिन	0---2	रितु पत्नी भूषण कुमार
				18/5	प्राविट	गैर मुनकिन	0---5	हिम्मत सिंह पुत्र उज्जगर सिंह 58 शेयर, सुरजीत सिंह पुत्र अजनेर सिंह 15 शेयर और अन्य
				18/9	प्राविट	गैर मुनकिन	0---1	स्वर्णजीत कौर पत्नी देविन्द सिंह 1/9 शेयर, धनवंत सिंह, देविन्द सिंह पुत्र बलदेव सिंह 8/9 शेयर
				23/1/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---1/1/2	इन्द्र कौर पत्नी हरदीत सिंह ब अन्य
				23/2/1-2	प्राविट	गैर मुनकिन	0---8	श्रीमति इन्द्र कौर पत्नी टी. के. और अन्य 11/12 शेयर, एन. के. शर्मा एटरप्राइजिज प्रा. लि. 1/12 शेयर द्वारा यादविन्द कुमार डायरेक्टर
				24	प्राविट	गैर मुनकिन	0---12	एच. यु. एफ. महिन्द सिंह पुत्र मोहन सिंह और पुत्रों 1/2, सतिन्द बीर सिंह पुत्र हरबंत सिंह 1/2 शेयर
				20/3	प्राविट	गैर मुनकिन	0---12	श्रीमति इन्द्र कौर पत्नी टी. के. और अन्य 11/12 शेयर, एन. के. शर्मा एटरप्राइजिज प्रा. लि. 1/12 शेयर द्वारा यादविन्द कुमार डायरेक्टर
				4	प्राविट	गैर मुनकिन	0---12	अग्रवाल सेन्स लि. 334 शेयर, अन्य 1412 शेयर (कुल 1746 शेयर)
				20/7/1	सरकारी	गैर मुनकिन	0---12	संजय पुरी पुत्र बनवारी लाल
				7/2/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---7	कबीरदास पुत्र बेली राम
				7/2/2/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---3	कबीरदास पुत्र बेली राम
				7/2/2/2	प्राविट	गैर मुनकिन	0---2	श्रीमति इन्द्र कौर पत्नी टी. के. और अन्य 11/12 शेयर, एन. के. शर्मा एटरप्राइजिज प्रा. लि. 1/12 शेयर द्वारा यादविन्द कुमार डायरेक्टर
				8/1	प्राविट	गैर मुनकिन	0---1	कबीरदास पुत्र बेली राम

				14/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	कबीरदास पुत्र बेसी राम 38/160 शेयर, संतोष पत्नी कबीर दास 16/160, करनैल सिंह, दीपक सिंह, बलबीर सिंह, जरनैल सिंह पुत्र बनारसी दास 106/160 शेयर
				14/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	हरिन्द सिंह पुत्र हरि सिंह
				17/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	जसवंत सिंह पुत्र हरि सिंह 13/24 शेयर, मीरा पत्नी राजपाल 11/24 शेयर
				17/2/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	शशि बंसल पत्नी नरिन्द बंसल 80 शेयर और अन्य 298 शेयर (कुल 378 शेयर)
				24/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---6	मजीत कौर पत्नी बलबीर सिंह 1756 शेयर, अन्य 1646 शेयर (कुल 3402 शेयर)
				24/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---6	मजीत कौर पत्नी बलबीर सिंह 1756 शेयर, अन्य 1646 शेयर (कुल 3402 शेयर)
				24/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---10	जसवंत सिंह पुत्र हरि सिंह
				25/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1/1/2	जसवंत सिंह पुत्र हरि सिंह
				25/4/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---5	मैसर्ज एम. केयर मेडिसिन और रिसर्च प्रा. लि. 175 शेयर, अन्य 275 शेयर (कुल 450 शेयर)
				4/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---2	मुख्त्यार सिंह पुत्र पक्खर सिंह 63/630, मुरनाम सिंह 189, कुलवंत सिंह पुत्र नन्द सिंह 102, भाग सिंह पुत्र नानक सिंह 189, प्रकाश चन्द पुत्र मोपी राम, भरपूर देवी पत्नी प्रकाश चन्द 27 शेयर
				5	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---9	प्रकाश कौर हरभजन सिंह 796 शेयर, अन्य 617 शेयर (कुल 1413 शेयर)
				6/1/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---6	यादविन्द सिंह पुत्र कंवर कौर और अन्य
				6/1/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---5	करतार कौर बि. लंगरु राम और अन्य
				25/6/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---1	प्रकाश कौर हरभजन सिंह 796 शेयर, अन्य 617 शेयर (कुल 1413 शेयर)
				7/1	सरकारी	गैर मुमकिन	0---6	केन्द्रीय सरकार
				7/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---8	परमजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह
				14	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---12	परमजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह
				15/1	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---4	प्रमोद पत्नी ललित मोहन, ललित मोहन पुत्र रामजीदास 149 शेयर, अन्य 220 शेयर (कुल 369 शेयर)



			15/2/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---3	गुरबचन कौर पत्नी सुरिन्द्र लाल सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह
			15/2/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---6	सुरजीत सिंह पुत्र बिधी सिंह और अन्य
			16/1/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---4	वर्मान लाल पुत्र हरबंस लाल 277/360, वेता राज पुत्र बेसी राम 383/360
			16/1/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---1	बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह 85 हेयर अन्य 8267 हेयर (कुल 8352 हेयर)
			16/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---7	बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह 85 हेयर अन्य 8267 हेयर (कुल 8352 हेयर)
			24	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---12	हरमोपाल पुत्र गजराज 591 हेयर, अन्य 2955 (कुल 3546 हेयर)
			25/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---9	बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह 85 हेयर अन्य 8267 हेयर (कुल 8352 हेयर)
			25/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---3	सुखविन्द सिंह पुत्र प्रभूदयाल सिंह और अन्य
			33/4	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---12	बुधिनन्द कौर वि. प्रीतपाल सिंह, गुरसेज सिंह पुत्र सीतार सिंह
			5	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---12	सुखविन्द सिंह पुत्र प्रभूदयाल सिंह और अन्य
			6/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---4	सुखविन्द सिंह पुत्र प्रभूदयाल सिंह और अन्य
			33/6/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---8	सुखविन्द सिंह पुत्र प्रभूदयाल सिंह और अन्य
			7	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---12	मैसर्ज जय कृष्ण इन्डस्ट्रीज लोहगढ़
			14/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---3	कैन्ट्रन लेबोरेट्री लि.
			14/2	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---4	कैन्ट्रन लेबोरेट्री लि.
			14/3	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---5	मैसर्ज जय कृष्ण इन्डस्ट्रीज लोहगढ़
			15	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---12	साहिब सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 293 हेयर, अन्य 2947 हेयर (कुल 3240 हेयर)
			16/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---9	साहिब सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 293 हेयर, अन्य 2947 हेयर (कुल 3240 हेयर)
			16/2/1	प्राइवेट	गैर मुनफिन	0---6	बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह

				16/2/2	प्राइवेट	गैर मुमकिन	0---7	विग कमांडर विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह 31 शेयर, लखविन्द्र सिंह, हरमिन्द्र सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह 31 शेयर, जोगिन्द्र सिंह पुत्र पक्खर सिंह 214 शेयर, कबलजीत सिंह, अमरजीत सिंह पुत्र तजिन्द्र सिंह 111 शेयर, पुनम पत्नी हरमीत सिंह 138 शेयर, हरमीत सिंह पुत्र बलोचन सिंह 119 शेयर
				44/1	पंचायत	गैर मुमकिन	0---0	नगर पंचायत
				46	पंचायत	गैर मुमकिन	0---1	नगर पंचायत
				47	पंचायत	गैर मुमकिन	0---5	नगर पंचायत
				48	पंचायत	गैर मुमकिन	0---7	नगर पंचायत
				54	सरकारी	गैर मुमकिन	0---2	प्रोविन्सियल सरकार
				55	पंचायत	ग्राम पंचायत	0---2	नगर पंचायत
				56	पंचायत	गैर मुमकिन	0---2	नगर पंचायत
				60	सरकारी	गैर मुमकिन	0---2	प्रोविन्सियल सरकार
							एकड़ - कनाल - मरला	
						कुल	3--1--16	

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी-II/11019/17/2003/एलए]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2007

**S.O. 61(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1030 (E), dated the 7<sup>th</sup> July 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 10<sup>th</sup> July, 2006 and issued under sub-section (1) of section

3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 22 on the stretches of land from Km 10.740 to Km 11.880 and from Km 12.820 to Km 39.960, and National Highway No. 21 on the stretches of land from Km 0.000 to Km 0.871 (Ambala-Zirakpur Section) in Sahibzada Ajit Singh Nagar, in the State of Punjab;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "The Tribune", both dated the 29<sup>th</sup> July, 2006 and in "Ajit", dated the 30<sup>th</sup> July, 2006; under sub-section (3) of section 3 A of the said Act ;

And whereas a total of 70 objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3 D of the said act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretches of land from KM 10.740 to KM 11.880 and Km 12.800 to KM 39.960 (Ambala-Zirakpur Section) on the National Highway No. 22 in the State of Punjab.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the Village with Hadbast number	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Bhige/ Biswa	Name of land owner/interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sahibzada Ajit Singh Nagar	Derabassi	1. Jharmari 159	1175/321	Private	Rosali	0-2	Golden Forest Resort and Developers
				1174/321	Private	Factory	0-5	Smt. Rinky W/o Tarlochan Singh
				321/1	Gram Panchayat	G.M. Rasta	0-1	Gram Panchayat
				1266/323	Private	Rosali	0-9	Golden Forest Resort and Developers
				324	Private	Chahi	0-10	Golden Forest Resort and Developers
				333	Private	Rosali	0-11	Golden Forest Resort and Developers
				335	Private	G.M.	0-13	Golden Forest Resort and Developers
				336	Gram Panchayat	G.M. Rasta	0-1/1/2	Gram Panchayat
				338	Private	Rosali	0-19	Smt. Nimi Bikram W/o Parveen Kumar
				339	Private	Rosali	0-12	Golden Forest Resort and Developers
				342	Private	Rosali	0-4	Golden Forest Resort and Developers
				343	Private	Rosali	0-4	Golden Forest Resort and Developers
				347	Private	Rosali	0-5	Golden Forest Resort and Developers
				353	Private	Rosali	0-6	Golden Forest Resort and Developers
				355	Private	Dakar	0-13	Hardeep Verma S/o Vishva Mitra
				356	Private	Dakar	0-6	Hardeep Verma S/o Vishva Mitra
				388	Gram Panchayat	G.M. Road	0-3	State Govt.
				1204/391	Private	Rosali	0-16	Naresh Arora S/o Virbhan 1/2 Share Punit Shukla S/o Brij Mohan 1/2 Share
				397	G.M. Panchayat	G.M. Hotel	0-7	Narata - Sarbjeet S/o Mehar
				1173/392	Private	Rosali	0-2	Vishav Prakash S/o Babu Chand
				1174/392	Private	Rosali	0-3	Smt. Siksha Rani W/o Chander Mohan
				1205/393	Private	Rosali	0-3	Smt. Siksha Rani W/o Chander Mohan
				1206/393	Private	Rosali	0-2	Smt. Siksha Rani W/o Chander Mohan
				1207/393	Private	Rosali	0-6	Smt. Siksha Rani W/o Chander Mohan
				1268/357	Nagar Panchayat	G.M.	0-0	Hardeep Verma S/o Vishva Mitra
				398	Private	G.M. Rasta	0-1/2	Gram Panchayat
				404	Private	Rosali	0-9	Inder Kumar S/o Ram Balas
				406	Private	Rosali	0-9	Hardeep Kaur W/o Ranjit Singh

			407	Private	Rosali	0-9	Ranjit Singh S/o Bhag Singh
			409	Private	Rosali	0-9	Ranjit Singh S/o Bhag Singh
			410	Private	Rosali	0-9	Ranjit Singh S/o Bhag Singh
			411	Private	Rosali	0-11	Ranjit Singh S/o Bhag Singh
			1112/422	Private	Dakar	0-3	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1113/422	Private	Dakar	0-5	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1114/423	Private	Dakar	0-6	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1115/423	Private	Rosali	0-2	Sanjay - Deepak S/o Jai Gopal
			426	Private	Rosali	0-9	Sanjay - Deepak S/o Jai Gopal
			346	Private	Rosali	0-4	Golden Forest Resort and Developers
			389	Nagar Panchayat	G.M. Mandir	0-3	Nagar Panchayat
			1118/431	Private	Rosali	0-2	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1119/431	Private	Rosali	0-2	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1121/431	Private	Rosali	0-4	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1122/432	Private	Rosali	0-3	Sandeep Rai S/o Jagdish Rai Goel
			1123/432	Private	Rosali	0-3	Smt. Sanju Wd/o Nitin S/o Satish
			1124/432	Private	Rosali	0-1	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			421	Private	Dakar	0-7	Palwinder - S/o Sampuran
			1105/413	Private	Chahi	0-6	OMAXE Construction Company Pvt. Ltd.
			1106/413	Private	Chahi	0-5	Surinder Kaur Wd/o Bhupinder Gural - S/o Ujagar Kaur - 1/4 Share Guljar Kaur Daughter of Gurbachan Singh 1/4 part Sanjay - Deepak Son Jai Gopal 1/2 Share
						A-B-B	
					TOTAL	2-4-13	
		2. Kurli H.B. No. 158	378	Private	Rosali	0-1	Golden Forest Resort and Developers
			379	Punjab Govt.	G.M. Road	0-1	State Govt (PWD)
			805-806 /380	Private	Rosali	0-1	Golden Forest Resort and Developers
						A-B-B	
					TOTAL	0-0-3	
		3. Sarsini H.B. No. 153	1006	Private	Rosali	0-10	Joginder Singh S/o Partap Singh

				1007	Private	Rosali	0-6	Yadvinder Singh S/o Joginder Singh S/o Partap Singh 1/2 part Manjit Kaur W/o Khushwant Singh S/o Joginder Singh
				1008	Private	Rosali	0-6	1/2 Part Yadvinder Singh S/o Joginder Singh S/o Partap Singh 1/2 part Manjit Kaur W/o Khushwant Singh S/o Joginder Singh
				1009	Private	Rosali	0-6	1/2 Part Yadvinder Singh S/o Joginder Singh S/o Partap Singh 1/2 part Manjit Kaur W/o Khushwant Singh S/o Joginder Singh
				1709/1010/1	Private	Rosali	0-6	Priti Kohli W/o Chander Kohli
				1710/1010/2/ 1	Private	Rosali	0-8	Reliance Mobile Industries Ltd Company
				1711/1010/2/ 2	Private	Rosali	0-3	Reliance Mobile Industries Ltd Company
				1011	Panchayat	Rosali	0-7	Nagar Panchayat
				1012	Private	Rosali	0-11	Gurbkhash Singh S/o Nathi
				1013	Private	Rosali	0-2	Chranjit Singh S/o Bhajan Singh, Satinder Kaur 1/4 D/o Bhajan Singh - Mahavir Singh - Jeet Singh - Kuldeep Singh S/o Karam Singh
				1014	Private	Rosali	0-11	Chranjit Singh S/o Bhajan Singh, Satinder Kaur 1/4 D/o Bhajan Singh - Mahavir Singh - Jeet Singh - Kuldeep Singh S/o Karam Singh
				1015	Panchayat	Rosali	0-14	Nagar Panchayat
				1016	Panchayat	Rosali	0-13	Nagar Panchayat
				1017	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1018	Panchayat	Rosali	0-9	Nagar Panchayat
				1019	Panchayat	Rosali	0-10	Nagar Panchayat
				1020	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1021	Panchayat	Rosali	0-10	Nagar Panchayat
				1022	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1023	Private	Rosali	0-10	Gurbkhash Singh S/o Nathi
				1024	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1025	Panchayat	Rosali	0-10	Nagar Panchayat
				1026	Panchayat	Rosali	0-14	Nagar Panchayat
				1027	Panchayat	G.M.	0-4	Nagar Panchayat
				1028	Panchayat	Rosali	0-13	Nagar Panchayat
				1029	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1030	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1031	Panchayat	Rosali	0-10	Nagar Panchayat
				1032	Panchayat	Rosali	0-11	Nagar Panchayat
				1033	Panchayat	Rosali	0-10	Nagar Panchayat
				1038	Panchayat	Rosali	0-2	Nagar Panchayat
				1039	Panchayat	Rosali	0-1	Nagar Panchayat
				1045	Panchayat	Rosali	0-9	Nagar Panchayat
				1046	Panchayat	Rosali	0-4	Nagar Panchayat
				1048	Panchayat	Rosali	0-7	Smt. Sarinder Rai W/o Ranjit Singh Rai
				1063/1	Private	Rosali	0-5	Sh. H.D. Goyal S/o Sh. Hansraj, Rupinder pal S/o Karam Singh, Poonam Singla W/o C.K. singla

				1063/2	Private	Rosali	0-6	Sh. H.D. Goyal S/o Sh. Hansraj, Rupinder pal S/o Karam Singh, Poonam Singla W/o C.K. singla
				1552/1050	Private	Chahi	0-7	Chaman Lal - Raman Kumar Parveen Kumar
				1553/1050	Private	Gair Mumkin	0-3	Santosh Kumar S/o Mohan Lal 1/4 Share, Mohinder Pal S/o Garba 1/4 Part, Suresh Agarwal S/o Ved Prakash 1/4 Part, Amar Nath S/o Inder Sain 1/4 part, Rakesh Goel S/o Kishor Chand
				1720/1116	Private	G.M.	0-4	M/s Bokard Ltd.
				1478/1112	Private	Rosali	0-2	M/s Anand Gather Pvt. Ltd
				1064/1	Private	Rosali	0-2	Toor Spinters Ltd.
				1068	Private	Rosali	0-10/1/2	Toor Spinters Ltd.
				1064/2	Private	Rosali	0-8	Sh. H.D. Goyal S/o Sh. Hansraj, Rupinder pal S/o Karam Singh, Poonam Singla W/o C.K. singla
				1072	Private	Rosali	0-10/1/2	Neelam D/o Hansraj, Charu D/o Harish Kumar, Aabha w/o Kishor Ram, Vijay Puri D/o Ramesh Chand
				1072/1	Private	Rosali	0-11	Harbhajan Singh S/o Sohan Singh
				1111	Private	Rosali	0-8	M/s Anand Gather Pvt. Ltd
				1477/1112	Private	Rosali	0-7	M/s Anand Gather Pvt. Ltd
				1114	Private	Rosali	0-7	M/s Anand Gather Pvt. Ltd
				1721/1116	Private	G.M.	0-5	M/s Bokard Ltd.
				1128	Panchayat	G.M.	0-9	M/s Bokard Ltd.
				1129	Panchayat	G.M. Rasta	0-1	Nagar Panchayat
				1145	Panchayat	G.M.	0-10	Jitender Khanna W/o Inderjeet Singh
				1146	Private	G.M.	0-11	Harbhajan Singh S/o Gobind singh 1/3, Sant singh, Kishan Singh S/o Jaya Ram 1/3, Satpal, Kishan Singh S/o Surjan Singh 1/3
				1149	Private	G.M.	0-7/1/2	Harbhajan Singh S/o Gobind singh 1/3, Sant singh, Kishan Singh S/o Jaya Ram 1/3, Satpal, Kishan Singh S/o Surjan Singh 1/3
				1150	Panchayat	G.M. Rasta	0-1	Nagar Panchayat
				1159	Panchayat	Rosali	0-2	Nagar Panchayat
				1110	Private	Rosali	0-8	M/s Anand Gather Pvt. Ltd
				1049	Private	Rosali	0-11	Rajinder Singh S/o Hukam Singh
				1051	Private	Rosali	0-11	Sardara Singh S/o Amar Singh and Gurbchan Singh S/o Amar Singh
				1509/1052	Private	Rosali	0-1	Sardara Singh S/o Amar Singh and Gurbchan Singh S/o Amar Singh

				1510/1052	Private	Rosali	0-10	Sardara Singh S/o Amar Singh and Gurbchan Singh S/o Amar Singh
				1053	Private	Rosali	0-11	Key Man Ltd.
				1054	Private	Rosali	0-10	Key Man Ltd.
				1627/1055	Private	Rosali	0-8	Smt Anjani Gupta W/o Rajesh Gupta
				1628/1055	Private	Rosali	0-3	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1056	Private	Rosali	0-6	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1057	Private	Rosali	0-5	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1058	Private	Rosali	0-11	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1629/1059	Private	Rosali	0-11	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1631/1060	Private	Rosali	0-3	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1061/1	Private	Rosali	0-4	Gurcharan Kaur W/o Ajay Pal S/o Samsher Singh
				1061/2	Private	Rosali	0-6	Gurcharan Kaur W/o Ajay Pal S/o Samsher Singh
				1644/1160	Panchayat	Rosali	0-8	Som Chand S/o Hardwar Lal, Mohat kumar S/o Pat Ram, Kiran Gupta W/o Sh. Ramesh Kumar
				1645/1160	Panchayat	Rosali	0-3	Deshbadhu S/o Partap singh
				1651/1163	Panchayat	Rosali	0-3	Harminder Kaur W/o Sarnjeet Singh
				1652/1163	Panchayat	Rosali	0-5	Ghansham Dash S/o Kishan Das, Arjun das S/o Sheetal Das
				1115	Panchayat	G.M.	0-1	Nagar Panchayat
				1164	Panchayat	G.M. Rasta	0-1/2	Nagar Panchayat
				1165	Private	Rosali	0-2	Sudershan Resort Ltd.
				1168	Panchayat	Rosali	1-1/2	Nagar Panchayat
				1169	Panchayat	G.M.	0-1	Nagar Panchayat
				1275	Panchayat	Rosali	0-10/1/2	Nagar Panchayat
				1632/1060	Private	Rosali	0-8	Navin Jindal S/o Mohan Lal
				1277	Panchayat	Rosali	0-10/1/2	Nagar Panchayat
				1278	Panchayat	Rosali	0-10/1/2	Nagar Panchayat
				1280	Panchayat	Rosali	0-1	Nagar Panchayat
				1282	Panchayat	Rosali	0-1	Nagar Panchayat
				1283	Panchayat	Rosali	0-7	Kuldeep singh S/o Karpal Singh 17/100, Amarjeet Kaur W/o Inderjeet Singh, Harpinder Kaur W/o Hardev Singh 18/100, Mohinder Singh S/o Talsa Singh 12/100, Trilochan Singh S/o Mela Singh 12/100, Taranjeet Kaur D/o Harinder Singh 12/100, Gurmeet Singh S/o Jas
				1284	Private	Rosali	0-8	Kuldeep singh S/o Karpal Singh 17/100, Amarjeet Kaur W/o Inderjeet Singh, Harpinder Kaur W/o Hardev Singh 18/100, Mohinder Singh S/o Talsa Singh 12/100, Trilochan Singh S/o Mela Singh 12/100, Taranjeet Kaur D/o Harinder Singh 12/100, Gurmeet Singh S/o Jas



				1286	Private	Rosali	0-4	Kuldeep Singh S/o Karpal Singh 17/100, Amarjeet Kaur W/o Inderjeet Singh, Harpinder Kaur W/o Hardev Singh 18/100, Mohinder Singh S/o Tulsa Singh 12/100, Trilochan Singh S/o Mela Singh 12/100, Taranjeet Kaur D/o Harinder Singh 12/100, Gurmeet Singh S/o Jas
				1290	Private	Rosali	0-4	Harijan Cooperative Societies
				1291/1	Private	Rosali	0-4	Harijan Cooperative Societies
				1307	Panchayat	Rosali	0-4	Nagar Panchayat
				1308	Panchayat	Rosali	0-2	Nagar Panchayat
				1309	Panchayat	Rosali	—	Nagar Panchayat
				1310	Panchayat	Rosali	0-1	Nagar Panchayat
				1311	Private	Rosali	0-1	Munish Kumar S/o Amar Das, Ajay Kumar S/o Anant Ram
				1312	Panchayat	G.M.	0-19	Nagar Panchayat
				1313	Private	G.M.	0-4	Brijdeep Singh, Kuldip Singh 2/5 Share, Ravinder Kaur W/o Amar Singh, Jarnanjeet Singh S/o Gurdial Singh, Gurpreet Kaur W/o Amardeep Singh 3/5 Share
				1315	Panchayat	Rosali	0-8	Nagar Panchayat
				1573/1316	Private	G.M.	0-3	Toni, Dhanna, Bunti, Panna S/o Joginder
				1574/1316	Private	G.M.	0-3	Joginder Singh S/o Ram Singh
				1350	Panchayat	G.M. Rasta	0-1/2	Nagar Panchayat
				1353/1	Private	Rosali	0-7	Joginder Singh S/o Ram Singh
				1354	Private	G.M. Rasta	0-7	Jasbir Kaur W/o Arjun Singh 1/3, Balwinder Singh, Angrej Singh S/o Arjun Singh 2/3
				1370	Private	G.M. Rasta	0-8	Jasbir Kaur W/o Arjun Singh 1/3, Balwinder Singh, Angrej Singh S/o Arjun Singh 2/3
				1372	Private	G.M. Rasta	0-6	Jasbir Kaur W/o Arjun Singh 1/3, Balwinder Singh, Angrej Singh S/o Arjun Singh 2/3
				1373	Private	G.M. Rasta	0-6	Pushpa Rani W/o Kishan Pal
				1389	Private	G.M. Rasta	0-0	Nagar Panchayat
				1391	Private	Ger Mumkin	0-6	Jasbir Kaur W/o Arjun Singh 1/3, Balwinder Singh, Angrej Singh S/o Arjun Singh 2/3
				1392	Private	Dakar	0-6	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252

				1395	Private	Dakar	0-6	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252
				1396	Private	Dakar	0-6	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252
				1397	Private	Dakar	0-6	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252
				1398	Private	Dakar	0-6	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252
				1399	Private	Dakar	0-3	Sunil Sehgal S/o S.D. Sehgal 252/504, Suraj Parkash S/o G.L. 160/252, Nutan Safra w/o Hari Sehgal 92/252
				1400	Govt.	Ger Mumkin	0-1	Custodian
							A--B--B	
						TOTAL	10--0-- 6/1/2	
			4. Alungir H.B. No. 225	763	Private	Chahi	0-11	Mukesh Kumar S/o Girdhari Lal, Vivek Kumar S/o Pawan Kumar 1/3, Davinder Mittal, Balwinder Mittal S/o Madan Mohan 1/3, Champa Goel W/o Surinder pal 1/3
				765	Private	Rosali	0-10	Mukesh Kumar S/o Girdhari Lal, Vivek Kumar S/o Pawan Kumar 1/3, Davinder Mittal, Balwinder Mittal S/o Madan Mohan 1/3, Champa Goel W/o Surinder pal 1/3
				766	Private	Chahi	0-10/1/2	Mukesh Kumar S/o Girdhari Lal, Vivek Kumar S/o Pawan Kumar 1/3, Davinder Mittal, Balwinder Mittal S/o Madan Mohan 1/3, Champa Goel W/o Surinder pal 1/3
				1069/769	Private	G.M. Factory	0-7	J.C. Coach Factory Builders
				771	Private	G.M. Factory	0-10	J.C. Coach Factory Builders
				772	Private	G.M. Factory	0-10	J.C. Coach Factory Builders
				775	Private	G.M. Factory	0-10	J.C. Coach Factory Builders
				777	Govt.	G.M. Road	0-1	Provincial Govt. Punjab
				778	Private	G.M. Factory	0-10	Risha Builders
				779	Private	G.M. Factory	0-11	Risha Builders

				783	Private	G.M. Peerdhan	0-5	Nagar Panchayat
				784	Private	G.M. Road (Rosali)	0-5	Nagar Panchayat
				1074/782	Private	G.M. Factory	0-8	J.C. Coach Factory
				786		G.M. Patti	0-2	Nagar Panchayat
				1077/788	Private	G.M. Hotel	0-7/1/2	Smt. Harsharan Kaur W/o Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh
				1078/788	Private	G.M. Plot	0-2/1/2	Aaditi Malik D/o Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh
				1079/788	Private	G.M. Plot	0-2/1/2	Aaditi Malik D/o Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh
				1080/788	Private	G.M. Plot	0-2/1/2	M/s Kelan Dula Farms Pvt. Ltd.
				1082/789	Private	G.M. Hotel	0-2/1/2	A.P. Hotel Ltd. Lalru
				1083/789	Private	G.M. Plot	0-8	Aaditi Malik D/o Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh
				1084/793	Private	Rosali	0-2/1/2	Balveer Singh 1/2, Laxman Singh 1/4 S/o Tulsi, Smt. Laxmi Wd and Parmjeet Kaur D/o Sajju Ram Chander 1/4
				1085/793	Private	Rosali	0-8	Charan Singh S/o Nasib Singh
				1150/794	Private	G.M. Hotel	0-5	Surjeet Singh, Kudlip Singh, Harjit Singh S/o Raja Singh 4/5, Surinder Kaur W/o Gurdeep Singh 1/5
				1147/794	Private	G.M. Factory	0-5	Anand Nidhi Bawa Company 1/2, Bupinder Kaur D/o Sivraj 1/2
				796	Private	G.M. Factory	0-1	Saish Ahoja S/o Ram Lawaya, S.M Mahajan S/o Budha Mal
				880	Private	G.M. Factory	0-9	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				881	Private	G.M. Factory	0-10/1/2	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1111-1112/1071/782	Private	G.M. Plot	0-2/1/2	Ram Rattan, Yadvinder, Gurcharan Singh S/o Devi Dayal
				1086/882	Private	G.M. Factory	0-4/1/2	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1087/882	Private	G.M. Factory	0-6	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1115/883	Private	G.M. Factory	0-7	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1116/883	Private	G.M. Factory	0-4	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1119/885	Private	G.M. Factory	0-1	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1120/885	Private	G.M. Factory	0-9	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				886	Private	G.M. Factory	0-5	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				887	Private	G.M. Factory	0-5	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				956/888	Private	G.M. Factory	0-8	Rana Policot Ltd. Chandigarh
				1081/788	Private	G.M. Plot	0-1	Aaditi Malik D/o Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh

				1070/769	Private	Chahi	0-4	Mukesh Kumar S/o Girdhari Lal, Vivek Kumar S/o Pawan Kumar 1/3, Dayinder Mittal, Balwinder Mittal S/o Madan Mohan 1/3, Champa Goel W/o Surinder pal 1/3
							A-B--B	
						TOTAL	2--1--18	
			5. Dahar H.B. No. 224	724	Private	G.M. Petrol Pump	0-1	Arjan Dev Baskev S/o Sita Ram 2/3 Share, Vijay Kumar S/o Shiv Dayal 1/3
				967/728	Private	G.M	0-2	Baljinder Kaur W/o Baldev Singh
				968/728	Private	G.M.	0-1	Mangal Ram S/o Chajju Ram
				969/728	Private	G.M.	0-1	Sardar Singh, Muktiyar Singh 3/8, Purni Wd Maya Devi, Bakhtori, Mukhtayori, Kammi D/o Aatma Ram 5/8
				970/728	Private	G.M.	0-1	Sant Singh, Chotu Ram S/o Puran Singh
				971/728	Private	G.M.	0-1/2	Navdeep Singh S/o Baldev Singh
				972/728	Private	G.M.	0-1/2	Gurdiyul S/o Telu, Shivdayal S/o Narayana,
				973/728	Private	G.M.	0-1	Maninder Kaur W/o Avinder Singh
				993/729	Private	Ger Mumkin	0-2	Sanjiv Kumar, Rajiv Kumar S/o Ram Sarup
				995/729	Private	Ger Mumkin	0-9	Viajy Palace
				938/732	Private	Ger Mumkin	0-5	Gurmel Kaur W/o Rajinder Singh 16/620, Vijay Palace 105/620, Hansraj S/o Munshi Ram 116/620, Sadhu Ram S/o Niranjana 116/620, hari Singh S/o Chamela Singh 93/620, Muninder Kumar S/o Anand Kumar 124/620
				939/732	Private	Ger Mumkin	0-6	Gurmel Kaur W/o Rajinder Singh 16/620, Vijay Palace 105/620, Hansraj S/o Munshi Ram 116/620, Sadhu Ram S/o Niranjana 116/620, hari Singh S/o Chamela Singh 93/620, Muninder Kumar S/o Anand Kumar 124/620
				998/733	Private	Rasoli	0-6	Jasan Wisort
				997/733	Private	Rasoli	0-5	Gurmel Kaur W/o Rajinder Singh

				940/736	Private	Rasoli	0-3	Smt. Bachan Kuar W/o Gurdial Singh 51/81, Parminder Singh S/o Inderjit Singh, sham Lal S/o Ram Krishan 13/81, Bant Singh, Harbans Singh, Banto D/o Sher Singh 3/4, Dharma Kaur, Baljinder singh, jaspal Singh, Avtar singh S/o Sher Singh 1/4 (17/81)
				1023/941/73 6	Private	Ger Mumkin	0-5	Maan Singh S/o Batwant Singh
				1024/941/73 6	Private	Ger Mumkin	0-5	Viajy Palace
				737	Private	G.M. Factory	0-4	Smt. Sunita Rani W/o Raj Kumar
				942/739	Private	G.M. Factory	0-2 1/2	Smt. Sunita Rani W/o Raj Kumar
				943/739	Private	Rasoli	0-7	Darshan Singh, Sukhdev Singh, Harbans Singh S/o Desh Raj 1/12, Gurnam Kaur W/o Nachatar Singh 1/12, Punjab Elec. Compnay 1/4, Dharam Singh, Amrik singh, balbir Singh, Dalbir Singh S/o Gurdial Singh 1/9, Vidhya Devi W/o Sarwan Ram 1/9, Joginder Kaur W/o
				740	Private	Rasoli	0-6	Jasan Wisort
				741	Private	Rasoli	0-6	Jasan Wisort
				742	Private	Rasoli	0-4	Jasan Wisort
				743	Private	Rasoli	0-3	Smt. Bachan Kuar W/o Gurdial Singh 51/81, Parminder Singh S/o Inderjit Singh, sham Lal S/o Ram Krishan 13/51, Bant Singh, Harbans Singh, Banto D/o Sher Singh 3/4, Dharma Kaur, Baljinder singh, jaspal Singh, Avtar singh S/o Sher Singh 1/4 (17/81)
				744	Private	Rasoli	0-4	Smt. Bachan Kuar W/o Gurdial Singh 51/81, Parminder Singh S/o Inderjit Singh, sham Lal S/o Ram Krishan 13/51, Bant Singh, Harbans Singh, Banto D/o Sher Singh 3/4, Dharma Kaur, Baljinder singh, jaspal Singh, Avtar singh S/o Sher Singh 1/4 (17/81)
				746	Private	Rasoli	0-8 1/2	Gurdial Singh S/o Kartar Singh 2/3, Jang Singh S/o Santosh Singh 1/3
				747	Private	Rasoli	0-7 1/2	Ashok Kumar S/o Amar Singh
				1000/748	Private	Rasoli	0-4	Jeet Singh S/o Chitan Singh 39/47, Avtar Singh S/o Hajara Singh 8/47

				1001/748	Private	Rasoli	0-7	Jindal Spice Food Pvt. Ltd.
				751	Panchayat	Rasoli	0-15/1/2	Nagar Panchayat
				752	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				974/754	Private	Rasoli	0-1	Gurpreet Singh S/o Laxman Singh
				975/754	Private	Rasoli	0-1	Gurpreet Singh S/o Laxman Singh
				1005/976/754	Private	Rasoli	0-1	Surinder Singh S/o Punnu 6/23, Pakhar Singh S/o Issar Singh 17/23
				755	Panchayat	Mumkin	0-1	Nagar Panchayat
				756	Private	Rasoli	0-9	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				757	Private	Rasoli	0-10/1/2	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				764	Private	Rasoli	0-10/1/2	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				765	Private	Rasoli	0-10	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				766	Private	Rasoli	0-10	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				767	Private	Rasoli	0-8	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				773	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				774	Private	Rasoli	0-8	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				775	Private	Rasoli	0-8	Yuro Cordspin Pvt. Ltd.
				776	Private	Rasoli	0-10/1/2	Bachan Singh, Ram Chand, Maluk Singh S/o Ganga Ram
				1063/777	Private	Rasoli	0-5/1/2	Piyara Singh S/o Mela Ram 1/3, Bachan Singh, Shiv Ram, Ram Chand, Mukand Singh 1/3, Shiv Lal S/o Amar Nath, Surinder S/o Surjant 1/3
				1064/777	Private	Rasoli	0-5	Arvind Kaur W/o Hargopal Singh
				1066/778	Private	Rasoli	0-3	Arvind Kaur W/o Hargopal Singh
				837	Private	Rasoli	0-10/1/2	Harsaran Kaur W/o Shamsher Singh
				838	Private	Rasoli	0-1	Shamsher Singh S/o Gurmukh Singh
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>2--2-- 4/1/2</b>	
			<b>6. Lalru H.B. No. 218</b>	26/16	Private	Rasoli	0-6	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2
				17	Private	Rasoli	0-5	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2
				24	Private	Rasoli	0-10	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2
				25	Private	Rasoli	0-8	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2

				28/20	Private	Rosali	0-4	Ajmer Devi Wd/o Inder Singh 1/60, Nishan Singh, Kuldip Singh S/o Kishan Singh 1/12, Sudesh rani D/o Ranvir Singh S/o Randhir Singh 1/12, Tej pal S/o and Saroj Rani D/o Inder Singh 1/4, Raj Kali Wd/o Ghansham, Darshan Singh Son Bina Kumari D/o Mahavir Singh
				21	Private	Rosali	0-4	Sita Devi D/o Khrhani 1-6, Prem Wd Harpreet Singh, Malkit Singh Son sham Singh 1/2, Mahavir Singh S/o Sapattar Singh 1/12, Sukhbir Singh S/o Labh Singh 1/8, saroj 1/12, Sanjiv Kumar 1/24, Rajiv Kumar 1/24 S/o Mam Chand, Neta Wd/o Vinod Kumar 1/48, Tarshem
				29/4	Private	Rosali	0-5	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2
				6	Private	Rosali	0-8	Balwinder Kaur W/o Baldev Singh 1/2, Baldev Singh S/o Kartar Singh 1/2
				14	Private	Rosali	0-5	Natin Mohan S/o Sawan Ram
				15	Private	Rosali	0-9	Shiv Kumar S/o Balak Ram
				16	Private	Rosali	0-1	Ajmer Devi W/o Inder Singh 1/60, Ishan Singh, Kuldip Singh S/o Kishan Singh 1/12, Sudesh rani D/o Ranvir Singh S/o Randhir Singh 1/12, Tej pal S/o and Saroj Rani D/o Inder Singh 1/4, Raj Rani Wd/o Ghansham, Darshan Singh Son Bina Kumar D/o Mahavir Singh 1
				17	Private	Rosali	0-10	Lalit Mohan S/o Sarwan Ram
				24	Private	Rosali	0-10	Lalit Mohan S/o Sarwan Ram
				25	Private	Rosali	0-6	Sita Devi D/o Reshmi 1-6, Prem Wd Harpreet Singh, Malkit Singh Son sham Singh 1/2, Mahavir Singh S/o Sapattar Singh 1/12, Sukhbir Singh S/o Labh Singh 1/8, saroj 1/12, Sanjiv Kumar 1/24, Rajiv Kumar 1/24 S/o Mam Chand, Neta Wd/o Vinod Kumar 1/48, Tarshem

				52/14	Private	Rosali	0-10	Ram Singh S/o Sapattar Singh 94/1/4, Smt. Kishna Wd Jatinder Singh, Manpal, Jaswinder Sons Babli Devi D/o Raj Kumar 94/1/4, Thath Singh, Gulab Singh, Rameshwar Sons Rani Devi D/o Sham Singh 428/1/2, Capt. M.P. Goswami S/o G.L. and Smt. Shashi W/o Capt. M.
				5/1	Private	G.M.	0-2	M/s Built Size Managing Ltd.
				5/2/1	Private	G.M.	0-2	M/s Built and A.P. Anjaims Pvt. Ltd.
				5/2/2	Private	G.M.	0-2	A.P. Anjaims Pvt. Ltd.
				6	Private	G.M. Factory	0-6	Mitar Electric Wiring Service Station 650/3320, Mit Singh S/o Gurcharan Singh 1950/3320, A.P. Anjaims 720/3320
				7	Private	Rosali	0-10	Ram Singh S/o Sapattar Singh 94/1/4, Smt. Kishna Wd Jatinder Singh, Manpal, Jaswinder Sons Babli Devi D/o Raj Kumar 94/1/4, Thath Singh, Gulab Singh, Rameshwar Sons Rani Devi D/o Sham Singh 428/1/2, Capt. M.P. Goswami S/o G.L. and Smt. Shashi W/o Capt. M.
				14	Private	Rosali	0-10	Ram Singh S/o Sapattar Singh 94/1/4, Smt. Kishna Wd Jatinder Singh, Manpal, Jaswinder Sons Babli Devi D/o Raj Kumar 94/1/4, Thath Singh, Gulab Singh, Rameshwar Sons Rani Devi D/o Sham Singh 428/1/2, Capt. M.P. Goswami S/o G.L. and Smt. Shashi W/o Capt. M.
				15	Panchayat	G.M.	0-7	Nagar Panchayat (Milk Bar)
				16/1	Panchayat	Rosali	0-5	Ram Singh S/o Sapattar Singh 94/1/4, Smt. Kishna Wd Jatinder Singh, Manpal, Jaswinder Sons Babli Devi D/o Raj Kumar 94/1/4, Thath Singh, Gulab Singh, Rameshwar Sons Rani Devi D/o Sham Singh 428/1/2, Capt. M.P. Goswami S/o G.L. and Smt. Shashi W/o Capt. M.
				52/16/2	Panchayat	Ger Mumkin	0-8	Nagar Panchayat
				25/1/1	Panchayat	Ger Mumkin	0-1	Amar Singh S/o Rakha Ram
				25/1/2	Panchayat	Ger Mumkin	0-9	Mula Singh, Ami Singh S/o Sadhu Singh
				25/2	Electricity Deptt.	Ger Mumkin Elec. Board	0-5	Punjab Raj Elec. Board
				53/1	Private	Rosali	0-4	M/s Bulk Pvt. Ltd.



			10	Private	Ger Mumkin	0-4	Mitar Electric Wiring Service Station 650/3320, Mit Singh S/o Gurcharan Singh 1950/3320, A.P. Anjains 720/3320
			11	Milk Bar	Ger Mumkin	0-3	Nagar Panchayat
			20	Punjab	Ger Mumkin	0-3	Nagar Panchayat (Water Supply)
			53/21	Electricity Board	Ger Mumkin	0-5	Punjab Raj Elec. Board
			55/1	Electricity Board	Ger Mumkin	0-7	Punjab Raj Elec. Board
			10	Electricity Board	Ger Mumkin	0-8	Punjab Raj Elec. Board
			11	Electricity Board	Ger Mumkin	0-2	Punjab Raj Elec. Board
			56/5/1/2	Private	Ger Mumkin	0-2	Jasbir Singh S/o Ram Chand
			5/1/1/2	Private	Ger Mumkin	0-6	Mula Singh, Ami Singh S/o Sadhu Singh
			5/1/2	Private	Ger Mumkin	0-2	Surjeet Singh, Daljit Singh, Gurdit Singh S/o Baru Ram
			5/2	Board	Ger Mumkin	0-3	Punjab Raj Elec. Board
			56/6/1	Board	Ger Mumkin	0-2	Punjab Raj Elec. Board
			56/6/2/1	Private	Ger Mumkin	0-2	Gurdit Ram S/o Baru Ram
			6/2/2/2	Private	Rosali	0-7	Mula Singh, Ami Singh S/o Sadhu Singh
			6/2/2/1	Private	Ger Mumkin	0-1	Janak Raj S/o Jathi Ram
			56/15/1	Private	Rosali	0-2/1/2	Mula Singh, Ami Singh S/o Sadhu Singh
			92/15	Panchayat	G.M. Panchayat Ghar	0----1	Nagar Panchayat
			16	Panchayat	G.M. Chappad	0----2	Nagar Panchayat
			24	Panchayat	G.M.	0----1	Nagar Panchayat
			91/11/1	Panchayat	Ger Mumkin	0----1	Nagar Panchayat
			11/2	Panchayat	Ger Mumkin	0----1/1/2	Nagar Panchayat
			114/4	Panchayat	G.M.	0----2	Nagar Panchayat
			6/1/1	Private	G.M.		Rikhi Ram S/o Babu Ram
			6/2	Panchayat	G.M. Hospital	0----1	Nagar Panchayat
			17/1/1	Private	G.M.	0---0	Amar Chand, Shiv Ram S/o Arjun 1/2, Ram Kumar, Raj Kumar S/o Shiv Ram 1/2
			17/2	Private	G.M.	0----1	NIL
			23/1	Private	G.M.	0---0	Mehar Chand S/o Dhanna Ram
			114/23/2	Private	G.M. Abadi	0----1/2	Gurdev Singh S/o Tulsi Ram, Sunil Kumar S/o Ghansham Dass 1/4, Shiopal, Swaran S/o Banarsi Lal 1/2, Pata Chand S/o Mukundi Ram 1/4
			23/3/1	Private	G.M. Abadi	0---0	Kamdeep Singh S/o Sukhdev Singh
			23/3/2	Private	G.M. Abadi	0---0	Som Raj S/o Sunder Lal
			23/3/3/2	Private	G.M. Abadi	0---0	Som Raj S/o Sunder Lal
			23/3/3/1	Private	G.M. Abadi	0---0	Jaswinder Singh, Surinder Singh S/o Ramsaran

				23/3/3	Private	G.M. Abadi	0-----1	Tarshem Kumar S/o Dev Raj 76/200, Dev Raj S/o Raonak Ram 100/200, Surji Wd/o Rameshwar 2/200, Sardari Wd. Santosh Rani D/o Ram Partap 4/200, Surjit Kumar, Shekhar Chand, Ram pal S/o Rati Ram 3/200, Sohandip, Mandip Sons, Rinu D/o Mangat Ram 19/200, Shila
				18/1	Private	G.M.	----	Krishan Lal S/o Sadhu Ram
				18/2/2/1	Private	G.M.	0-----1	Satpal, Dharpal, Ramesh, Jasmer, Madan, Jasdev S/o Keshvo Ram
				18/2/2	Private	G.M.	0--0	Mangat Ram S/o Bhuda Ram
				27	Private	G.M.	0-----1	Fakir Chand 11, Laxmi Chand 93, Dinanath 93 S/o Chiranjitlal, Surinder Singh S/o Sawaran Singh 83
				28	Private	G.M.	0-----1	Vashist Kumar, Ravinder Kumar, Anil S/o Padam Prakash 1/3, Phuman Singh S/o Sunder Singh 1/3, Padam Parakash S/o Prashadi Devi 1/3
				29	Private	G.M.	0-----1	Gurpal Singh S/o Jasbir Singh, Balwinder Singh S/o Barkha Singh, Gurmukh Singh S/o Ranjit Singh, Satnam Singh S/o Ajit Singh
				30	Private	G.M. Bara	0--0	Roop Singh S/o Desh Raj
				31	Private	G.M. Bara	0-----1	Vishal Singh S/o Kala 297/1115, Sulinder Singh, Jasmer Singh, Jatinder Singh, Harmel Singh S/o Barkha Ram 51/1115, Mam Chand, Raj Singh, Dal Singh S/o Rasala Singh 72/1115, Sheela Devi D/o Sargiyan S/o Amar Singh 62/1115, Raj Pal, Jaspal, Satpal Sons, Jan
				114/32	Panchayat	G.M.	0-----1	Nagar Panchayat
				137/3/2/2/1/2	Private	G.M.	0-----2	Shiam Sunder S/o Bishan Das
				137/3/2/2/2/1/2	Private	G.M.	0-----2	Sham Sunder, Alias Soni S/o Bishna Dass
				8/1	Private	G.M.	0-----1	Bhagwanti Wd/o Vasudev 1/2, Kamlesh Rani, Kausal Rani D/o Madan Lal
				137/29	Private	G.M.	0-----1/1/2	Ramesh Kumar, Sukhdev S/o Sushma Rani D/o Janti Devi.
				329	Govt.	G.M. Road	0-2	State Govt.
				91/33	Panchayat	G.M. Bara	0-0	Nagar Panchayat
				35	Panchayat	G.M.	0-0	Nagar Panchayat
				37	Panchayat	G.M.	0-0	Nagar Panchayat

				39	Panchayat	G.M.	0-0	Nagar Panchayat
				240	Panchayat	Ger Mumkin	0-1	Nagar Panchayat
				241	Panchayat	Ger Mumkin	0-1	Nagar Panchayat
				242	Panchayat	Ger Mumkin	0-1	Nagar Panchayat
				266	Panchayat	Ger Mumkin	0-2	Nagar Panchayat
				263	Panchayat	Ger Mumkin	0-1	Nagar Panchayat
				268	Panchayat	G.M.	0-1	Nagar Panchayat
				869	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
							<b>A-B-B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>2-3-12</b>	
			7. Samlehri H.B. No. 214	240	Panchayat	G.M.	0-7	Nagar Panchayat
				239	Panchayat	G.M.	0-0	Nagar Panchayat
				320	Private	G.M. Factory	0-10	Janak Raj Gupta & Company, New Delhi
				321	Panchayat	G.M.	0-2	Nagar Panchayat
				322	Private	G.M.	0-5	Sham Singh, Mahavir Singh S/o Supattal Singh 188/1128, Sukhbir Singh S/o Labh Singh 188/1128, Rama W/o Tarshem Singh 3/4, Bikar S/o Shamsher 1/4 (118/1128), Shukhbir Kaur W/o Amrinder Singh, Tejinder Kaur W/o Prem Pal 25/1128, Tarshem Singh Ragubir Singh,
				323	Private	G.M. Factory	0-10	Janak Raj Gupta & Company, New Delhi
				328	Private	G.M. Factory	0-4	Janak Raj Gupta & Company, New Delhi
				563/547/329	Private	G.M.	0-3	Navdip Singh S/o Baldev Singh 81/800, Abishek Aggrawal S/o Kulbhushan singh 560/800, Harish Kumar S/o Mukand Lal and Hardiyal S/o Hukam Daas 21/266
				564/547/329	Private	G.M.	0-3	Sima W/o Sanjiv Kumar
				330	Private	G.M.	0-5	Belwinder Kaur W/o Baldev Singh
				548/329	Private	G.M.	0-10	Kabai Singh 40/508, Devi Singh 53/508, Telu Singh 45/308, Hukam Singh 15/308, Rumali, Jagir Singh, Jasbir Singh, Ramwati, Lajjo 15/308, Navdip Singh S/o Baldev Singh 470/6160, Harish Kumar S/o Madan Lal 21/366, Ashok Kumar S/o Ram chander 40/318

				332	Private	G.M.	0-2	Gurdit Singh, Hem Singh S/o Ajmat Singh 1/16, Rashmi W/o Mehar Singh S/o Sior Singh and Hukam Singh S/o Mehar Singh 1/16, Jadish Singh, Jasbir Singh Sons Ramwati and Lajjo Daughters Kehar Singh 327/19640, Garav, Sandeep Sons R.L. Agrwal 927/19640, Jabar Singh
				566/550/333	Private	G.M.	0-2	Navdip Singh S/o Baldev Singh 81/800, Abishek Aggrawal S/o Kulbhushan Singh 560/800, Harish Kumar S/o Mukand Lal and Hardiyal S/o Hukam Daas 21/266
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>0--2--16</b>	
			<b>8. Lehli H.B. No. 215</b>	461/375	Private	Chahi	2--1	Deep Singh S/o Surjan Singh 1/4, Gurmeh Kaur Wd Kaptan Singh S/o Raghubir Singh 5/24, Gurbachan S/o Sarupa 1/2
				376	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				377	Panchayat	G.M. Gurudwara Sahib	1--13	Nagar Panchayat (Gurudwara Sahib)
				378	G.M.	G.M. Road	0-1	Nagar Panchayat (Makbara Gurudwara Sahib)
				379	Rosali	Rosali	0-5	Nagar Panchayat
				382	Panchayat	G.M. Khatal	0-8	Nagar Panchayat
				385	Private	Rosali	0-11	Pawan Kuamr S/o Desh Raj 55/100, Krishna Devi W/o Labhu Ram 25/100, Vishal Goel S/o Baldev Krishan 20/100
				386	Private	Rosali	0-12	Pawan Kuamr S/o Desh Raj 55/100, Krishna Devi W/o Labhu Ram 25/100, Vishal Goel S/o Baldev Krishan 20/101
				389	Private	Chahi	0-10/1/2	Kamal Krishan Ram S/o Chadi Ram 1/2, Kamla Devi W/o Chandi Ram 1/2
				390	Private	Chahi	0-10/1/2	Kamal Kishor W/o Chadi Ram 1/2, Kamla Devi W/o Raghubir Singh 1/2
				392	Private	Rosali	0-10/1/2	Tarlok Singh 25/100, Devinder Singh 35/100, Satwant Singh 40/100 S/o Harbans Singh
				393	Private	Rosali	0-10/1/2	Tarlok Singh 25/100, Devinder Singh 35/100, Satwant Singh 40/100 S/o Harbans Singh
				398	Panchayat	G.M.	0-3	Nagar Panchayat (Makbara Peer Bawa)

				399	Private	Chahi	0-8	Balwinder Singh S/o Kartar Singh
				400	Private	G.M. Makan	0-9	Ram Singh S/o Nermal Singh
				403	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				404	Private	Mumkin Factory	0-10/1/2	M/s Steel Strips Wheels Pvt. Ltd.
				409	Private	Mumkin - Factory	0-10/1/2	M/s Steel Strips Wheels Pvt. Ltd.
				410	Private	Mumkin Factory	0-10/1/2	M/s Steel Strips Wheels Pvt. Ltd.
				413	Private	Mumkin Factory	0-10	M/s Steel Strips Wheels Pvt. Ltd.
				414	Panchayat	G.M.	0-10/1/2	Nagar Panchayat(G.Yard)
				417	Panchayat	G.M.	0-3	Nagar Panchayat
				418	Punjab Water Board	Mumkin Panchayat Deh	0-3	Nagar Panchayat
				419	Punjab Water Board	Mumkin Khatran	0-5	Nagar Panchayat
				420	Punjab Water Board	Mumkin Khatran	0-10/1/2	Nagar Panchayat
				421	Panchayat	Mumkin	0-10/1/2	Nagar Panchayat
				423	Panchayat	Mumkin	0-11	Nagar Panchayat
				424	Panchayat	Mumkin	0-11	Nagar Panchayat
				425	Panchayat	Mumkin	0-11	Nagar Panchayat
				426	Panchayat	Mumkin	0-4	Nagar Panchayat
				380	Panchayat	G.M. Khatal	1--19	Nagar Panchayat
				381	Panchayat	G.M. Khatal	0-7	Nagar Panchayat (Makbara Gurudwara Sahib)
							A-B-B	
						TOTAL	3--2--14	
			9. Gholumajra H.B. No. 209	204	Private	Rosali	0-11	M/s Champion Real Tour Pvt. Ltd
				242	Private	Rosali	0-10/1/2	Uma Shankar Khandetwal Foregion
				243	Private	Rosali	0-11	M/s Champion Real Tour Pvt. Ltd
				244	Private	Rosali	0-10	M/s Champion Real Tour Pvt. Ltd
				245	Private	G.M. Factory	0-11	Milk Specilise Ltd.
				246	Private	Rosali	0-10	Jai Ambe Steel Pvt. Ltd 66/116, Plastic Pvt. Ltd 50/116
				281	Private	G.M. Factory	0-11	Milk Specilise Ltd. 3/4, Jagjit Singh S/o Charan Singh 1/4
				1022/282	Private	Rosali	0-5	M/s Rocky Industries Pvt. Ltd.
				1023/282	Private	Chahi	0-6	Ram Kumar S/o Ram Pal
				283/1	Private	Chahi	0-1	Karmrinder Singh S/o Kebal Singh
				283/2	Private	Chahi	0-2	M/s Rocky Industries Pvt. Ltd.
				311	Punjab Govt.	G.M. Road	0-2	Punjab Govt. (PWD)
				312	Punjab Govt.	Rosali	0--0	Devinder Jeet singh S/o Hamam Singh, Tejpal Kuar W/o Devinder Jeet Singh

			313	Punjab Govt.	Rosali	0-16	Devinder Jeet Singh S/o Harnam Singh, Tejpal Kuar W/o Devinder Jeet Singh
			314	Private	G.M. Factory	0-11	H.S.K. Alayas Steel Ltd.
			1137/323/1	Private	G.M. Factory	0-5	P.D. Hidro Iron Pvt. Ltd.
			1138/323/2	Private	G.M. Factory	0-5	H.S.K. Alayas Steel Ltd.
			1139/324	Private	Rosali	0-4	Jasdev Singh S/o Mohinder Singh, Rajinder Kumar S/o Raj Krishan, Rajiv Goel S/o Shiv Ram
			1140/324	Private	Rosali	0---0	Kuldip Singh S/o Mohinder Singh, Rajinder Kumar S/o Raj Krishan, Deepak Ohri S/o Surinder Kumar
			325	Private	G.M. Factory	0-4	Priya Chemical Pvt. Ltd.
			935/326	Private	G.M. Factory	0-1	Priya Chemical Pvt. Ltd.
			1204/936/326	Private	Rosali	0-1	N.S. Pvt. Ltd.
			1205/936/326	Private	Rosali	0-6	Parkash Chand, Nihal Chand S/o Lal Chand
			1145/339	Private	G.M. Factory	0-2	S & S Industries Corporation Ltd.
			1146/339	Private	G.M. Factory	0-7	Milko Elstrote House Pvt. Ltd.
			1147-1148/340	Private	Rosali	0-8	Ajit Rai S/o Jagat Ram
			341	Private	Rosali	0-8	Hartar Singh S/o Vikaram Jeet Singh
			1155-56/352	Private	Rosali	0-8	Hartar Singh S/o Vikaram Jeet Singh
			350-351/353	Private	Rosali	0-2	Punjab Nitrate Pvt. Ltd.
			81	Private	Mumkin Factory	1--3	Crystal Pvt. Ltd.
			82	Private	Mumkin Factory	0--11	Crystal Pvt. Ltd.
			987/83	Private	Mumkin Factory	0-1	Banisijdiya S/o Lal Chand
			988/83	Private	Rosali	0-9	Crystal Pvt. Ltd 6/128, Tripta Gupta W/o Vijay Kumar 122/128
			989/84	Private	Rosali	0-2	Crystal Pvt. Ltd 6/128, Tripta Gupta W/o Vijay Kumar 122/129
			990/84/1	Private	Rosali	0-4	Chhotu Ram So Radha Ram 2/3, Sandip Ram S/o Chotu Ram 1/3
			990/84/2	Private	Rosali	0-2	Chhotu Ram So Radha Ram 2/3, Sandip Ram S/o Chotu Ram 1/3
			990/84/3	Private	Rosali	0-5	Namita Gill W/o Hitesh Kumar 2/3, Bhagirath Lal S/o Chotu Lal 1/3
			1109/1068/85	Private	Rosali	0-2	Batary Steels, Golumajra
			1110/1068/85	Private	Rosali	0-6	Mukesh Khandewal S/o Raj Nath
			1067/85	Private	Rosali	0-2	Instent Remeidies Pvt. Ltd.
			86	Private	Rosali	0-11	Kura Mal S/o Fakir Chand, Raj Rani W/o Sajan, Ram Bilas S/o Inder Sain
			1111/87	Private	Rosali	0-2	Kura Mal S/o Fakir Chand, Raj Rani W/o Sajan, Ram Bilas S/o Inder Sain

				1112/87	Private	Rosali	0-2	Amit Agarwal S/o Raja Singh, Khajanchi S/o Moti Ram
				1113/87	Private	Rosali	0-2	Amit Agarwal S/o Raja Singh, Khajanchi S/o Moti Ram
				1114/87	Private	Rosali	0-4	Kuldip Kaur W/o Mangal Dass
				88/1	Private	Rosali	0-1/2	Kuldip Kaur W/o Mangal Dass
				88/2	Private	Rosali	0-9/1/2	Manmohan Goel S/o Ghanya Lal
				88/3	Private	Rosali	0-1	Hamek Singh S/o Puran Singh, Deepak Kumar S/o Jagdish Rai 190/1204 Share, Motia Consturction Company Ltd. Zirakpur, Mohinder Singh S/o Hera Singh, Jaswinder Singh S/o Pretam Singh S/o Narinder Kumar S/o Anant Ram, Arjun S/o Balaki Ram
				89	Private	Rosali	0-17	Hamek Singh S/o Puran Singh, Deepak Kumar S/o Jagdish Rai 190/1204 Share, Motia Consturction Company Ltd. Zirakpur, Mohinder Singh S/o Hera Singh, Jaswinder Singh S/o Pretam Singh S/o Narinder Kumar S/o Anant Ram, Arjun S/o Balaki Ram
				90	Panchayat	Mumkin Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				91	Private	Rosali	0-3	Ratna Khandelwal W/o Mukesh Khandelwal
				1240/92	Private	Rosali	0-2	Mukesh Khandelwal S/o Raj Nath Singh
				1241/92	Private	Rosali	0-9	Reena Khandelwal W/o Parween Khandelwal
				93	Private	Rosali	0-11	Iqbal Singh S/o Gurbakh Singh 1/4, Bikrampal Singh S/o Iqbal Singh 3/4
				94	Private	Rosali	0-5	Iqbal Singh S/o Gurbakh Singh 1/4, Vikram Pal Singh S/o Iqbal Singh 3/4
				95	Private	Rosali	0-16	Ram Lal, Dev Raj S/o Babu Ram
				1178/96	Private	Rosali	0-1	Malwinder singh S/o Jagjit Singh
				1179/96	Private	Rosali	0-10	Vikram Pal Singh S/o Iqbal Singh 3/4, Jaspal Kaur W/o Iqbal Singh 1/4
				97	Private	Rosali	0-10	Santokh Singh S/o Jamel Singh 1/2, Makhan Singh, Kamel Singh S/o Baba Singh 1/2
				991/98	Private	Rosali	0-2	Santokh Singh S/o Jamel Singh 1/2, Makhan Singh, Kamel Singh S/o Baba Singh 1/2

				992/98	Private	Rosali	0-12	Prem Singh S/o Amir Singh 9/10, Manmohan Kohli S/o Kesar Singh 1/10
				99	Private	Rosali	0-11	B.N.S. Balia S/o Rajinder Singh
				100	Private	G.M.	1-6	Punjab Govt.(Police Staiton)
				101	Private	Rosali	0-6	B.N.S. Balia S/o Rajinder Singh
				102	Private	Rosali	0-2	B.N.S. Balia S/o Rajinder Singh
				103	Panchayat	G.M. Pahi	0-1	Nagar Panchayat
				104	Private	Rosali	0-6	Goel Iron Pvt. Ltd.
				993/105	Private	Rosali	0-1	Goel Iron Pvt. Ltd.
				994/105	Private	Rosali	0-7	Neelam Tiwari W/o Jadish Kumar
				106	Private	Rosali	0-5	Neelam Tiwari W/o Jadish Kumar
				109	Private	Rosali	0-6	Jagmohal Lal S/o Yaad Ram, Rachna S/o Shiwaia, Sarwan S/o Nathu Ram 1/3
				142	Private	G.M. Factory	0-11	S.P. Spring Pvt. Ltd.
				1115- 1116/143	Private	G.M. Factory	0-10	Umesh Jain S/o Umkar Jain, Krishan Lal S/o Jagan Lal , Harsha Sharma W/o Sunil Kumar
				144	Private	G.M. Factory	0-11	M/s Anesthetic Pvt. Ltd.
				171	Private	Rosali	0-11	Baljit Singh S/o Bachan Singh
				1129/172	Private	Rosali	0-1	Baljit Singh S/o Bachan Singh
				1130/172	Private	G.M.	0-10	M/s Pecks and Construction Pvt. Ltd.
				995-996/173	Private	G.M. Factory	0-12	Samrat Forein Pvt. Ltd
				202	Private	G.M. Factory	0-12	Samrat Forein Pvt. Ltd
				203	Private	Rosali	0-8	M/s Champion Real Tour Pvt. Ltd
							A-B-B	
						TOTAL	5--2-- 13/1/2	
			10. Isapur H.B. No. 208	726	Private	Rosali	0-1	M/s Alim Food Processing Company Ltd.
				1233/728	Private	Rosali	0-6	M/s Alim Food Processing Company Ltd.
				1234/728	Private	G.M. Factory	0-5	Rajan Kansal S/o Rameshwar Das Kansal
				1173/729	Private	Rosali	0-2	Rajan Kansal S/o Rameshwar Das Kansal
				1235/1174/7 29	Private	G.M. Factory	0-3	Komal Optical Pvt. Ltd.
				1236/1174/7 29	Private	G.M. Factory	0-5	Ghggan Kansal S/o Rameshwar Das Kansal



				731	Private	Rosali	0-9	Pritam Singh, Gurmukh Singh, Sardara Singh, Baldev Singh S/o Hajura Singh 1/12, Amarjit Singh S/o Nirmal Singh 5/48, Lashkar Singh S/o Mehma Singh 5/48, Dharm Singh S/o Najar Singh 5/48, M/s A.D.H. Polyeath Pvt. Ltd. 1/4, Pardiman Singh S/o Gian Singh 5/
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>0--1--11</b>	
			<b>11. Bermazra H.B. No. 28</b>	622	Private	Ger Mumkin	0-6	S.S. Exons
				624	Private	Ger Mumkin	0-8	S.S.Exons. 1/2, Soni Builders Electorijj Pvt. Ltd 1/2
				1002/997/62 5	Private	Ger Mumkin	0-1	M/s Aggressive Pvt. Ltd
				1003/997/62 5	Private	Barani	0--0	Bhariti Industrial Corporation Ltd 1/4
				1004/997/62 5	Private	Barani	0-7	Smt. Indi W/o Genda Ram 3/8, Mahi rani Kaur W/o Garib Das 2/5, Anil Kumr S/o Garib Das 1/8, Kanta Rani Wd/o Gotam Son Aditi and Anita D/o Arun Kumar, 1/10 Share
				1006/999/62 6	Private	Barani	0-1/1/2	Smt. Indi W/o Genda Ram 3/8, Mahi rani Kaur W/o Garib Das 2/5, Anil Kumr S/o Garib Das 1/8, Kanta Rani Wd/o Gotam Son Aditi and Anita D/o Arun Kumar, 1/10 Share
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>0--1--3/1/2</b>	
			<b>12. Dapper H.B. No. 20</b>	1077/367	Private	G.M.	0---2	Shila W/o Ram Nath
				1078/367	Private	G.M.	0----0	Shila W/o Ram Nath
				1210/1080/3 67	Private	G.M.	0----1	Aditi D/o Arun Kumar
				1081/367	Govt.	G.M. Road	0----0	Central Govt. (Military)
				1082/369	Govt.	G.M. Road	0----0	Central Govt. (Military)
				1083/369	Private	G.M. Shop	0---2	Matu Ram, Narata, Diela S/o Hari Ram 3/5, Laxman Singh S/o Atma 38/400, Parmeh Kumar S/o Kali Das 16/400, Pawan Kumar S/o Genda Ram 53/400, Mehar S/o Bant S/o Sant Ram 53/400.
				1211/1088/1 084/369	Private	G.M.	0---0	Mamraj S/o Atma Ram, Jai Ram S/o Natku
				1309/1088/1 084/369	Private	G.M.	0---0	Ram Bihari S/o Ram Bhawan

				1310/1088/1 084/369	Private	G.M. Shop	0-----1/2	Surinder, Rajinder S/o Ram Sarup
				1311/370	Private	G.M. Shop	0-----2	Kiranpal S/o Balbir Singh S/o Gurmukh Singh 2/20, Ghansham Das S/o Kishan Das-Mohan Lal S/o Manohar Lal 1/20, Maharani M/o Kanta Rani Wd/o Aditipal, Ankita D/o Arun Kumar 1/2, Jatinder Kumar S/o Phul Chand 1/30, Phul Chand S/o Jinghru 1/30, Maharani Wd/o
				1312/370	Private	G.M. Shop	0-----0	Maharani Wd/o Garib Das, Surinder, Nidhipal, Harmohan S/o Anil Kumar
				1313/370	Private	G.M. Shop	0-----0	Desh Raj, Ajeb Singh S/o Aatma Ram
				371	Panchayat	G.M. Shop	0-----2	Nagar Panchayat
				372	Private	G.M. Shop	0-----2	Bhagwanti Wd/o Shiv Diyal 44, Charan S/o Kapoor 5, Narata Ram S/o Sawak Ram 24, Total 73 Share.
				373	Private	G.M. Shop	0-----2	Bhagwanti Wd/o Shiv Diyal 44, Charan S/o Kapoor 5, Narata Ram S/o Sawak Ram 24, Total 73 share.
				374	Private	Barani	0-----2	Bhagwanti Wd/o Shiv Diyal 44, Charan S/o Kapoor 5, Narata Ram S/o Sawak Ram 24, Total 73 share.
				374/1	Private	Barani	0-----0	Bhagwanti Wd/o Shiv Diyal 44, Charan S/o Kapoor 5, Narata Ram S/o Sawak Ram 24, Total 73 Share.
				1213/375	Private	G.M. Plot	0-----2	Jaswinder S/o Chiranji Lal 3/8, Raj, Rampal S/o Panni Lal 3/8, Joginder Kaur W/o Joginder Singh 2/8 Share.
				1216/375	Private	G.M. Plot	0-----1	Ramesh, Lal Chand, Raj Kumar, Pawan Kumar, Satish, Subhash S/o Sadhu Ram
				1217/375	Private	G.M. Plot	0-----1	Jonardhan Parshad S/o Jatti Ram 1/3, Suami Bagwanta Nanda Chela Bishnu Dev 2/3
				376	Private	Barani	2-----4	Gurdev Singh, Hakam Singh, Jamel Singh, Chand Singh, Ajmer Singh, Baldev Singh S/o Baru Ram 166/295, Rohit S/o Viajy, Sima W/o Vijay 80/295
				377	Private	Barani	2-----9	Kiranpal S/o Ran Singh, Ram Kumar S/o Ajmer 49/295
				1400/378	Private	Barani	1-----0	Saroj W/o Panni Ram, Pawan Kumar S/o Satpal
				1401/378	Private	Barani	1-----0	Valabh Jain S/o V.K. Jain, Rashmi Jain W/o Lalit Mohan

				1402/378	Private	Barani	3-----18	Karam S/o Kapoor 1/3, Amar S/o Kapoor 2/3
				379	Private	Barani	3-----4	Balwant Singh S/o Faggu 1/6, Puran Kaur W/o Balwant Singh 1/6, Surinder Kaur Wd/o Ajmer 1/27, Jagjit Singh S/o Jasmer Singh 2/27, Samsher Singh, Hanek Singh, Hakam Singh S/o Balwant Singh 3/9, Labh Singh S/o Balwant Singh 1/12, Prem Kaur W/o Labh Singh 1/2
				380	Private	Barani	2-----2	
				381	Private	Barani	1-----4	Maninder singh S/o Baljinder Kaur D/o Sucha 1/4, Rattan, Jasmer, Prem, Gurdev Kaur, Gurmeh Kaur S/o Pritam 1/4, Paramjit Singh S/o Pridhi 1/4, Umesh Chander S/o Sham Lal 1/4
				382	Private	Barani	0-----13/1/2	Narinder Singh S/o Malkit
				383	Private	Barani	0-----11	Singh 83/191, Smt. Uma
				384	Private	G.M. Chah Ger Jari	0-----5	Chah Awnoshi Dappar
				1358/384/1	Private	Barani	0-----1/2	Bharat Industrial, Harinder Singh, Balwinder S/o Mohan 1/2, Tejinder, Jatinder S/o Ujagar 1/2
				1357/384/1	Private	Barani	0-----19	Maharani Wd/o Garib Das 9/40, Surinder Kaur Wd/o Nidhipal, Harmohan Pal S/o Anil Kumar 3/8, Kantarani Wd/o Aditi Pat, Ankita Gotam S/o Arun Kumar 2/5
				1222/386	Private	Barani	0-----8	Jangir Singh S/o Ganga Ram
				1223/386	Private	Barani	0-----4	Jarnail Kaur W/o Jagir
				388	Private	Barani	0-----1/2	Jagir Singh S/o Ganga Ram
				412	Private	Barani	0-----9	Jagir Singh S/o Ganga Ram
				413	Private	Barani	0-----10/1/2	Karam S/o Kapoor 1/3, Amar S/o Kapoor 2/3
				427	Private	Chahi	0-----5	Gurpal Singh S/o Uttam Singh
				428	Private	Chahi	0-----12	Gurpal Singh S/o Uttam Singh
				429	Private	Barani	0-----15	Hakam Singh, Ajit Singh, Jasbir Singh S/o Kamel Singh
				443	Private	Chahi	0-----11	Deplastic Plastic Ltd.
				444	Private	Barani	0-----4	Dimond Plastic
				980/445	Private	Barani	0-----6	Ashok, Vinay S/o Piyare Lal
				981/445	Private	Barani	1-----4	M/s Dhanroj Global Ltd.
				447	Private	Barani	0-----5	M/s Dhanroj Global Ltd.
				466	Private	Barani	1-----7	Balwant Singh S/o Faggu
				467	Private	Barani	0-----8	1/6, Puran Kaur W/o Balwant

				468	Private	Barani	4-----8	Singh 1/6, Surinder Kaur Wd/o Ajmer 1/27, Jagjit Singh S/o Jasmer Singh 2/27, Samsher Singh, Harnek Singh, Hakam Singh S/o Balwant Singh 3/9, Labh Singh S/o Balwant Singh 1/12, Prem Kaur W/o Labh Singh 1/
				469	Panchayat	G.M.	0-----11	Nagar Panchayat
				470	Private	Barani	0-----5	Penta Homes Pvt. Ltd.
				471	Private	Barani	0-----6	Penta Homes Pvt. Ltd.
				472	Private	Barani	2-----0	Penta Homes Pvt. Ltd.
				473	Private	Barani	1-----4	Penta Homes Pvt. Ltd.
				1413/488	Private	Barani	0-----13	Penta Homes Pvt. Ltd.
				1414/488	Private	Barani	1-----3	Sanjay Kumar S/o Shiv Diyal, Anil Kumar S/o Arjun Das, Rajiv Kumar S/o Vasudev
				489	Private	Barani	1-----6	Sant Singh S/o Inder Singh
				490	Private	Barani	0-----1/1/2	Deepak Pipe India Ltd.
				507	Private	Barani	0-----1	Sant Kaur W/o Ran Singh, Manprit Kaur W/o Udham, Rina Sen W/o Anil Kumar W/o Somati, Jai Singh, Gurmit Kaur W/o Ashwani Kumar
				507/1	Private	Barani	0-----2	
				1330/1237/1	Private	G.M.	0-----1/2	Dev Raj S/o Genda Ram
				148/508				
				1149/508	Private	G.M.	0-----0	Narinder Kumar S/o Girja
				514	Private	Chahi	0-----2	Sunil Kumar S/o Panni Lal 1/8, Pankaj Kumar, Gaurav S/o Mam Chand 1/8, Brij Lal S/o Baba Chand 1/4, Sukhdev S/o Bab Chand 1/4, Savita Devi, Pawan Kumar, Anil Kumar, Ashok Kumar S/o Sham Lal 1/4
				514/1	Panchayat	G.M.	0-----1	Nagar Panchayat
				515	Panchayat	G.M.	0-----2	Nagar Panchayat
				518	Govt.	G.M. Road	0-----0	Punjab Govt. (PWD)
				519	Panchayat	G.M. Shop	0-----2	Nagar Panchayat
				523/1/2	Private	G.M. Shop	0-----1	Shamsher, Labh, Harnek, Ravinder Singh S/o Balwant Singh
				1085/524	Private	G.M.	0-----0	Champa Devi Wd/o Ram Murti 1/2, Anil Kumar S/o Prem Chand 1/4, Suresh Kumar Wd/o Akksu S/o Anil Kumar 1/4

				1231/1086/5 24	Private	G.M.	0—1/1/2	Paro Devi W/o Vasdev 20/1420, Pawan Kumar S/o Dev Raj 46/1420, Nachhro Devi M/o Lila Devi Wd/ Manisha Devi D/o Satish Kumar S/o Kishori Lal 9/1420, Nika Ram S/o Babu Ram 40/1420, Rajinder Kumar S/o Somnath 60/1420, Sham Lal S/o Dashodi Ram 50/1420, Anil
				983/525	Private	Barani	0—2	Ved Kumari D/o Deep Chand 21/67, Maharani Wd/o Garib Das, Kanta Rani, Aditi, Ankita S/o Arun Kumar 17/67, Maharani W/o Garib Das 25/1340, Kuldeep S/o Naranjan 75/1340, Nand S/o Lagnu 5/67, Narinder Pal S/o Girja kumar 1/67, Ganga S/o Ranjit 4/67, Raj Kumar
				1340/892	Private	Chahi	0—1	Randhir S/o Surat Singh
				1341/892	Private	G.M. Factory	0—1	Mohinder Kumar S/o Balmukand
				893	Private	Chahi	0—1	Sunil Kumar S/o Panni Lal 1/8, Pankaj Kumar, Gaurav S/o Mam Chand 1/8, Brij Lal S/o Baba Chand 1/4, Sukhdev S/o Bab Chand 1/4, Savita Devi, Pawan Kumar, Anil Kumar, Ashok Kumar S/o Sham Lal 1/4
				897	Private	Chahi	0—2	Teja Singh S/o Kartar Singh 5/36, Tej Kaur, Jang, Jaitan Singh, Sahab, Balwinder, Jaswinder kaur S/o Chanan 5/36, Lakhwinder, Jagtar, Rajinder S/o Nasib 5/36, Sarban S/o Hamir 1/4, Jaspal, Tara S/o Sarban 1/12, Angrej Kaur M/o Gurwinder S/o Smt. Amarjit
				898	Private	Chahi	0—1	Teja Singh S/o Kartar Singh 5/36, Tej Kaur, Jang, Jaitan Singh, Sahab, Balwinder, Jaswinder kaur S/o Chanan 5/36, Lakhwinder, Jagtar, Rajinder S/o Nasib 5/36, Sarban S/o Hamir 1/4, Jaspal, Tara S/o Sarban 1/12, Angrej Kaur M/o Gurwinder S/o Smt. Amarjit
				899	Private	Chahi	0—1	Raghubir Singh S/o Pritam Singh
				912	Private	Chahi	0—1	Nasib, Prem S/o Arjun

[illegible]

				13/7	Private	Barani	0—10	Priya Chemical & Fertilizers Five star Plastic
				14	Private	Barani	0—10	Amrik Singh, Balwinder Singh S/o Santokh Singh 1/4, Sobha Singh, Balwant Singh S/o Babu Singh 1/3, Pritam Singh S/o Babu Singh 1/12, Joginder Singh S/o Issar Singh 1/12
				15	Private	Barani	0—9	M/s Mini Enterprises Pvt. Ltd.
				16/1	Private	Barani	0—6	M/s Mini Enterprises Pvt. Ltd.
				16/2	Private	Barani	0—9	Atma Singh, Pritam Singh, Karnel Singh, Chamjit Singh S/o Naranjan Singh 1120/2161, Ajay Kumar, Anoop Kumar, Raman Kumar S/o Rupinder Pal 60/2161, Anoop Kumar, Rajiv Kumar, Chanderkanta W/o Dinesh Kumar 60/2161, Chanderkanta W/o Dinesh Kumar 61/2161, Raj
				17	Private	Barani	0—1	Amrik Singh, Balwinder Singh S/o Santokh Singh 1/4, Sobha Singh, Balwant Singh S/o Babu Singh 1/3, Pritam Singh S/o Babu Singh 1/12, Joginder Singh S/o Issar Singh 1/12
				25/2	Panchayat	Banjar Kadim	0—1	Nagar Panchayat
				25/1/2	Private	Barani	0—5	R.K. Garg S/o Sh. Hans Raj Garg 1/3, Gunmala W/o Bhupinder Kumar, Chanderkanta W/o Raj Kumar, Raj Rani W/o Anoop Kumar 2/3
				25/1/1	Private	Barani	0—5	Amrik Singh, Balwinder Singh S/o Santokh Singh 1/4, Sobha Singh, Balwant Singh S/o Babu Singh 1/3, Pritam Singh S/o Babu Singh 1/12, Joginder Singh S/o Issar Singh 1/12
				23/4	Private	Barani	0—10	R.K. Garg & Sons S/o Hansraj Garg 1/3, Gunmala Kaur W/o Bhupinder Kumar, Chander Kanta W/o Dinesh Kumar S/o Anoop Kumar 2/3
				7	Private	Barani	0—10	R.K. Garg & Sons S/o Hansraj Garg 1/3, Gunmala Kaur W/o Bhupinder Kumar, Chander Kanta W/o Dinesh Kumar S/o Anoop Kumar 2/3

				15/1	Private	Barani	0-----7	R. K. Garg & Sons S/o Hansraj Garg 1/3, Gurnaik Kaur W/o Bhupinder Kumar, Chander Kanta W/o Dinesh Kumar S/o Anoop Kumar 2/3
				15/2	Private	Barani	0-----3	Oriental Anlise Pvt. Ltd
				16/1	Private	Barani	0-----4	Suriya Fabrical Pvt. Ltd.
				16/2	Private	Barani	0-----1/1/2	Oriental Anlise Pvt. Ltd
				16/3	Private	Barani	0-----4	Bhupinder Singh S/o Jai Ram 10/512, Sukhjinder Singh, Jasdev Singh S/o Bhupinder Singh 80/512, Mahinder Singh S/o Lekhu 261/512, Raj Kumar S/o Piyara Lal 161/512
				25	Private	Barani	0-----10	Bhupinder Singh S/o Jai Ram 10/512, Sukhjinder Singh, Jasdev Singh S/o Bhupinder Singh 80/512, Mahinder Singh S/o Lekhu 261/512, Raj Kumar S/o Piyara Lal 161/513
				24//1	Private	Chahi	0-----10	Anu Mahajan D/o Trilok Mahajan
				24//10	Private	Chahi	0-----10	Jagjit Singh S/o Natha Singh
				11	Private	Chahi	0-----10	Jagjit Singh S/o Natha Singh
				20	Private	Chahi	0-----10	Jagjit Singh S/o Natha Singh
				21	Private	Chahi	0-----10	Amrik Kumar S/o Vidhya Sagar 1/2, Manoj Kumar S/o Surat Rai 1/2
				25//1	Private	Chahi	0-----10	Amrik Kumar S/o Vidhya Sagar 1/2, Manoj Kumar S/o Surat Rai 1/2
				10	Private	G.M. Factory	0-----10	Bachitar Lal Private Ltd.
				11	Private	Barani	0-----10	Partap Kaur W/o Narinder Singh, Manpal Singh, Tejinder Pal Singh, Devinderpal Singh S/o Lal Singh
				20	Private	Barani	0-----10	Partap Kaur W/o Narinder Singh, Manpal Singh, Tejinder Pal Singh, Devinderpal Singh S/o Lal Singh
				21	Private	Barani	0-----10	Partap Kaur W/o Narinder Singh, Manpal Singh, Tejinder Pal Singh, Devinderpal Singh S/o Lal Singh
				26//5/1	Private	Barani	0-----5	Bhupinder Singh S/o Jai Ram 10/512, Sukhjinder Singh, Jasdev Singh S/o Bhupinder Singh 80/512, Mahinder Singh S/o Lekhu 261/512, Raj Kumar S/o Piyara Lal 161/513



				26/5/2	Private	Chahi	0—5	Surjit Kaur W/o Gurjinder Singh, Jaswinder Singh S/o Karam Singh S/o Gurbaksh Singh 1/4, Gurnam Singh, Haminder Singh, Davinder Singh S/o Gurbaksh Singh 3/4
				6	Private	Chahi	0—10	Surjit Kaur W/o Gurjinder Singh, Jaswinder Singh S/o Karam Singh S/o Gurbaksh Singh 1/4, Gurnam Singh, Haminder Singh, Davinder Singh S/o Gurbaksh Singh 3/4
				15/1	Private	Chahi	0—2	Surjit Kaur W/o Gurjinder Singh, Jaswinder Singh S/o Karam Singh S/o Gurbaksh Singh 1/4, Gurnam Singh, Haminder Singh, Davinder Singh S/o Gurbaksh Singh 3/4
				15/2	Private	Chahi	0—9	Ikbal Singh S/o Gurbaksh Singh, Bikrampal Singh S/o Ikbal Singh
				16	Private	Chahi	0—7	Ikbal Singh S/o Gurbaksh Singh, Bikrampal Singh S/o Ikbal Singh
				25/1	Private	Chahi	0—7	Ikbal Singh S/o Gurbaksh Singh, Bikrampal Singh S/o Ikbal Singh
				25/2	Private	Barani	0—3	Avtar Singh & Sons
				36/5	Private	Barani	0—10	Avtar Singh & Sons
				36/6	Private	Barani	0—10	Avtar Singh & Sons
				15	Private	Chahi	0—10	Gurcharan Singh, Kaku Singh, Gurpreet Singh S/o Surjan Singh
				16	Private	Chahi	0—10	Gurcharan Singh, Kaku Singh, Gurpreet Singh S/o Surjan Singh
				25/2/1	Private	Barani	0—4	Manmohan Singh s/o Bahwant Singh
				25/2/2	Private	Barani	0—1	Mahima Singh S/o Nand Singh
				21/1	Private	Barani	0—5	Gurcharan Singh, Kaku Singh, Gurpreet Singh S/o Surjan Singh
				21/2	Private	Barani	0—1	Mahima Singh S/o Nand Singh
				37/1	Private	Chahi	0—10	Partap Kaur W/o Narinder Singh, Manpal Singh, Tejinder Pal Singh, Devinderpal Singh S/o Lal Singh
				37/9/2	Private	Barani	0—10	Rajesh Kumar S/o Satpal 0-4, Shamla W/o Kirpal 0-6
				12	Private	Chahi	0—10	Mahima Singh S/o Nand Singh
				19	Private	Barani	0—10	Kuldip Singh S/o Aatma Singh, Manjit Kaur W/o Kuldip Singh
				22/1	Private	Barani	0—2	Kuldip Singh S/o Aatma Singh, Manjit Kaur W/o Kuldip Singh

				22/2	Private	Barani	0-----7	Kuldip Singh S/o Aatma Singh, Manjit Kaur W/o Kuldip Singh
				22/3	Panchayat	G.M. Pahi	0-----1	Nagar Panchayat
				40//1	Private	Barani	0-----9	Mahima Singh S/o Nand Singh
				40//2	Private	Barani	0-----10	Karnel Singh S/o Gurbaksh Singh
				9/1	Private	Barani	0-----5	Hindustan Electronics Janetpur
				40//9/2	Private	Barani	0-----5	Sunny Well Technology Pvt. Ltd.
				10/1	Private	Barani	0-----2	Parveen Kumar S/o Gobind Ram
				10/2/1	Private	Barani	0-----8	Mehma Singh S/o Nand Singh
				10/2/2	Private	Barani		Parveen Kumar S/o Gobind Ram
				11	Private	Barani	0-----10	Ved Parkash S/o Ram Sarup
				12	Private	G.M. Factory	0-----10	Sunny Well Technology Pvt. Ltd.
				40//19	Private	Chahi	0-----10	Karnel Kaur W/o Bhajan Singh 1400/2020, Inderjeet Singh S/o Bhajan Singh 400/2020, Bhajan Singh and Sajan 200/2020
				20	Private	Chahi	0-----10	Rajesh kumar S/o Ved Parkash 113/422, Poonam Rani W/o Ved Parkash 42/422, Kamlesh Rani W/o Pawan Kumar S/o Ravinder Parkash 89/422, Rajinder Parkash, Ved Parkash S/o Ram Parkash 101/422, Salamdin S/o Mehndi Hasan 72/422
				21	Private	Chahi	0-----10	Rajesh kumar S/o Ved Parkash 113/422, Poonam Rani W/o Ved Parkash 42/422, Kamlesh Rani W/o Pawan Kumar S/o Ravinder Parkash 89/422, Maninder Parkash, Ved Parkash S/o Ram Parkash 101/422, Salamdin S/o Mehndi Hasan 72/422
				41//5/2	Private	Barani	0-----1	Mahima Singh S/o Nand Singh
				44//1	Private	Barani	0-----7	Rajesh kumar S/o Ved Parkash 113/422, Poonam Rani W/o Ved Parkash 42/422, Kamlesh Rani W/o Pawan Kumar S/o Ravinder Parkash 89/422, Maninder Parkash, Ved Parkash S/o Ram Parkash 101/422, Salamdin S/o Mehndi Hasan 72/422
				2	Private	Barani	0-----7	Karnel Kaur W/o Bhajan Singh 1400/2020, Inderjeet Singh S/o Bhajan Singh 400/2020, Bhajan Singh and Sajan 200/2020
				57	Panchayat	G.M	0-----3	Nagar Panchayat

				22	Private	Chahi	0—10	Gurjit Singh S/o Mohinder Singh
							A—B—B	
						TOTAL	5—1—18/1/2	
			14. Devinagar H.B. No. 18	2/11/2	Private	Chahi		Ramparkash, Nasib Singh, Bhag Singh S/o Joginder Singh 3210, Gurnam Singh, Gurja Singh, Jamel Singh, Sarup Singh S/o Bakhtor Singh 1486, Pritam Singh S/o Uttam Singh 876, Swami Builders and Construction Company 4090 (Total 10620)
				12	Private	Chahi	0—5	Sohan Singh, Gurmeh Singh, Harchand Singh S/o Ranjit Singh
				18/1/1	Private	Chahi	0—3	Harprit Pal Singh S/o Pritam Singh, Harinder Pal Singh S/o Gurbakhsh Singh
				18/1/2	Private	Chahi	0—8	Devinder Singh S/o Baldev Singh
				18/1	Private	Chahi	0—1	Devinder Singh S/o Baldev Singh
				20	Private	Chahi	0—14	Sohan Singh, Gurmeh Singh, Harchand Singh S/o Ranjit Singh
				21/1	Private	Chahi	0—3	Darshan Lal S/o Jai Diyal, Bisambar Lal S/o Milkhi Ram, Baldev Singh S/o Narata Ram
				21/2	Govt.	G.M. River	0—5	Punjab Govt.
				21/3	Private	Chahi	0—3	Darshan Lal S/o Jai Diyal, Bisambar Lal S/o Milkhi Ram, Baldev Singh S/o Narata Ram
				22/1/1	Govt.	G.M.	0—1	Punjab Govt.
				22/1/2	Govt.	Chahi	0—6	Devinder Pal Singh S/o Baldev Singh
				22/2/1	Govt.	Mumkin	0—3	Punjab Raj Elect. Board
				22/2/2	Govt.	G.M. River	0—2/1/2	Punjab Govt.
				6/5/1	Private	Chahi	0—6	Darshan Lal S/o Jai Diyal, Bisambar Lal S/o Milkhi Ram, Baldev Singh S/o Narata Ram
				5/2	Private	Chahi	0—7	Mehar Singh, Baldev Singh, Kehar Singh, Kulwant Singh S/o Darshan Lal 1/6, Lajo, Prito Devi D/o Munshi 1/3, Pritam Singh, Desh Raj, Gurbir Singh S/o Ram Jas 1/2

				13/2	Private	Chahi	—	Mahinder Singh S/o Sunder Singh, Manjit Kaur W/o Surinder Singh, Inderjit Singh S/o Kartar Singh, Surinder Kaur W/o Inderjit Singh
				14/1	Private	Chahi	0—3	Sarbati Devi Wd/o Narinder Singh, Narinder Singh S/o Babu Singh 53, Baryam Singh 53, Barkha Ram 112, S/o Kawal Singh, Ram Singh, Giyan Singh S/o Dalip Singh 30, Gurbash Singh, Ratan Singh S/o Chamjit Singh 392, Ashwinder Singh S/o Sawaran Singh, Simran Kaur
				14/2	Private	Chahi	0—8	Mahinder Singh S/o Sunder Singh, Manjit Kaur W/o Surinder Singh, Inderjit Singh S/o Kartar Singh, Surinder Kaur W/o Inderjit Singh
				17	Private	Chahi	0—10	Dalbir Singh S/o Gurbachan Singh, Pushpinder Singh S/o Balbir Singh
				18/1/1	Private	Chahi	0—3	Harinder Pal Singh S/o Gurbaksh Singh
				18/1/2	Private	Chahi	0—4	Jaswant Singh S/o Pal Singh, Aslam Khan S/o Juma Khan 1/2, Nidhi Narula W/o Naresh Narula 1/2
				18/2	Private	Chahi	0—4	Jaswant Singh S/o Pal Singh, Aslam Khan S/o Juma Khan 1/2, Nidhi Narula W/o Naresh Narula 1/2
				6/18/3/1	Private	Chahi	0—0	Harinder Pal Singh S/o Gurbaksh Singh
				18/3/2	Private	Chahi	0—0	Jaswant Singh S/o Pal Singh, Aslam Khan S/o Juma Khan 1/2, Nidhi Narula W/o Naresh Narula 1/2
				22	Private	Chahi	0—5	Pardeep Kumar, Sandeep Kumar, Mandip Kumar S/o Gurmukh Singh 461/6461, Kuldip Singh, Balwinder Singh S/o Surmukh Singh 462/6461
				24/1	Private	Chahi	0—12	Sarindra Filing Station Devingar
				6/16/1	Private	Chahi	0—6	Smt. Sarbati Devi Wd/o Garib Dass and Others.

				15	Private	Chahi	0-----12	Sarbati Devi Wd/o Mahinder Singh, Narinder Singh S/o Babu Singh 53, Baryam Singh 53, Barkha Ram 112, S/o Kawal Singh, Ram Singh, Giyan Singh S/o Dalip Singh 30, Gurbash Singh, Ratan Singh S/o Chamjit Singh 392, Ashwinder Singh S/o Sawaran Singh, Simran Kumar
				16	Private	Chahi	0-----1	Sarbati Devi Wd/o Mahinder Singh, Narinder Singh S/o Babu Singh 53, Baryam Singh 53, Barkha Ram 112, S/o Kawal Singh, Ram Singh, Giyan Singh S/o Dalip Singh 30, Gurbash Singh, Ratan Singh S/o Chamjit Singh 392, Ashwinder Singh S/o Sawaran Singh, Simran Kumar
				7	Private	Chahi	0-----14	Mehar Singh, Baldev Singh, Kehar Singh, Kulwant Singh S/o Darshan Lal 1/6, Lajo, Prito Devi D/o Munshi 1/3, <del>Pritam Singh</del> Desh Raj, Gurbir Singh S/o Ram Jas 1/2
				7/1	Private	Chahi	0-----12	Sarbati Devi Wd/o Mahinder Singh, Harminder Singh S/o Babu Singh 53, Baryam Singh 53, Barkha Ram 112, S/o Kawal Singh, Ram Singh, Giyan Singh S/o Dalip Singh 30, Gurbash Singh, Ratan Singh S/o Chamjit Singh 392, Ashwinder Singh S/o Sawaran Singh, Simran
				10	Private	Chahi	0-----3	Sarbati Devi Wd/o Mahinder Singh, Harminder Singh S/o Babu Singh 53, Baryam Singh 53, Barkha Ram 112, S/o Kawal Singh, Ram Singh, Giyan Singh S/o Dalip Singh 30, Gurbash Singh, Ratan Singh S/o Chamjit Singh 392, Ashwinder Singh S/o Sawaran Singh, Simran
				13/2/1	Private	Chahi	0-----2/1/2	Pardeep Kumar, Sandeep Kumar, Mandip Kumar S/o Gurmukh Singh 461/6461, Kuldip Singh, Balwinder Singh S/o Surmukh Singh 462/6461
				2/2	Private	Barani	0-----8/1/2	Krishan Gopal S/o Chotu Ram

				10/1	Private	Chahi	0-----2/1/2	Hari Krishan Gopal S/o Chhotu Ram 1/4, Prem Kaur Wd/o Ragubir Singh, Karpal Singh S/o Mehar Singh 1/2, Smt. Namita Aggarwal W/o Rakesh Kumar 1/4
				10/2	Private	Chahi	0-----5/1/2	Hari Krishan Gopal S/o Chhotu Ram 1/4, Prem Kaur Wd/o Ragubir Singh, Karpal Singh S/o Mehar Singh 1/2, Smt. Namita Aggarwal W/o Rakesh Kumar 1/4
				10/3	Private	G.M.	0-----3/1/2	Niraj Bajaj S/o Chung Lal, Smt. Deepa W/o Niraj Bajaj, Krishan Lal S/o Chung Lal, Smt. Ritu Bajaj W/o Krishan Bajaj
				13/11/1	Private	G.M. Factory	0-----11	Niraj Bajaj S/o Chung Lal, Smt. Deepa W/o Niraj Bajaj, Krishan Lal S/o Chung Lal, Smt. Ritu Bajaj W/o Krishan Bajaj
				11/2	Private	G.M. Factory	0-----8	Niraj Bajaj S/o Chung Lal, Smt. Deepa W/o Niraj Bajaj, Krishan Lal S/o Chung Lal, Smt. Ritu Bajaj W/o Krishan Bajaj
				13/3/1	Private	Barani	0-----3/1/2	Sarindra Filing Station Devingar
				3/2	Private	Chahi	0-----3	Mehar Singh, Baldev Singh, Kehar Singh, Kulwant Singh S/o Darshan Lal 1/6, Lajo, Prito Devi D/o Munshi 1/3, Pritam Singh, Desh Raj, Gurbir Singh S/o Ram Das 1/2
				3/3	Private	Chahi	0-----4/1/2	Jagir Singh S/o Bhagat Singh
				8/1	Private	Chahi	0-----1	Jagir Singh S/o Bhagat Singh
				8/2	Private	Chahi	0-----6	Jagir Singh S/o Bhagat Singh
				8/3	Private	Chahi	0-----4	B.L. Electricals Pvt. Ltd
				12/1	Private	G.M. Factory	0-----6	Drinks Poly Production Ltd.
				12/2	Private	G.M. Factory	0-----5	Deep Tube Drill Pvt. Ltd.
				19/2	Private	Chahi	0-----11	Mahinder Singh, Rajinder Singh S/o Chaman Singh 1/2, Hansa S/o Bhagwan 1/2
				21/1	Private	Chahi	0-----6	Gurwinder Singh, Pavitar singh S/o Amar Singh
				21/2	Private	Chahi	0-----2	Pushpa Devi W/o Suresh Chand, Vasudara Jain W/o Sanjiv Jain, Mamta Jain W/o Parmod Jain
				14/16	Private	G.M. Factory	0-----7	Jagir Singh S/o Bhagat Singh
				25/1	Private	Chahi	0-----2	Sarup Singh S/o Ranjit Singh

				25/2/1	Private	Barani	0—1/2	Sarup Singh S/o Ranjit Singh 1/2, Bakhsis Singh S/o Balwant Singh 1/8, Rulda Singh, Kuldeep Singh, Balwant Singh 1/8, Kartar Kaur W/o Hardiyal Singh 1/4
				25/2/2	Private	Barani	0—8/1/2	Kirpal Singh S/o Tulsia Singh 1/3, Darshan Electronics Pvt. Ltd 2/3
				15/5/1	Private	Barani	0—6	Dalip Singh S/o Karam Singh 1/4, Avtar Singh S/o Dalip Singh 1/4, Bhagwant Kaur W/o Dalip Singh 1/4, Jaspal Singh S/o Dalip Singh 1/4
				5/2	Private	Barani	0—4	Sarabjit Singh S/o Bhagwant Singh 38/118, Parminder Singh, Mahinder Singh, Manpreet Kaur W/o Parminder Singh 80/118
				6	Private	Barani	0—10	Koshlia Devi W/o Raj Kumar 1/2, Raj Kumar, Raman Kumar S/o Krishan Kumar 1/2
				15/7	Private	Barani	0—10	Sarabjit Singh S/o Bhagwant Singh 38/118, Parminder Singh, Mahinder Singh, Manpreet Kaur W/o Parminder Singh 80/118
				14/1	Private	Barani	0—9	Maluka S/o Daleju 2/5, Avtar Singh, Jagtar Singh, Mahinder Singh 1/5, Jasmer Singh 1/10, Omparkash S/o Makandi Lal 2/3, Mahinder Kumar S/o Tarlok 1/3 (3/10)
				14/2	Private	Barani	0—2/1/2	M/s Satinder Estates Pvt. Ltd.
				15	Private	Barani	0—11	Sushil Kumar, Pawan Kumar, Satish Kumar, Ashwani Kumar S/o Raj Kumar
				16	Private	Barani	0—11	Sushil Kumar, Pawan Kumar, Satish Kumar, Ashwani Kumar S/o Raj Kumar
				17	Private	Barani	0—10	Om Parkash S/o Mankti Lal
				18	Private	Barani	Nil	Om Parkash S/o Mankti Lal
				41	Panchayat	G.M. Pahi	0—2	Nagar Panchayat
				80	Panchayat	G.M. Pahi	0—1/2	Nagar Panchayat
				81	Panchayat	G.M. Pahi	0—1/2	Nagar Panchayat
				93	Panchayat	G.M. Pahi	0—1/2	Nagar Panchayat
				16/1	Private	Barani	0—10	Smt. Pushpa Devi W/o Suresh Chand, Vasuja Jain W/o Sanjiv Kumar Jain, Abha Kaur W/o Parmod Jain

				10/1	Private	Barani	Nil	Smt. Pushpa Devi W/o Suresh Chand, Vasuja Jain W/o Sanjiv Kumar Jain, Abha Kaur W/o Parmod Jain
							A--B--B	
						<b>TOTAL</b>	<b>3--3--18</b>	
			<b>15. Haripur kuram H.B. No. 17</b>	600/1	Private	G.M. Chahi	0----9	Amritpal Singh, Satpal Singh S/o Balwant Singh
				2	Private	G.M. Chahi	0----7	Amritpal Singh, Satpal Singh S/o Balwant Singh
				6	Private	G.M. Chahi	0----5	Amritpal Singh, Satpal Singh S/o Balwant Singh
				7/1	Private	G.M. Chahi	0----1	Amritpal Singh, Satpal Singh S/o Balwant Singh
				7/2	Private	G.M. Chahi	0----3	M/s Sub Industries Ltd.
				12	Private	G.M. Chahi	0----6	M/s Sub Industries Ltd.
				13	Private	G.M. Chahi	0----10	M/s Sub Industries Ltd.
				20	Private	G.M. Chahi	0----12	Sandeep Rai S/o Chhotu Ram, Bhagirath Lal S/o Chhotu Ram, Jai Gopal S/o Harigopal, Sumit Goel S/o Madan Goel
				21	Private	G.M. Nala	0----12	Jaswinder Kaur Wd/o Amardeep Singh, Harbans Singh S/o Beer Singh, Jamail Singh S/o Diyal Singh
				577/30	Private	Chahi	0----3	Smt. Ranjna D/o Sarwan singh
				578/30	Private	Chahi	0----3	Smt. Ranjna D/o Sarwan singh
				579/30	Private	Chahi	0----6	Smt. Ranjna D/o Sarwan singh
				31	Private	Chahi	0----12	Rahul Kumar S/o Sarwan Singh
				45	Private	Chahi	0----12	Dinesh Kumar S/o Kedarnath, Madhu Gupta W/o D.K. Gupta, Desh Raj S/o Thakur Das, Parween Kumar, Harinder Kumar S/o Desh Raj
				46	Private	Barani	0----12	Amarjeet Singh S/o Harbans Singh
				47	Private	Barani	0----6	Amarjeet Singh S/o Harbans Singh
				52	Private	G.M.	0----2	Nagar Panchayat
				59	Private	Barani	0----15	Balveer Kaur W/o Harmesh Singh
				61	Private	Chahi Bag	0----10/1/2	Lakhwinder, Veer Singh S/o Harbans Singh
				62	Private	Chahi Bag	0----12	M/s Pearl Infrastructure Projects Ltd.
				97	Private	Chahi Bag	0----12	M/s Pearl Infrastructure Projects Ltd.
				98	Private	Chahi Bag	0----12	M/s Pearl Infrastructure Projects Ltd.
				99	Private	Chahi Bag	0----12	M/s Pearl Infrastructure Projects Ltd.
				100	Private	Chahi	0----12	Model Security Systems Ltd.



				127	Private	Chahi	0—5	Mohinder Singh S/o Mohan Singh
				127/1	Private	Chahi	0—11	Model Security Systems Ltd.
				128	Govt.	G.M. Road	0—1/1/2	Provisional Govt. (PWD)
				129	Private	G.M. Factory	0—6	Bhushan Industries Ltd.
				134	Private	G.M. Factory	0—12	Bhushan Industries Ltd.
				135	Private	Chahi	0—11	Bhushan Industries Ltd.
				556/136	Private	Chahi	0—5	Bhushan Industries Ltd.
				557/136	Private	Chahi	0—5	Bhushan Industries Ltd.
				144	Private	Chahi	0—4	Bhushan Industries Ltd.
				145	Private	Barani	0—11	Amrik Singh, Parmjit Singh S/o Hamam Singh
				580/146	Private	Barani	0—5/1/2	Ajit Singh S/o Khajari Singh
				581/146	Private	Barani	0—4	Penta Homes Pvt. Ltd.
				147	Private	Chahi Bag	0—17	Harinder Singh S/o Mohinder Singh
				148	Private	Chahi Bag	0—9	Harinder Singh S/o Mohinder Singh
				149	Private	Chahi Bag	0—10	Harinder Singh S/o Mohinder Singh
				550/151	Private	Chahi Bag	0—1	Harinder Singh S/o Mohinder Singh
				551/151	Private	Chahi Bag	0—5	J.M.A. Industries Ltd.
				152	Private	Chahi Bag	0—10	J.M.A. Industries Ltd.
							<b>A-B-B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>3-2-11/1/2</b>	
							<b>K-M</b>	
			16.Bhankhar-Pur H.B. No. 236	13/4	Shamlat Pati	Chahi	2—3	Shamlat Pati
				6	Private	Chahi	2—2	Spectraite Globel Pvt. Ltd.
				15	Private	Chahi	0—3	Spectraite Globel Pvt. Ltd.
				14/1	Shamlat Pati	Chahi	0—9	Shamlat Pati
				14/10/1-2	Private	Chahi	2—4	Gori Shankar S/o Mahavir Prashad
				11	Private	Chahi	1—19	Spectraite Globel Pvt. Ltd.
				12	Private	Barani	2—2	Devi Prashad S/o Mahavir Prashad
				18	Private	Chahi	1—18	M/s Inderjit Singh S/o Hajara Singh
				19	Private	Chahi	1—8	Spectraite Globel Pvt. Ltd.
				20	Private	Chahi	0—14	Spectraite Globel Pvt. Ltd.
				22	Private	Chahi	2—2	Swarn Kaur W/o Hajara Singh 228 Share, Ratan Lal S/o Charat Ram 1/2, Pardip Chabra S/o Roshan Lal 1/2 Dar 84 Share, Total 312 Share
				23	Private	Chahi	1—8	M/s Lohgarh Jewellers 1/3, Bahadur Singh S/o Prem Singh 1/3, Prem Singh S/o Lal Singh, Nirpal Kaur M/o Satwinder Kaur W/d Jasprit Kaur Daughter, Jaspreet Singh S/o Bhag Singh 1/3, (1/2) Dalwinder Kaur Daughter 1/12, Rajinder Singh, Jagtar Singh S/o Sohan Si

				24	Private	Chahi	0----14	M/s Lohgarh Jewellers 1/3, Bahadur Singh S/o Prem Singh 1/3, Prem Singh S/o Lal Singh, Nirpal Kaur M/o Satwinder Kaur Wd Jasprit Kaur Daughter, Jaspreet Singh S/o Bhag Singh 1/3, (1/2) Dalwinder Kaur Daughter 1/12, Rajinder Singh, Jagtar Singh S/o Sohan Si
				23//11	Shamlat Pati	Chahi	2----0	Shamlat Pati Kamoan
				19	Shamlat Pati	Chahi	0----19	Shamlat Pati Kamoan
				20/2	Private	Chahi	1----11	(pritam Singh) 1/2, Surinder Kumar S/o Triloki Nath 1/4, Sunder Devi W/o Omprakash 1/4
				23//21/1-2	Shamlat Pati	Chahi	2----9	Shamlat Pati
				5	Private	Chahi	0----3	
				6	Private	Chahi	2----2	Balwant Singh, Harbans Singh S/o Babu Singh, Sukhpal Singh S/o Nand Singh, Karam Kaur, Bant Kaur W/o Prithi Singh, Ajit kaur Wd/, Jatinder Singh, Beant Singh, Sukhwinder kaur, Harpreet kaur W/o Ranjit Singh 1/2, Kartar Singh, Puran Singh S/o Nanak Singh 1/2
				24//3	Private	Chahi	2----3	Swran Kaur W/o Hajara Singh 228 Share, Ratan Lal S/o Charat Ram 1/2, Pardip Chabra S/o Roshan Lal 1/2 Dar 84 Share, Total 312 Share
				7	Private	Chahi	2----5	
				8	Private	Chahi	0----1	Balwant Singh, Harbans Singh S/o Babu Singh, Sukhpal Singh S/o Nand Singh, Karam Kaur, Bant Kaur W/o Prithi Singh, Ajit kaur Wd/, Jatinder Singh, Beant Singh, Sukhwinder kaur, Harpreet kaur W/o Ranjit Singh 1/2, Kartar Singh, Puran Singh S/o Nanak Singh 1/2
				14/2	Private	Chahi	1----1	Babu Singh S/o Genda 1/3, Sahiba Wd, Gurcharan singh, Karnel Singh S/o Basant Singh 2/3.
				15/1	Private	Chahi	2----15	Babu Singh S/o Genda 1/3, Sahiba Wd, Gurcharan singh, Karnel Singh S/o Basant Singh 2/3.
				15/2	Shamlat Pati	Chahi	0----4	Shamlat Pati
				16	Private	Chahi	2----16	Shamlat Pati
				25	Shamlat Pati	Chahi	0----2	Shamlat Pati
				33//16	Private	Chahi	0----16	Raj Kishan Singh, Mehar Singh, Amrik Singh S/o Jita Singh
				34//20/2	Private	Chahi	1----3	Raj Kishan Singh, Mehar Singh, Amrik Singh S/o Jita Singh

				21/1	Private	Chahi	2----7	Raj Kishan Singh, Mehar Singh, Amrik Singh S/o Jita Singh
				21/2	Private	Chahi	0----1	Anil Kumar S/o Joginder 25/100, Gurdas S/o Lal Chand 40/100, Kashmiri Lal S/o Lal Chand 35/100
				22/1	Private	Chahi	0----1	Anil Kumar S/o Joginder 25/100, Gurdas S/o Lal Chand 40/100, Kashmiri Lal S/o Lal Chand 35/100
				44/1	Private	Chahi	2----16	Mahinder Kaur Wd Harbans Kaur, Surjit Kaur D/o Jaswinder Singh, Amrik Singh, Gurneet Singh Balbir Singh S/o Hari Singh.
				10/1	Private	Chahi	0----14	Mahinder Kaur Wd Harbans Kaur, Surjit Kaur W/o Jaswinder Singh, Amrik Singh, Balbir Singh, Gurneet Singh S/o Hari Singh
				10/2	Private	Chahi	0-0	Anil Kumar S/o Joginder, Ravinder S/o Dharam Pal
				2/1	Private	Chahi	1----4	Karam Wd Diyal Kaur D/o Gurchan Singh, Amar Singh, Sarwan Singh, Kuldip Singh S/o Balwant Singh 1/5, Joginder Kaur Wd Amarjit Kaur D/o Sukhwinder Singh, Mahinder Singh, Raj Singh S/o Gurnam Singh 1/5, Issar Singh, Attar Singh, Bishan Singh S/o Gopal Sin
				2/2	Private	Chahi	1----5	Ravinder Kumar S/o Dharam Pal
				8/1	Private	Chahi	1----5	Ravinder Kumar S/o Dharam Pal
				9/1	Private	Chahi	0----14	Ravinder Kumar S/o Dharam Pal
				9/2	Private	Chahi	0----11	Mahinder Kaur Wd Harbans Kaur, Surjit Kaur W/o Jaswinder Singh, Amrik Singh, Balbir Singh, Gurneet Singh S/o Hari Singh.
				12/1	Private	Chahi	1----5	Anil Kumar S/o Joginder Singh
				12/2	Private	Chahi	0----1	Gurdas Bansal S/o Lal Chand
				13/2	Private	Barani	0----8	Pritam Kaur 1/7, Ajmer Singh 6/7, S/o Santosh Singh
				17/1	Private	Chahi	0----5	Ram Chander S/o Sunder Singh
				17/2	Private	Chahi	0----5	Ram Chander S/o Sunder Singh
				17/3	Private	Chahi	0----1	Ram Chander S/o Sunder Singh

				17/4	Private	Chahi	0----14	Hakam Singh, Kuldip Singh, Kulwant Singh S/o Harbans Kaur, Kuldip Kaur D/o Jai Singh 1/2, Sadhu Singh, Tarlochan Singh, Kulbir Singh S/o Pritam Singh 1/2
				17/6	Private	Chahi	0----12	Hakam Singh, Kuldip Singh, Kulwant Singh S/o Harbans Kaur, Kuldip Kaur D/o Jai Singh 1/2, Sadhu Singh, Tarlochan Singh, Kulbir Singh S/o Pritam Singh 1/2
				14/2	Private	Chahi	0----4	Bharti Rani W/o Dev Raj
				14/3	Private	Chahi	0----3	Bharti Rani W/o Dev Raj
				14/4	Private	Barani	0----14	Bishan Singh, Bhajan Singh, Baldev Singh S/o Preet Singh
				18/1	Private	Barani	0----9	Ajit Singh, Varyam Singh, Dalip Singh, Harbhajan Singh S/o Ram Singh 7/12, Kartar Kaur, Dalip Kaur Wife 2/12, Sadhu Singh S/o Punnu 1/4
				18/4	Private	Barani	0---11	Ajit Singh, Varyam Singh, Dalip Singh, Harbhajan Singh S/o Ram Singh 7/12, Kartar Kaur, Dalip Kaur Wife 2/12, Sadhu Singh S/o Punnu 1/4
				18/5	Private	Chahi	1---1	Kaushlia D/o Sham Lal, Anil Kumar S/o Joginder Singh
				18/6	Private	Chahi	0---1	Kaushlia D/o Sham Lal, Anil Kumar S/o Joginder Singh
				23/1	Private	Chahi	0--0	Nirmal Singh S/o Satnam Son Chamela
				24	Private	Chahi	1----1	Nirmal Singh S/o Satnam Son Chamela
				25/1	Private	Chahi	0----15	Babu Singh S/o Genda43/129, Mahinder Singh S/o Narata Singh 43/387, Ajaib Singh Barkha S/o Jagat Singh 43/387, Naib Singh, Amar Singh S/o Mahinder Singh 43/387, Guro W/o Bant Singh 1/12, Gurcharan Singh, Kamail Singh S/o Bant Singh 1/4, Tejinder Singh, H
				25/2	Private	Chahi	0----1	Sarjit Kaur Wd, Harcharan Singh, Sukhdev Singh, Bachitar Singh, Randhir Singh, Rajwant Singh, Amarjit Singh, Kulwant Singh S/o Gurbachan Singh
				25/4	Private	Chahi	0----4	Sham lat Pati Sainia 63 hal, Harcharan Singh Namberdar 21 Hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh Namberdar 21 hal

				26/5	Private	Barani	0----6	Sarjit Kaur Wd, Harcharan Singh, Sukhdev Singh, Bachitar Singh, Randhir Singh, Rajwant Singh, Amarjit Singh, Kulwant Singh S/o Gurbachan Singh
				26/6	Private	Barani	0----7	Gurcharan Singh S/o Meher Singh, Niranjan Singh S/o Sarja Harinder S/o Asa Singh, Amarjit Singh S/o Teja Singh
				25/7	Private	Barani	0----8	Naranjan Singh S/o Mukand Singh
				10//17	Private	Chahi	2-----0	Jaspal kaur W/o Iqbal Singh, Iqbal singh S/o Gurbakhsh Singh 1/2 share, Prem Kaur, Bebe W/o Bakhtor Singh, Bhag Singh, Karam Singh S/o Nasib Singh 1/6, Ram Singh, Joginder Singh S/o Kishan Singh 1/3
				24/2-	Private	Chahi	1-----0	Jaspal kaur W/o Iqbal Singh, Iqbal singh S/o Gurbakhsh Singh 1/2 share, Prem Kaur, Bebe W/o Bakhtor Singh, Bhag Singh, Karam Singh S/o Nasib Singh 1/6, Ram Singh, Joginder Singh S/o Kishan Singh 1/3
				25	Private	Chahi	1-----0	Jaspal kaur W/o Iqbal Singh, Iqbal singh S/o Gurbakhsh Singh 1/2 share, Prem Kaur, Bebe W/o Bakhtor Singh, Bhag Singh, Karam Singh S/o Nasib Singh 1/6, Ram Singh, Joginder Singh S/o Kishan Singh 1/3
				18	Private	Ger Mumkin Factory	1-----0	Cilican Construction Pvt. Ltd (SCPL)
				23	Private	Ger Mumkin Factory	0-----11	Cilican Construction Pvt. Ltd (SCPL)
				24/1	Private	Ger Mumkin Factory	1-----8	Cilican Construction Pvt. Ltd (SCPL)
				14/2	Private	Chahi	1-----0	Smt. Mainka Mittal W/o Pardip Kumar 25/100, Smt. Ruchita Mittal W/o Sumit Mittal 25/100, Smt. Achara Rani W/o Lal Chand 50/100
				56//5	Private	Barani	0-----11	Jagir Singh, Narein Singh, Bachan Singh S/o Karam Singh 3/4, Sant Kaur Wd, Kulwinder Kaur D/o Kesar Singh 1/4
				57//1/2	Private	Barani	1-----8	Mahinder Singh S/o Gurdial Singh
				57//10/1	Private	Barani	0-----6	Guru Granth Sahib Ji, Bebe Sahib Village Bhankarpur
				57//10/2	Private	Barani	0-----8	Guru Granth Sahib Ji, Bebe Sahib Village Bhankarpur
				85//1/2	Panchayat	G.M. Ghagar	26—17	Nagar Panchayat

				85/2/2	Panchayat	G.M. Ghagar	14----0	Nagar Panchayat
				88/2	Panchayat	G.M. Graveyard	3----2	Nagar Panchayat
				137/1	Private	G.M. Bara	0----4	Surjit Singh S/o Partap Singh
				137/2	Private	G.M. Bara	0----5	Pritam Singh S/o Kartar Singh
				137/2	Private	G.M. Bara	0----9	Pritam Singh S/o Sh. Kartar Singh 1/12 Parmjit Kaur Wd Ravinderjit Singh, Amandeep Singh S/o Ajit Singh 1/6, Gurdev Singh S/o Sadhu Singh 1/4, Puran Singh S/o Nanak Singh 1/4, Sarjit Kaur Wd, Ajmer Singh S/o Mahinder Singh 1/4
				138	Private	G.M. Bara	0----7	Puran Singh S/o Gurdial Singh 1/2, Jagtar Singh, Rajinder Singh S/o Sohan Singh 1/2
				139	Private	G.M. Bara	0----5	Bakhsa Singh S/o Lal Singh 1/2, Harkaur Wd, Jora Singh Mangat Singh S/o Bachan Singh 1/3, Gurmeh Singh, Keval Singh S/o Nika Singh 1/3
				208	Shamlat	G.M. Dharmshala	1----1	Shamlat Deh 84 Hal, Harcharan Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				222	Shamlat	G.M. Rasta	0----2	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				227	Private	G.M. Bara	0----10	Rajinder Singh S/o Puran Singh S/o Mangat Singh 5/12, Geeva Singh S/o Chanan Singh 7/12
				228	Private	G.M. Bara	0----10	Jagir Singh, Guljar Singh S/o Sada Ram 1/5, Purni Devi, Tulsan D/o Briam Singh 3/10, Tej kaur Wd/o Karnail Singh, Jarnail Singh, Tarshem Singh S/o Maru Singh 1/2
				239	Private	G.M. Bara	0----9	Rajinder Singh S/o Chajju Singh
				240	Private	G.M. Bara	0----10	Jagir Singh, Narain Singh, Bachan Singh S/o Karam Singh 3/4, Sukwant Kaur Wd, Kulwinder Kaur D/o Kesar Singh 1/4
				243	Shamlat	G.M. Rasta	0----4	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal

				244	Shamlat	G.M. Bara	0—10	Sarjit Kaur Wd, Harcharan Singh, Gurudev Singh, Bachitar Singh, Randhir Singh, Rajwant Singh, Amarjit Singh, Kulwant Singh S/o Gurbachan Singh
				120	Shamlat	G.M. Rasta	0—3	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				121	Shamlat	G.M. Rasta	0—3	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				364	Shamlat	G.M. Rasta	0—3	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				365	Shamlat	G.M. Rasta	0—3	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				366	Shamlat	G.M. Rasta	0—2	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
				434	Shamlat	G.M. Rasta	0—3	Mustarka 84 hal, Harchanran Singh Namberdar 21 hal, Harpal Singh 21 hal, Jasbir Singh 21 hal, Barinder Pal Singh 21 hal
							<b>A—K—M</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>14-0-16</b>	
							<b>B—B</b>	
		17.Bishangarh H.B. No. 45	443	Private	G.M. Factory	0—3	M/s Silver City Construction Ltd.,	
			444	Private	Chahi	0—17	Sinha Pore Developers 31/57 Pushpinder Kaur Wd/o Ranjit Singh 26/57	
			445	Private	Chahi	0—11	Keval Singh S/o Laxman Singh	

				455	Private	Chahi	0-----15	Gurmukh singh S/o Jamel Singh 329/1480, Neha Sharma W/o P. C. Sharma 154/1480, Geeta D/o Issar 171/1480, Smt. Aasha W/o Tek Chand 162/1480, Ajmer Singh S/o Dev Singh 35/1480, Subhash Chand S/o Niraj 275/1480, Baldev Goel S/o Om parkash 56/1480, Bhushan Kumar
				456	Private	Chahi	1-----0	Narata-Bachna-Gian S/o Ramu 40/104, Satish Kapoor S/o K.R. Kapoor 28/104, Suchi Batra D/o Lalit Mohan 16/104, Parmod Batra W/o Lalit Mohan 20/104
				460	Nagar Panchayat Zirakpur	G.M. Rasta	0-----2	Nagar Panchayat Zirakpur
				544/465	Private	Chahi	0-----4	Aasish Trading House
				585/483	Private	Chahi	0-----7	Kuljit Singh S/o Naranjan Singh 223/1340, Parmjit Kaur W/o Jagtar Singh 949/1340, Nomihal Singh S/o Amarjit Singh 168/1340
				548/467	Private	G.M. Plot	0-----1	Aasish Trading House
				552/468	Private	G.M. Plot	0-----17	M/s Silver City Construction Ltd. 17500/23640 Share Other 6640/23640
				469	Private	G.M. Plot	0-----3	M/s Silver City Construction Ltd. 17500/23640 Share Other 6640/23640
				553/470	Private	G.M. Plot	0-----16	M/s Silver City Construction Ltd. 17500/23640 Share Other 6640/23640
				471	Private	G.M. Plot	0-----13	M/s Silver City Construction Ltd. 17500/23640 Share Other 6640/23640
				510-511/478	Private	G.M. Plot	0---0	M/s Silver City Construction Ltd. 17500/23640 Share Other 6640/23640
				513/482	Nagar Panchayat Zirakpur	G.M. Rasta	0---0	Nagar Panchayat Zirakpur
				512/482	Private	Ger Mumkin	0-----17	M/s Silver City Construction Ltd.,
				481/1	Private	G.M. Plot	0-----12	Aasish Trading House
				584/483	Private	Chahi	0-----4	Shamsher Singh, Surinderpal Singh, Paramjit Singh S/o Gurdiyal Singh
				570/517/487	Private	Chahi	0-----8	Raj Kumar Goel S/o Inder Sain Karta H.U.F.



				571/517/487	Private	Chahi	0-----2	Shamsher Singh, Surinderpal Singh, Paramjit Singh S/o Gurdiyal Singh
				519/488	Nagar Panchayat Zirakpur	G.M. Rasta	0-----2	Nagar Panchayat Zirakpur
				572/520/488	Private	Chahi	0-----8	Raj Kumar Goel S/o Inder Sain Karta H.U.F.
				573/520/488	Private	Chahi	0-----4	Shamsher Singh, Surinderpal Singh, Paramjit Singh S/o Gurdiyal Singh
				489/2	Private	G.M.	0-----1	International institute of telecom technology society
				556/489	Private	G.M.	0-----3	International institute of telecom technology society
				489/2	Private	G.M. Factory	0-----15	International institute of telecom technology society
				490	Panchayat	G.M	0-----1	Nagar Panchayat Zirakpur
							<b>A-B-B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>2-1-6</b>	
			18 Bishanpura H.B. No. 44	57	Private	Chahi	0-----1/2	Gurdev Kaur W/o Kuljit Singh, Paramjit Kaur W/o Jagtar Singh
				100	Private	Chahi	0-----0	Gurpreet kaur D/o Mahinder Kaur 1190/2460, Manish Kumar S/o Vijay Kumar 500/1/2//2460, Vikram Singla S/o R.L. Singla 420/700, Smt. Saroj Singla W/o Charan Dass 175/700, Pawan Chaudary S/o Late Ram Kishan 105/700, 284/2460, Raman Kumar S/o Sita Ram 266/246
				101	Private	G.M. Petrol Pump	0-----5	Gurpreet kaur D/o Mahinder Kaur 1190/2460, Manish Kumar S/o Vijay Kumar 500/1/2//2460, Vikram Singla S/o R.L. Singla 420/700, Smt. Saroj Singla W/o Charan Dass 175/700, Pawan Chaudary S/o Late Ram Kishan 105/700, 284/2460, Raman Kumar S/o Sita Ram 266/246
				601/103	Private	G.M. House	0-----1	Avtar Singh S/o Kirpa, Harbhajan Kaur W/o Gurwinder Singh 16/300, Anil kumar S/o Jivan Lal, Priti W/o Anil kumar 70/300, Arun kumar S/o Parkash Chand 147/300, Smt. Roop Kaur W/o Ujjagar 67/300
				596/103	Private	G.M. House	0-----0	

				595/103	Private	G.M.	0---0	Aakash Deep S/o Mahinder Kumar 1/2, Sanjiv Kumar S/o Sant Kumar 1/4, Ramesh Kumar S/o Mahinder Kumar 1/4, 46/300, Laxmi Singla W/o Ajudia Parkash 83/300,
				599/103	Private	G.M.	0---1/2	Gurwinder Singh S/o Gurbachan Singh 85/300, Harjit Singh S/o Arjun Singh, Jasdip Singh S/o Harjit Sin
				602/103	Private	Barani	0----2/1/2	Isher Singh S/o Amar Nath Singh 78/600, Jaswinder Singh S/o Amar Singh 1/6, Jagjit Singh S/o Amar 1/6, A.K. Arora S/o B.D. Arora 79/600, Harinder Pal S/o Jagjit Singh S/o Bahadur Singh 170/600, Vivek Gupta S/o Suraj Parkash 73/600
				597/103	Private	Chahi	0----0	Monika W/o R.T. Jindal
				598/103	Private	G.M.	0----1/2	101/300, Suresh Singla S/o Kashmiri Lal, Renu Singla W/o Suresh Singla 105/300, Harish Singla S/o Sudarshan Singh 94/300
				110/1	Private	Orchard Barani	0---2/1/2	Karam Chand S/o Munshi 275/113//3020, Om parkash S/o Hardev 435/113//3020, Rajesh Kumar S/o Brij Lal 435/113//3020, Shami Lal S/o Raghunath, Kailash devi W/o Raghunath 160//3020, Conforming Parties End. S.S.Green Valley Developers 1714//3020
				110/2	Private	G.M. Rasta	0----0	Santok Singh S/o Sh. Karam Singh Kham Singh S/o Arjun Singh 1/4 Mahinder Singh S/o Bachan Singh 1/4 Mahinder Singh S/o Natha Singh
				683/110/3	Private	Bag Barani	0----0	Confirming Properties L. T. Mokat Part and S.S.S.Green Valley Board Development
				684/110/3	Private	Bag Barani	0----2	Surinder Rai W/o Ranjit Singh 100/1040, Sanjay Verma S/o Prem Narain 69/1040, Anjali W/o Niranjana Dass 70/1040, Savita Kaur W/o Jatinder Jeet Singh, Gur jaipal Singh S/o Jatinderjit Singh 139/1040, Viswa Dass S/o Chiranji Lal 1/2, Narinder Kumar, Parminder

				485/111	Private	Barani	0—2	B.D. Kapoor S/o R.D. Kapoor, Smt. Indera Kapoor W/o B.D. Kapoor S/o R.D. Kapoor 24/39, Vishva Nath S/o Chiranji 1/2, Narinder Kumar, Parminder Kumar, Yadvinder Kumar, Dharminder Kumar S/o Vishva Nath 1/2 Dar 15/39
				486/111	Private	Barani	0—0	Darshan Kaur W/o Gurdeep Singh S/o Gurdit Singh
				124	Private	G.M.	0—3/1/2	Karam Chand S/o Munshi 275/1/3/3020, Om parkash S/o Hardev 435/1/3/3020, Rajesh Kumar S/o Brij Lal 435/1/3/3020, Sham Lal S/o Raghunath, Kailash devi W/o Raghunath 160/3020, Conforming Parties End. S.S.Green Valley Developers 1714/3020
				140	Govt.	G.M. Road	0—1/2	Punjab Govt.
				693/159	Private	Barani	0—2	Smt. Japinder Sidhu W/o Harbir Singh S/o Avtar Singh, Harbir Singh S/o Avtar Singh
				694/159	Private	Barani	0—2	Harprit Kaur W/o S.P. Singh
				160	Private	Chahi	0—12	Smt. Harprit Kaur W/o S.P. Singh 37/77, M/s Silver City Consturction Ltd. 40/77
				161	Private	Chahi	0—5	Gurdev Kaur W/o Kuljit Singh 24/50, Randhir Singh, Kirpal Singh S/o Teja Singh, Jaswinder Singh S/o Bhagat 2/50, M/s Penta Housing Pvt. Ltd. 16/50, M/s Silver City construction Ltd. 8/50
				163	Private	G.M. House	0—4/1/2	Mohan S/o Jinder Singh, Smt. Harbhajan Kaur W/o Mohan 1/2, Partap Singh S/o Jinder Singh 1/2
				165/1-2-3	Private	Barani	0—3	Narinder Kumar, Dharminder Kumar S/o Vishva Nath
				165/4	Private	Barani	0—6	M/s N.K. Sharma Interprises Pvt. Ltd 238/1160, Bishwanath S/o Chiranji Lal 97/1160, Narinder Kumar, Dharminder Kumar 706/1160, Parminder Kumar, Yadvinder Kumar S/o Bishwanath 119/1160

				166/4	Private	Barani	0----1	Ujjal Singh S/o Ranjit Singh 4/12, Amarjit Singh S/o Kartar Singh 2/96, Saranjit Kaur W/o S.P. Singh, Gurpreet Singh S/o S.P. Singh 53/107, Bishwanath S/o Chiranji Lal, Narinder Kumar, Parminder Kumar S/o Bishwanath S/o Chiranji Lal 104/2140, M/s N.K. Sha
				499/174	Private	G.M. Hotel	0----1	Kawal Inder Pal Singh, 12/189, Surinderpal Singh 57/189 S/o Kartar Singh, Surinder pal Singh 120/189, M/s Pata kunida M/s M.S. Bristal Pata Gurinda
				500/174	Private	Chahi	0----1/1/2	Gurpreet Singh S/o Surinderpal Singh, Smt. Saranjit Kaur W/o Surinderpal Singh
				201	Private	G.M. Plot	0----3	Total 56600, M/s Silver City Construction Ltd. Zirakpur 33062, Other 22538
				625/202/1	Private	G.M. Plot	0----3	Paramjit Kaur W/o Jagtar singh
				626/202/1	Private	G.M. Plot	0----5	Paramjit Kaur W/o Jagtar Singh 168/500 Balwinder Kaur and Others 322/500 Shares
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>0--3--9</b>	
			<b>19. Singhpura H.B.No 43</b>	40	Private	G.M.	0----4/1/2	Gul Gil, Gurdharshan Singh S/o Gurpreet Singh
				1190/41	Private	G.M House	0---12/1/2	Gul Gil, Gurdharshan Singh S/o Gurpreet Singh
				1192/42	Private	G.M House	0----8	Gul Gil, Gurdharshan Singh S/o Gurpreet Singh
				1193/42	Private	G.M House	0----5	Gul Gil, Gurdharshan Singh S/o Gurpreet Singh
				43	Private	Barani	0---13	Jagannath, Sohan Lal, Pawan Kumar S/o Dasondhi Ram 55/80 Shares, Poonam W/o Parveen Kumar 4/5 Share, Harvinder Pal, Brinder Pal S/o Jagan nath 1/5 Share (Dar 25/80 Share)
				192	Private	Chahi	1---1	Nagar Panchayat
				1004/814/19 3	Private	Chahi	0----3	E.P.I Switch Ghare

				1205/1005/1 94	Private	Barani	0—2	Hari Krishan S/o Laxmi 1/4 Ram Krishan, Hari Krishan, Vidhya Rattan Lal S/o Mohan Lal 1/4 Rajrani Wd/o Mahesh Chand S/o Amrit Lal 1/20 Share, Mohan Lal, Manohar Lal, Madan Lal, Jai Gopal S/o Matu Ram 1/5 share, Shyam Kali, Dya Vanti, Hardwari Lal, Kishna
				1210/1005/1 94	Private	Chahi	0—11	Harbans Singh S/o Ronak Singh
				1077/1006/1 94	Private	Chahi	0—5	Ajit Kaur W/o Gurjaswant Singh 29/79 Pritama W/o Kasturi Lal 29/79 Meera W/o Jagjit Singh 21/79
				1078/1006/1 94	Private	Chahi	0—1	Satish Kumar S/o Vidya Parkash Smt. Rajinder Saini W/o Satish Kumar
				145	Panchayat	G.M. Road	0—4	Nagar Panchyat
				816/198	Private	Chahi	0—15	Mamjinder Singh, Harjinder Singh, Amrik Singh S/o Niranjan Singh 1/2, Balbir Singh S/o Niranjan Singh 1/4 Bagga Singh S/o Ram Singh 1/4 share
				1007/818/19 9	Private	Chahi	0—9	Mamjinder Singh, Harjinder Singh, Amrik Singh S/o Niranjan Singh 1/2, Balbir Singh S/o Niranjan Singh 1/4 Bagga Singh S/o Ram Singh 1/4 share
				1008/818/19 9	Private	Chahi	0—6	Harbans Kaur W/o Kesar Singh Harjinder Singh, S/o Kesar Singh
				200	Private	Chahi	0—4	Guru Granth Sahib Ji
				201	Private	Chahi	0—11	Guru Granth Sahib Ji
				202	Panchayat	G.M. Road	0—5	Nagar Panchyat
				203/1	Private	Barani	0—13	Lakwinder Singh, Sukhchain Singh, Rajinder Singh S/o Makhan Singh Rajinder Kaur Wd/o Bhupinder Singh 1/2 share, Mandeep Singh S/o Nirvair Singh, Sumitlahra W/o Surinder Singh 1/2 share
				1009/204	Private	Barani	0—4	Surjit Singh S/o Sudagar Singh
				1010/204	Private	Barani	0—4	Satish Kumar S/o Vidya Parkash Smt. Rajinder Saini W/o Satish Kumar
				1011/204	Private	Barani	0—4	Suresh Kumar S/o Madan Lal, Sanjiv S/o Madan Lal 19/29, Jeet Singh S/o Sarup Singh, Hakam Singh S/o Sham Singh, Prem Sarup S/o Agya Ram 10/29 share
				1012/204	Private	Barani	0—4	Ram Narainyan S/o Charan Dass

				1014/205	Private	Chahi	0—4	Shobha W/o Ramesh, Santosh W/o Rajia
				1015/205	Private	Barani	0—4	Harjit Kaur W/o Charan Jit Singh, Laxmi W/o Indar Singh
				913/242	Private	Chahi	0—13	Santosh Kumar D/o Mohan Lal
				933/825/245	Private	G.M Plot	0—16	Shyam Sundar S/o Shadi Ram 7/20, Manjit Singh S/o Karam Singh 13/20 Share
				824/245	Private	G.M Plot	0—1	Gul Gil, Gurdharshan Singh S/o Gurpreet Singh
				930/244	Private	G.M Plot	0—4	Daljit Singh S/o Durlabh Singh 1/2, Dalip Kumar S/o Jagmohan Lal 1/2
				929/244	Private	G.M Plot	0—3	Daljit Singh S/o Durlabh Singh 1/2, Dalip Kumar S/o Jagmohan Lal 1/2
				927/244	Private	G.M Plot	0—1/1/2	Sanjiv Kumar S/o Ram Lal
				931/244	Private	G.M Plot	0—4	Sanjiv Kumar S/o Ram Lal, Suresh Kumar S/o Madan Lal 19/29, Jeet Singh S/o Sadhu Singh, Hakam Singh S/o Sardha Singh, Prem Sarup S/o Agya Ram 10/29 Share
				244/1	Private	G.M Plot	0—3	Sanjiv Kumar S/o Muni Lal
				915/243	Private	G.M.	0—4	Shyam Sundar S/o Sadhi Ram 1/2 Paranjit Kaur W/o Kartar Singh 138/200 Karam Chand S/o Buti Ram 4/200, Shero Devi W/o Buti Ram 4/200 Om Parkash S/o Sant Ram 4/200 Karpal Singh S/o Teja Singh 5/200 (Dar 1/2 share)
				917/243	Private	G.M.	0—3	Kasturi Lal S/o Mahalla Ram
				919/243	Private	G.M.	0—1	Godar Lal S/o Mahalla Ram
				922/243	Private	G.M.	0—4	Godar Lal S/o Mahalla Ram
				924/243	Private	G.M.	0—4	Godar Lal S/o Mahalla Ram
				920/243	Private	G.M.	0—3	Shyam Sundar S/o Sadhi Ram 1/2 Paranjit Kaur W/o Kartar Singh 138/200 Karam Chand S/o Buti Ram 4/200, Shero Devi W/o Buti Ram 4/200 Om Parkash S/o Sant Ram 4/200 Karpal Singh S/o Teja Singh 5/200 (Dar 1/2 share)
				826/246	Private	Barani	0—3	Bhupinder Singh, Bhagwant Singh S/o Kartar Singh
				828/246	Private	G.M.	0—2	Som Datt S/o Buti Ram 1/2, Sushil Kumar S/o Barham Datt 1/2
				830/246	Private	Banjar Kadim	0—2	Bhupinder Singh, Bhagwant Singh S/o Kartar Singh

				831/246	Private	Banjar Kadim	0----0	Sadhu Singh S/o Sarup Singh
				832/246	Private	G.M.	0----2	Som Datt S/o Buti Ram, Sushil Kumar, Lalit kumar, Barham Datt S/o Buti Ram
				833/246	Private	G.M.	0----1	Sadhu Singh S/o Sarup Singh
				834/246	Private	G.M.	0----2	Bhupinder Singh, Bhagwant Singh S/o Kartar Singh
				835/246	Private	G.M.	0----1	Sadhu Singh S/o Sarup Singh
				836/246	Private	G.M.	0----2	Jeet Singh, Gudiyal Singh S/o Gurdev Singh 3/4, Puran Kaur Mother, Diyal kaur Wd/o Sewa Singh 1/4 Share
				837/246	Private	G.M.	0----1	Sadhu Singh S/o Sarup Singh
				838/246	Private	G.M.	0----1/1/2	Som Datt S/o Buti Ram, Sushil Kumar, Lalit kumar, Barham Datt S/o Buti Ram
				839/246	Private	G.M. House	0----1/1/2	Som Datt S/o Buti Ram, Sushil Kumar, Lalit kumar, Barham Datt S/o Buti Ram
				247	Private	Barani	0----15	Nagar Panchayat
				257	Private	Barani	0----14	Nagar Panchayat
				583/1	Private	Chahi	0----6	Col. Mohinder pal Singh S/o Gurbachan Singh
				585/1	Private	G.M. Factory	0----15	H.S. Arora Register Engineer Ltd.
				854/586	Private	Chahi	0----14	Bhupinder Kaur W/o Jagjit Singh
				856/587	Private	Chahi	0----15	Bhupinder Kaur W/o Jagjit Singh
				858/589	Private	Chahi	0----15	Bhupinder Kaur W/o Jagjit Singh
				590	Panchayat	G.M. Road	0----1	Nagar Panchayat
				1031/591	Private	Chahi	0----15	Nirmala Bawa W/o Sukhdev Kumar
				600/2	Private	Chahi	0----14	Ajit Singh S/o Sunder Singh
				601/2	Private	Chahi	0----15	Ajit Singh S/o Sunder Singh
				602	Private	Chahi	0----15	Shri Guru Granth Sahib Ji
				603/2	Private	Chahi	0----15	Shri Guru Granth Sahib Ji
				675	Private	Chahi	0----15	P.A.C.L. Insurance Services Ltd.
				676	Private	Chahi	0----6	P.A.C.L. Insurance Services Ltd.
				1244/1041/6 81	Private	Barani	0----4	Narinder Pal Singh S/o Dilbhar Singh
				1246/682	Private	Barani	0----4	Narinder Pal Singh S/o Dilbhar Singh
				1247/682	Private	Barani	0----6	Jai Singh S/o Santosh Singh
				1042- 1043/683	Private	Barani	0----14	Kanwaljit Singh S/o Jaskaran Singh, Bhupinderjit Kaur W/o Kanwaljit Singh
				1116/1044/6 84	Private	Barani	0----3	Retriat Hotels Pvt. Ltd.
				1116/1044/6 84	Private	Barani	0----3	Kesar Chand S/o Bhim Raj 10/32, Ram Piyari W/o Bhim Raj 12/32, Ravinder Kumar S/o Bhim Raj 10/32

				1045/684	Private	Barani	0—9	Kanwaljit Singh S/o Jaskaran Singh, Bhupinderjit Kaur W/o Kanwaljit Singh
				1046/685	Private	Barani	0—9	Retriat Hotels Pvt. Ltd.
				948/686	Private	G.M.	0—5	Mohinder Singh, Baljit Singh, Karam Singh S/o Teja Singh
				949/687	Private	G.M.	0—9	Harprit Singh, Parminder Singh, Parabjot Singh S/o Manjit Singh
				950/687	Private	G.m.	0—6	Mohinder Singh, Baljit Singh, Karam Singh S/o Teja Singh
				950/688	Private	Barani	0—5	Sadhu Singh S/o Kartar Singh
				951/688	Private	Barani	0—8	Harprit Singh, Parminder Singh, Parabjot Singh S/o Manjit Singh
				953/698	Private	Chahi	0—16	Satbir Kaur W/o Baljinder Singh
				1248/703	Private	Chahi	0—12	M/s Swami Auto Care Pvt. Ltd.
				1251/1127/704	Private	Chahi	0—15	Gurdas Bansal S/o Lal Chand Smt. Nisha Bansal W/o Gurdas Bansal
				1129/705	Private	Chahi	0—14	M/s Swami Auto Care Pvt. Ltd.
				1131/706	Private	Chahi	0—1	M/s Cily Con Construction Pvt. Ltd.
				1134/707	Private	Barani	0—15	M/s Cily Con Construction Pvt. Ltd.
				1154/708	Private	Barani	0—15	M/s Cily Con Construction Pvt. Ltd.
				1156/709	Private	Barani	0—13	M/s Cily Con Construction Pvt. Ltd.
				778	Private	Barani	0—16	M/s Cily Con Construction Pvt. Ltd.
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>6--0--5/1/2</b>	
							<b>K--M</b>	
			<b>20. Zirakpur H.B. No. 235</b>	22/2/1	Private	G.M. Plot	0—5	Inder Mohan, Surinder Mohan S/o Satnam Singh etc.
				22/2/2	Private	G.M. Plot	0—1	Kirpal Singh S/o Amrik Singh 1/2, Narinder Singh S/o Amrik Singh 1/2 Share
				22/3/1	Private	G.M. Plot	0—2	Sanjiv Kumar, Sandeep Kumar, Ramesh Jain S/o Bal Krishan etc.
				22/3/2	Private	G.M. Plot	0—3	Labh Singh S/o Sewa Singh
				7/23/2001	Private	G.M. Plot	0—2	Sanjiv Kumar, Sandeep Kumar, Ramesh Jain S/o Bal Krishan etc.
				23/2	Private	G.M. Plot	0—3	Narinder Singh S/o Anup Singh etc.
				7/7/1	Private	G.M. Plot	0—17	Kamaljit Singh, Jaspal Singh S/o Teja Singh
				8/1	Private	G.M. Plot	0—4	Kamaljit Singh, Jaspal Singh S/o Teja Singh
				14/2	Private	G.M. Plot	0—4	M/s Shiva S.S. Strips Pvt. Ltd.



				2/2/2	Private	G.M. Road	0—2	Smt. Issar Devi W/o Jagdish Chander, Raghubir, Baldev Singh, Inderpal Singh S/o Sarupa S/o Kuradia etc.
				8/2/2/1/1	Private	G.M. Plot	0—2	Narinder Singh S/o Amrik Singh 2 Share, Kirpal Singh S/o Amrik Singh 16 Share, Shanti Lal S/o Noharia Ram, Surindera Kumari W/o Shanti Lal 2 Share, Jeeva Singh, Balbir Singh, Mohinder Singh S/o Jisi Singh 2 Share
				9/2/2/1	Private	G.M.	0—5	Batwant Singh 7/21, Sunderpal Singh 14/21 S/o Deep Chand S/o Mansa Ram
				9/2/2/2	Private	G.M.	0—1	Gurminder Singh S/o Jaswant 15/81 Share, Harminder Singh S/o Jaswant Singh, Bhag Kaur W/o Jaswant Singh 12/81 Share, Surinderpal Singh S/o Deep Chand 1/12/81 Share, Sarwan Kaur W/o Harinder Singh 1/2 Share
				8/1/3/2/2	Private	G.M.	0—9	Bachna Ram S/o Narata Ram and Others
				8/1/3/2/1	Private	G.M.	0—6	Paramjit Singh S/o Ganga Singh
				9/2/1/1	Private	G.M.	0—3	Lalit Arora W/o Mohan Lal 3 Share, Rekha Rani W/o Vinod Kumar 4 Share, Vinod Kumar S/o Jagat Ram 1 Share
				9/2/1/2	Private	G.M.	0—1	Smt. Murti Devi W/o Ram Partap
				9/2/1/3	Private	G.M.	0—1	Kailash Rani W/o Joginder Lal
				9/2/1/4	Private	G.M.	0—1	Pushpa Rani W/o Inderjit Raj
				12/1/2/1/3	Private	G.M.	0—2	Harkirat Singh S/o Dya Singh 1/2 Share, Ramesh Kumar S/o Krishan Lal 1/2 Share
				12/1/2/1/2	Private	G.M.	0—3	Smt. Murti Devi W/o Ram Partap
				12/1/1/4	Private	G.M.	0—2	Smt. Murti Devi W/o Ram Partap 3/8 Share, Harbars Lal S/o Sunder Singh 5/8 Share
				12/1/2/1/2	Private	G.M.	0—2	Harinder Singh S/o Jaswant Singh 3/8 Share, Bhag Kaur W/o Jaswant Singh 1/8 Share, Sukhdeep S/o Santosh 1/8 Share, Ashok Kumar, Anil Kumar S/o Dewan Chand 3/8 Share
				12/1/2/1/5	Private	G.M.	0—2	Inderjit Kaur W/o Prithi Pal Singh etc.
							<b>A-K-M</b>	

						TOTAL	0-4-16	
							B-B	
			21. Baltana H.B. No. 47	1061//420	Private	G.M.	0----8	Gurdev Singh S/o Nikka Singh 1/2, Baljit Kaur Wd/o Nirmal Singh 1/4, Kulwinder Singh S/o Gurdev Singh 1/4 Share
				1065//421	Govt.	G.M.	0----2	Govt., Central Govt.
				1066//422	Govt.	G.M.	0----6	Central Govt.
				423	Govt.	G.M.	0----2	Central Govt.
				1067//424	Private	G.M.	0----5	Gurdev Singh S/o Nikka Singh 1/2, Baljit Kaur Wd/o Nirmal Singh 1/4, Kulwinder Singh S/o Gurdev Singh 1/4 Share
				1068//424	Govt.	G.M.	0----9	Central Govt.
				1069//425	Govt.	G.M.	0----4	Central Govt.
				1070//425	Private	G.M.	0----10	Gurdev Singh S/o Nikka Singh 1/2, Baljit Kaur Wd/o Nirmal Singh 1/4, Kulwinder Singh S/o Gurdev Singh 1/4 Share
				1072//427	Private	G.M.	0----3	Gurdeep Singh S/o Nikka Singh and Others
				1131//505	Govt.	G.M.	0----1	Central Govt.
				1132//505	Govt.	G.M.	0----1	Central Govt.
				1155//508	Govt.	G.M.	0----2	Central Govt.
				1156//508	Govt.	G.M.	0----4	Central Govt.
				1157//508	Govt.	G.M.	0----4	Central Govt.
				1158//508	Govt.	G.M.	0----4	Central Govt.
				1159//508	Govt.	G.M.	0----6	Central Govt.
				1160- 1168//509	Govt.	G.M.	1----15	Central Govt.
				1180//512	Private	G.M.	0----3	Sadhu Singh S/o Fuman Singh
				1181//512	Govt.	G.M.	0----6	Central Govt.
				514	Private	G.M.	2----4	Balbir Singh S/o Natha Singh
				521	Private	G.M.	2----4	Silm Sohi Wd/o Ravinder Singh
				1210//520	Private	G.M.	0----1	Silm Sohi Wd/o Ravinder Singh
				1833//523	Private	G.M.	0---0	Ram Kumar S/o Ram Harsh
				1834//523	Private	G.M.	0---0	Gyano Devi Mother, Indu Wd, Sonia, Monika D/o Surinder Kumar S/o Dile Ram
				1835//523	Private	G.M.	0----1	Bahadur Singh S/o Arjun Singh
				2027//1836/5 23	Private	G.M.	0----2	Bahadur Singh S/o Arjun Singh 2/6, Kamlesh Rani W/o Laxman Dass 3/6 Share, Manvinder Singh S/o Jarnel Singh 1/6 Share
				2028//1836/5 23	Private	G.M.	0----13	Balbir Singh S/o Natha Singh
				1837//1211/5 24	Private	G.M.	0---0	Butta Singh S/o Harmel Singh
				1838//1211/5 24	Private	G.M.	0----1	Jagir Singh S/o Ram Singh 1/2 Share, Prem Chand S/o Banwari Lal 1/2 Share

				1839/1211/5 24	Private	G.M.	0—1	Amar Singh S/o Bachan Dass
				1840/1211/5 24	Private	G.M.	0—1	Surjan Singh S/o Sadi Singh
				1841/1211/5 24	Private	G.M.	0—12	Balbir Singh S/o Natha Singh 1076 Share, Joginder Singh S/o Narinder Singh 24 Share
				1212/524	Private	G.M.	0—1	Baghwant Singh S/o Natha Singh
				1213/524	Private	G.M.	---	Baghwant Singh S/o Natha Singh
				1416/531	Private	G.M.	0—0	Krishna Devi W/o Babu Ram
				1417/531	Private	G.M.	0—1	Ved Parkash S/o Lal Chand
				1844/1186/5 31	Private	G.M. Plot	0—0	Satish Kumar, Sanjiv Soni, Harish Soni S/o Bhima Soni
				1845/1186/5 31	Private	G.M. Plot	0—1	Chote Lal, Piyare Lal S/o Hajari Lal
				1846/1186/5 31	Private	G.M. Plot	0—1	Krishna Kumari W/o Ramesh Kumar
				1847/1186/5 31	Private	G.M. Plot	0—11	Balbir Singh S/o Natha Singh 534 Share, Jamail Singh S/o Labhu Ram, Mangat Ram, Labha Ram, Gurcharan Singh S/o Agya Ram and Others
				1848/1188/5 32	Private	G.M.	0—1	Sheetal Singh S/o Gokal Singh
				1849/1188/5 32	Private	G.M.	0—1	Sushma Devi W/o Ramesh Kumar, Pritpal S/o Kishori
				1850/1188/5 32	Private	G.M.	0—1	Shakuntla Devi W/o Pritpal
				1851/1188/5 32	Private	G.M.	0—1	Jasdev Singh S/o Lal Singh
				1852/1188/5 32	Private	G.M.	0—1	Sukhwinder Singh, Manjit Singh S/o Harbans Singh
				1853/1188/5 32	Private	G.M.	0—8	Tarlochan Singh S/o Krishan Kumar, Krishan Kumar S/o Mohan Lal, Faqir Chand S/o Dhwan Rai, Vipin Kumar, Krishan Kumar S/o Pawan Kumar, Jaspal Singh S/o Gyan Singh 2/3, Nirmal Singh S/o Banta Singh 1/3
				1190/533	Private	G.M.	0—3	Prem Chand, Pawan Kumar, Raj Kumar, Satish Kumar, Anil Kumar, Sunil Kumar, Ashok Kumar S/o Sant Ram
				1192/534	Private	G.M.	0—12	Prem Chand, Pawan Kumar, Raj Kumar, Satish Kumar, Anil Kumar, Satish Kumar, Ashok Kumar S/o Sant Ram
				1473/968	Private	G.M.	0—13	Balbir Singh S/o Jagjit Singh

				1474/968	Private	G.M.	0---4	Kuldip Singh S/o Jamir Singh
				2010/969	Private	G.M.	0---2	Gurmail Singh, Rajinder Singh S/o Uday Singh 2/3 Share, Sompal S/o Ranjit Singh 1/3 Share
				2011/969	Private	G.M.	0---1	Avtar Singh, Jagtar Singh, Sarwan Singh S/o Bachan Singh
				2012-13/969	Private	G.M.	0---2	Ranjit Singh S/o Bachitar Singh 540/1840 Share and Others
				2014/969	Private	G.M.	0---12	Kuldip Singh S/o Jangir Singh
				1475/972	Private	G.M.	0---13	Bhagwant Singh S/o Natha Singh
				1476/972	Shamlat Pati	G.M.	0---7	Shamlat Pati Jatan 15/1/2 Share, Pati Nirala 15/1/2 Share, Pati Sonia 18 Share
				1477/973	Private	G.M.	0---2	Ranjit Singh S/o Bachitar Singh 540/1840 Share and Others
				1478/973	Shamlat	G.M.	0---8 1/1/2	Shamlat Pati Jatan 15/1/2 Share, Pati Nirala 15/1/2 Share, Pati Sonia 18 Share
				1479/973	Shamlat	G.M.	0---1/2	Shamlat Pati Jatan 15/1/2 Share, Pati Nirala 15/1/2 Share, Pati Sonia 18 Share
							<b>A--B--B</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>4--0--4</b>	
							<b>K-M</b>	
			<b>22. Lohgarh H.B No. 46</b>	4/8/2/2/1	Private	G.M.	0--0	Surinder Singh Amarik Singh, S/o Kehar Singh 3/8, Dev Singh S/o Ram Singh 3/8, Paramjit Singh S/o Chuhan Singh 2/3, Chuhan Singh S/o Puran Singh 1/3 Dar 1/4 Share,
				8/2/2/7	Private	G.M.	0---4	Surinder Singh Amarik Singh, S/o Kehar Singh 3/8, Dev Singh S/o Ram Singh 3/8, Paramjit Singh S/o Chuhan Singh 2/3, Chuhan Singh S/o Puran Singh 1/3 Dar 1/4 Share,
				4/8/2/2/2	Private	G.M.	0--2	Dev Singh S/o Ram Singh
				8/2/1	Private	G.M.	0--1	Jasvinder Singh, Sukhdev Singh, Satvinder Singh, Surjeet Singh S/o Karam Singh
				8/2/2/3	Private	G.M.	0--1	Surinder Singh S/o Kehar Singh 121/1/2 Share and others, Kehar Singh S/o Ram Singh 100/1/2, Rajinder Prashad Shyam Lal 485 Nand Ram 21 Share

				13/1/1	Private	G.M.	0---0	Surinder Singh S/o kehar Singh 121/1/2 Share and others, Kehar Singh S/o Ram Singh 100/1/2, Rajinder Prashad Shyam Lal 485 Nand Ram 21 Share
				13/1/2	Private	G.M.	0---1	Surinder Singh S/o kehar Singh 121/1/2 Share and others, Kehar Singh S/o Ram Singh 100/1/2, Rajinder Prashad Shyam Lal 485 Nand Ram 21 Share
				13/1/3	Private	G.M.	0---2	Paramjit Singh S/o Chuhar Singh 2/3 share, Chuhar Singh S/o Puran Singh 1/3
				13/1/4	Private	G.M.	0---1	Surinder Singh Amarik Singh, S/o Kehar Singh 3/8, Chan Singh S/o Ram Singh 3/8, Paramjit Singh S/o Chuhar Singh 2/3, Chuhar Singh S/o Puran Singh 1/3 Dar 1/4 Share,
				13/1/5	Private	G.M.	0---2	Surinder Singh, Amrik Singh S/o Kehar Singh 241 Share, Harminder Singh S/o Paramjit Singh 11 Share (Total 252 Share)
				4/13/1/6	Private	G.M.	0---2	Surinder Singh Amarik Singh, S/o Kehar Singh 3/8, Chan Singh S/o Ram Singh 3/8, Paramjit Singh S/o Chuhar Singh 2/3, Chuhar Singh S/o Puran Singh 1/3 Dar 1/4 Share,
				18	Private	G.M.	0---2	Surinder Singh Amarik Singh, S/o Kehar Singh 3/8, Chan Singh S/o Ram Singh 3/8, Paramjit Singh S/o Chuhar Singh 2/3, Chuhar Singh S/o Puran Singh 1/3 Dar 1/4 Share,
				19/1/1	Private	G.M.	0---2	Hari Krishan S/o Kashmiri Lal
				19/1/4	Private	G.M.	0---1	Kharitilal S/o Karam Chand 1/2, Sumitra Devi W/o Krishan Lal 1/2
				19/1/5	Private	G.M.	0---0	Gurdip Singh S/o Tulsa Singh 1/3, Deepak Kumar S/o Parladh Premi 2/3
				19/1/6	Private	G.M.	0---4	Rupinder S/o Tulsa Singh 15 Share and 444 Share other
				27/2/1	Private	G.M.	0---1	Baljit Kaur W/o Nirmal Singh
				27/2/2	Private	G.M.	0---0	Jamit Singh S/o Sarup Singh
				27/3	Private	G.M.	0---0	Surjit Kaur W/o Karja Singh
				27/4	Private	G.M.	0---1	Ramesh Kumar S/o Mansi Ram
				27/5	Private	G.M.	0	Hakum Singh S/o Atma Singh
				27/6/1	Private	G.M.	0---1	Tehsil Secretary CPM
				9/2/1/1	Private	G.M.	0---1	Balwant S/o Maya Singh

				2/1/1/1	Private	G.M.	0---1	Ranjit Singh, Teja Singh, Karma Singh, Dharm Singh S/o Swaran Singh 1/2 Share, Charan Singh S/o Pritam Singh 1/2 Share
				2/1/1/2	Private	G.M.	0---1	Amarjit Kaur W/o Tejinder Singh 1/3 share, Jadish Singh S/o Gurdiyal Singh 1/3, Dev Samaj School Chandigarh 1/3 Share
				2/2/1-2	Private	G.M.	0---7	Harvinder Singh S/o Mahinder Singh, Harvel Kaur W/o Gurbachan Singh 76/78, Sh. Umesh Kumar S/o Subash Chander 1/78, Amarjit Singh S/o Harbajan Singh, Niraj Kumar S/o Ved Parkash 1/78 Share
				2/3	Private	G.M.	0---3	Inderjit Singh S/o Darshan Singh 63 Share and others 693 Share (Total 756 share)
				3/1	Private	G.M.	0---5	Ram Chand S/o Bajira Ram
				3/2	Private	G.M.	0---1	Ram Chand S/o Bajira Ram
				3/3/1/1	Private	G.M.	0---1	Amarjit Singh S/o Balwant Singh
				3/3/1/5	Private	G.M.	0---1	Gurcharan Singh S/o Pritam Singh
				9// 3/3/2/1	Private	G.M.	0---1	Krishna Devi D/o Amar Chand
				3/3/3	Private	G.M.	0---1	Darshana Devi W/o Amar Chand 1/2, Ikbal Singh S/o Ujjagar Singh, Smt. Rajinder Kaur W/o Rajpal Singh 1/2 Share
				3/3/4	Private	G.M.	0---1	Smt. Jyoti W/o Gyan Parshad and Others
				8/1	Private	G.M.	0---1	Ram Chand S/o Bajira Ram
				8/2/1	Private	G.M.	0---1	Ram Chand S/o Bajira Ram
				8/2/2/1	Private	G.M.	0---2	Gurdip Singh S/o Harnam Singh
				8/2/2/10	Private	G.M.	0---2	Baljit Singh S/o Sewa Singh
				8/2/2/11	Private	G.M.	0---1	Om Parkash S/o Tarlok Chand
				8/2/2/12	Private	G.M.	0---1	Manoj Kumar S/o Pawan Kumar
				8/2/2/19	Private	G.M.	0---4	Dev Samaj Society and Others
				9/1	Private	G.M.	0---1	Inderjit Singh S/o Darshan Singh 63 Share and others 693 Share (Total 756 share)
				9/2	Private	G.M.	0---7	Swami Kuldip Singh Dangwal S/o Gyan Singh and Others

				9/3	Private	G.M.	0-4	Swaran Kaur W/o Amarjit Singh 72 share, Others 692 Share (Total 764 share)
				13/1/1	Private	G.M.	0-5	Swaran Kaur W/o Amarjit Singh 72 share, Others 692 Share (Total 764 share)
				13/2/1/1	Private	G.M.	0-1	Amritpal Singh Va Satpal Singh S/o Kuljit Singh
				13/2/1/2	Private	G.M.	0-1	Amritpal Singh Va Satpal Singh S/o Kuljit Singh
				13/1/2	Private	G.M.	0-7	Om Parkash S/o Daya Krishan and Others
				13/2/8	Private	G.M.	0-10	Dev Samaj Society Chandigarh and Others
				18/1/2/1	Private	G.M.	0-1	Bhagat Ram S/o Desh Raj 9 Share, Rakesh Kumar S/o Keval Krishan 24 Share, Mukesh Kumar S/o Jassi Ram 24 Share, Amrit Lal, Rameshwar Dass S/o Karta Ram 24 Share (Total 81 Share)
				18/1/2/2	Private	G.M.	0-1	Sanjay S/o Subash Chand 7 1/2 Share, Karam Chand, Chander Bhushan S/o Girdhari Lal 31 1/2 Share, Kavita W/o Baldev Kumar 16 1/2 Share, Sunita Rani W/o Mukesh 7 1/2 Share
				18/1/2/3/1-2	Private	G.M.	0-1	Harbans Singh S/o Jangir Singh 3/5 Share, Bhagat Ram S/o Desh Raj and Others 2/5 Share
				18/1/2/4	Private	G.M.	0-1	Bhagat Ram S/o Desh Ram 9 Share, Rakesh Kumar S/o Keval Krishan 24 Share, Mukesh Kumar S/o Jassi Ram 24 Share, Amrit Lal, Rameshwar Dass S/o Karta Ram 24 Share (Total 81 Share)
				18/1/2/5	Private	G.M.	0-1	Raj Kumar S/o Krishan Chand
				18/1/2/6	Private	G.M.	0-1	Raj Kumar S/o Krishan Chand
				18/3/1	Private	G.M.	0-1	Ujjagar Singh S/o Mangal Singh and Others
				18/2	Private	G.M.	0-3	Ranjit Singh S/o Modan Singh and Others
				19/2	Private	G.M.	0-3	Harwinder Singh Matwana Shyam Singh 1138/1/2 Share, Others 1336/1/2 Share (Total 2475 Share)
				19/3	Private	G.M.	0-5	Harwinder Singh Matwana Shyam Singh 1138/1/2 Share, Others 1336/1/2 Share (Total 2475 Share)

				27	Private	G.M.	0---4	Harwinder Singh Matwana Shyam Singh 1138/1/2 Share, Others 1336/1/2 Share (Total 2475 Share)
				23/1	Private	G.M.	0---6	Dalbir Singh S/o Gurbaksh Singh
				23/2	Private	G.M.	0---6	Harwinder Singh Matwana Shyam Singh 1138/1/2 Share, Others 1336/1/2 Share (Total 2475 Share)
				24/1	Private	G.M.	0---5	Ranjit Singh S/o Modan Singh and Others
				24/2	Private	G.M.	0---7	Jaspal Singh S/o Sarwan Singh and Others
				13/3	Private	G.M.	0--12	Dalbir Singh S/o Gurbaksh Singh
				4	Private	G.M.	0---12	Harmesh W/o Gulshan 21 Share, Others 2814 share (Total 2835 share)
				7	Private	G.M.	0---12	Parkash Singh S/o Raghuraj Singh
				8/1	Private	G.M.	0---1	Ranjit Singh S/o Modan Singh and Others
				13/2/1	Private	G.M.	0---1	Kamla Rani W/o Deva, Paramjit Kaur W/o Jagtar Singh
				6/2/4	Private	G.M.	0---2	Paramjit Kaur W/o Jagtar Singh
				8/2/5	Private	G.M.	0---1	Paramjit Kaur W/o Jagtar Singh
				8/2/6	Private	G.M.	0---3	Dalip Singh S/o Gyan Singh
				8/2/7/1	Private	G.M.	0---2	Jagtar Singh S/o Naranjan Singh and Others
				8/2/7/2	Private	G.M.	0---2	Dalip Singh S/o Gyan Singh
				13/2	Private	G.M.	0---12	Dinesh Kumar S/o Ved Parkash and Others
				14	Private	G.M.	0---12	Parkash Singh S/o Raghuraj Singh
				17/1	Private	G.M.	0---7	Motiya Construction Ltd. Dhakoli
				17/2	Private	G.M.	0---3	Parkash Singh S/o Raghuraj Singh
				18/1	Private	G.M.	0---4	Balaji Timber and Plywood 45 Share, Kamal Rastogi, Mikhan Rastogi S/o Sukhan Dass 69 Share and Sons
				18/2	Private	G.M.	0---2	Ritu W/o Bhushan Kumar
				18/5	Private	G.M.	0---5	Himmat Singh S/o Ujjagar Singh 58 Share, Surjit Singh S/o Ajmer Singh 15 Share and Others
				18/9	Private	G.M.	0---1	Swarjit Kaur W/o Devinder Singh 1/9 Share, Dhanwant Singh, Devinder Singh S/o Baldev Singh 8/9 Share
				23/1/1	Private	G.M.	0---1/1/2	Inder Kaur Wd/o Hardit Singh and Others



				23/2/1-2	Private	G.M.	0—8	Smt. Inder kaur W/o T.K. - and others 11/12 share, N.K. Sharma Enterprises Pvt. Ltd 1/12 Share, Through Yadvinder Kumar Director
				24	Private	G.M.	0—12	H.U.F. Mahinder Singh S/o Mohan Singh and Sons 1/2, Satinderbir Singh S/o Harbans Singh 1/2 Share
				20/3	Private	G.M.	0—12	Smt. Inder kaur W/o T.K. - and others 11/12 share, N.K. Sharma Enterprises Pvt. Ltd 1/12 Share, Through Yadvinder Kumar Director
				4	Private	G.M.	0—12	Aggarwal Sales Ltd. 334 Share, Others 1412 Share (Total 1746 share)
				20/7/1	Govt.	G.M.	0—12	Sajay Puri S/o Banwari Lal
				7/12/1	Private	G.M.	0—7	Kabir Dass S/o Beli Ram
				7/2/2/1	Private	G.M.	0—3	Kabir Dass S/o Beli Ram
				7/2/2/2	Private	G.M.	0—2	Smt. Inder kaur W/o T.K. - and others 11/12 share, N.K. Sharma Enterprises Pvt. Ltd 1/12 Share, Through Yadvinder Kumar Director
				8/1	Private	G.M.	0—1	Kabir Dass S/o Beli Ram
				14/1	Private	G.M.	0—12	Kabir Dass S/o Beli Ram 38/160 Share, Santosh W/o Kabir Dass 16/160, Kamel Singh, Deepak Singh, Balbir Singh, Kamel Singh S/o Banarsi Dass 106/160 Share
				14/2	Private	G.M.	0—12	Harinder Singh S/o Hari Singh
				17/1	Private	G.M.	0—12	Jaswant Singh S/o Hari Singh 13/24 Share, Meera W/o Rajpal 11/24 Share
				17/2/1	Private	G.M.	0—12	Shashi Bansal W/o Narinder Bansal 80 Share and Others 298 Share (Total 378 Share)
				24/1/1	Private	G.M.	0—6	Manjit Kaur W/o Balbir Singh 1756 Share Others 1646 Share (Total 3402 share)
				24/1/2	Private	G.M.	0—6	Manjit Kaur W/o Balbir Singh 1756 Share Others 1646 Share (Total 3402 share)
				24/2	Private	G.M.	0—10	Jaswant Singh S/o Hari Singh
				25/1	Private	G.M.	0—1/1/2	Jaswant Singh S/o Hari Singh
				25/4/1	Private	G.M.	0—5	M/s M Care Medician and Reserch Pvt. Ltd 175 Share, Others 275 Share (Total 450 Share)

				4/2	Private	G.M.	0---2	Mukhtiyar Singh S/o Pakhar Singh 63/630, Gurnam Singh 189, Kulwant Singh S/o Nand Singh 102, Bhag Singh S/o Nanak Singh 189 Share, Parkash Chand S/o Gopi Ram, Bharpur Devi W/o Parkash Chand 27 Share
				5	Private	G.M.	0---9	Parkash Kaur W/o Harbhajan Singh 796 share, Others 617 Share (Total 1413 Share)
				6/1/1	Private	G.M.	0---6	Yadwinder Singh S/o Kanwar Kaur and Others
				6/1/2	Private	G.M.	0---5	Kartar Kaur Wd/o Langroo Ram and others
				25/6/2	Private	G.M.	0---1	Parkash Kaur W/o Harbhajan Singh 796 share, Others 617 Share (Total 1413 Share)
				7/1	Govt.	G.M.	0---6	Central Govt.
				7/2	Private	G.M.	0---8	Paramjit Kaur W/o Gurbachan Singh
				14	Private	G.M.	0---12	Paramjit Kaur W/o Gurbachan Singh
				15/1	Private	G.M.	0---4	Parmod W/o Lalit Mohan, Lalit Mohan S/o Ramji Das 149 Share, Others 220 Share (Total 369 Share)
				15/2/1	Private	G.M.	0---3	Gurbachan Kaur W/o Surinder Lal Singh S/o Mohinder Singh
				15/2/2	Private	G.M.	0---6	Surjit Singh S/o Bidhi Singh and Others
				16/1/2	Private	G.M.	0---4	Darshan Lal S/o Harbans Lal 277/360, Desh Raj S/o Beli Ram 83/360
				16/1/1	Private	G.M.	0---1	Baljit Kaur W/o Gurbachan Singh 85 Share, Others 8267 (Total 8352 Share)
				16/2	Private	G.M.	0---7	Baljit Kaur W/o Gurbachan Singh 85 Share, Others 8267 (Total 8352 Share)
				24	Private	G.M.	0---12	Hargopal S/o Gajaram 591 Share, Others 2955 (Total 3546 share)
				25/1	Private	G.M.	0---9	Baljit Kaur W/o Gurbachan Singh 85 Share, Others 8267 (Total 8352 Share)
				25/2	Private	G.M.	0---3	Sukhwinder Singh S/o Prab Diyal Singh and Others
				33/4	Private	G.M.	0---12	Pushpinder Kaur Wd/o Pritpal Singh, Gurtej Singh S/o Dedar Singh
				5	Private	G.M.	0---12	Sukhwinder Singh S/o Prab Diyal Singh and Others
				6/1	Private	G.M.	0---4	Sukhwinder Singh S/o Prab Diyal Singh and Others

[illegible]

[F.No. NHAI/BOT-II/11019/17/2003/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.